



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14—जुलाई 20, 2012 (आषाढ़ 23, 1934)  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14—JULY 20, 2012 (ASADHA 23, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2012

सेना शाखा

सं. 273, दिनांक 15 जून 2012—राष्ट्रपति महोदय, यथाशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

सेना चिकित्सा कोर

मेजर के पद पर

कप्तान प्रदीप मिश्रा (एमएस-16150ए) (एक्स एमएस-14020वाई), एएमसी, कमीशन की तिथि 29.07.2009, वेतन एवं पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 08 मार्च 2001 से प्रभावित होगी जिसमें कुल सेवा 8 वर्ष 143 दिन (5 वर्ष 143 दिन उनकी पिछली पूर्ण वेतन आयोग सेवा के लिए और 03 वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पूर्व-दिनांक वरिष्ठता शामिल है जो कि उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी। मेजर के पद पर वरिष्ठता 08 मार्च 2005 के गिनी जाएगी।

अधिकारी को मेजर का पद उनकी कमीशन की तिथि 29 जुलाई 2009 से प्रदान किया जाता है।

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान रितुराज कोटेकी (एमएस-16049ए) आयोग की तिथि 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान कल्याण कुमार भक्त (एमएस-16121एल) आयोग की तिथि 28 जुलाई 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 जनवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान हरसोडा रोहन जमनभाई (एमएस-15775एच) आयोग की तिथि 25 अप्रैल 2008 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान फुरित्साबम चिंगलेम्बा (एमएस-16058एफ) आयोग की तिथि 26 फरवरी 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 अगस्त 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान कार्तिकेय आर सिंह (एमएस-16258एक्स) आयोग की तिथि 20 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान नितिन गुप्ता (एमएस-16742के) आयोग की तिथि 14 जुलाई 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 14 जनवरी 2010 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान जयंत चक्रवर्ती (एमएस-16255के) आयोग की तिथि 19 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान नवनीता मण्डल (एमएस-16357ए) आयोग की तिथि 13 अगस्त 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 13 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान यशोलंकार भागवती (एमएस-16695एक्स) आयोग की तिथि 16 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान मिथुन कुमार (एमएस-16716एच) आयोग की तिथि 18 जून 2009 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान रणजीत सिंह लैहल (एमएस-16608वाई) आयोग की तिथि 15 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान आकांक्षी बलौरिया (एमएस-16508एन) आयोग की तिथि 09 फरवरी 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 09 अगस्त 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (ईएनटी) के लिए 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान मोसीन मुनीर (एमएस-16620ए), एएमसी, 15 जून 2010

कप्तान कुमारी नीतू (एमएस-16803डब्ल्यू), एएमसी, 21 अक्टूबर 2011

कप्तान राजन आनन्द (एमएस-16484पी), एएमसी, 09 जनवरी 2010

कप्तान लवेश कुमार अग्रवाल (एमएस-16604एच), एएमसी, 15 जून 2010

कप्तान मनोज रामकृष्ण काशीद (एमएस-16761पी), एएमसी, 11 दिसम्बर 2010

कप्तान शेक शफी राजा (एमएस-16323एम), एएमसी, 31 जुलाई 2009

फ्ला लेफिट के पद पर (परख पर)

फ्लाईट लेफिट राजेश कुमार (एमएस-16707एफ) (एफ-31093), आयोग की तिथि 17 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 जून 2007 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसिन (पैडियाट्रिक्स) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्लाईट लेफिट मयांलमबम उषारानी (एमएस-16466एम) (एफ-30890ए), आयोग की तिथि 08 जनवरी 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 08 जुलाई 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्लाईट लेफिट हर्ष प्रीत (एमएस-16433एफ) (एफ-30884के), आयोग की तिथि 01 जनवरी 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला लेफिट नरेन्द्र पचैहरा (एमएस-16444एन) (एफ-30889एच), एएमसी, 05 जनवरी 2010

फ्ला लेफ्टि रघुनन्दन बी (एमएस-16806के) (एफ-31427एच),  
एएमसी, 24 अगस्त 2011

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन  
7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

लेफ्टि हेमन्त हिमांशु परिहार (एमएस-16801एल), एएमसी, 10 सितम्बर  
2011

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन  
5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि जोशी दिपाली प्रकाश (एमएस-16804वाई), एएमसी,  
01 नवम्बर 2011

सर्जन लेफ्टि एस रवीन्द्रनाथ रेड्डी (एमएस-16478एफ), एएमसी,  
10 जनवरी 2010

सर्जन लेफ्टि राहुल जी (एमएस-16621एच), एएमसी, 16 जून 2010

सर्जन लेफ्टि बेनित नेलसन (एमएस-16622एल), एएमसी, 16 जून  
2010

सर्जन लेफ्टि चन्द्रन आर (एमएस-16631एम), एएमसी, 16 जून  
2010

सर्जन लेफ्टि श्याम एन (एमएस-16681एक्स), एएमसी, 16 जून 2010

सर्जन लेफ्टि गौरीशंकर के (एमएस-16735एन), एएमसी, 07 जुलाई  
2010

राष्ट्रपति महोदय, यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन  
7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टि अहमद जैड जमाल (एमएस-16771वाई), एएमसी,  
18 मार्च 2011

सर्जन सब लेफ्टि वीभू तिवारी (एमएस-16773के), एएमसी, 18 मार्च  
2011

सर्जन सब लेफ्टि गौतम गिरिश (एमएस-16800एच), एएमसी,  
10 सितम्बर 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

-----  
(सेना शाखा)

सं. 274, दिनांक 15 जून 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्ष  
नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

निम्नलिखित 165 (एक सौ पैंसठ) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि  
111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम टी जी सी और 19 विश्वविद्यालय प्रवेश  
योजना यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी प्रदर्शित  
टी जी सी और यू प्रदर्शित यू ई एस उपसर्ग लगे हुए हैं को 11 जून 2011 पूर्वाह्न  
से तथा इनमें से दो जी सी जिनका आई एम ए सं. यू/1051 तथा यू/1086 है  
जो कमीशनिंग के समय एल एम सी थे, बाद में शेष-1 होने पर क्रमशः  
17 जून 2011 एवं 30 अगस्त 2011 के पूर्वाह्न से विशेष सेना अनुदेश  
1/एस/94 यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम  
वालों को और सेना अनुदेश 2/93 यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के  
अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थाई आयोग  
अनुदान किया जाता है उन्हें 14 जून 2009 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94  
यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को  
और सेना अनुदेश 2/93 यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई  
एस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा  
उन्नति के लिए दी जाती है :--

यू/1026 वरुण सूद (75659के), इंजीनियर्स

टी/6807 अंकित हरजाई (75660वाई), एसी

यू/1054 नितिन पाण्डे (75661एफ), आर्टी

टी/6809 सौरभ पाण्डेय (75662के), एओसी

यू/1023 मनोज महतोलिया (75663एम), एसी

यू/1041 सुखजीत सिंह (75664पी), सिग्नल्स

टी/6825 कार्तिक बिष्ट (75665एक्स), सिग्नल्स

यू/1058 मेहित सेहदेव (75666ए), मैक इन्फैन्ट्री

यू/1086 माईसनाम दीपक कुमार (75667एच), ईएमई

टी/6756 योगेश कुमार शुक्ला (75668एल), एएससी	टी/6753 हरीश एस, (75701एक्स), इन्फैन्ट्री
टी/6762 मनदीप (75669 एन), एसी	टी/6761 नवीन दलाल, (75702ए), इंजीनियर्स
टी/6841 आकाश कुण्डू (75670एच), आर्टी	टी/6885 गुरसिमरनजीत सिंह, (75703एच), आर्टी
यू/1038 अभिलाष चन्द (75671एल), इंजीनियर्स	टी/6763 मनतेज सिंह रियाह, (75704एल), आर्टी
टी/6856 शिराज चौधरी (75672एन), ईएमई	यू/1030 विकास झा, (75705एन), सिग्नल्स
यू/1034 विकास सिंह (75673डब्ल्यू), आर्टी	टी/6752 के नवीन कुमार, (75706डब्ल्यू), ईएमई
टी/6801 भरत गुप्ता (75674वाई), इन्फैन्ट्री	टी/6863 कीर्ति वर्धन सिंह चौहान, (75707वाई), एएससी
यू/1029 देवेन्द्र सिंह मालध्या (75675एफ), आर्टी	टी/6815 अखिल शर्मा, (75708एफ), ईएमई
यू/1084 राहुल रावत (75676के), इंजीनियर्स	यू/1032 एल प्रशान्त, (75709के), एएडी
टी/6817 पंकज कुमार यादव (75677एम), एएससी	टी/6804 अभिनव मितल, (75711एफ), एएससी
टी/6779 ऋतुराज बहुखण्डी (75678पी), इन्फैन्ट्री	यू/1067 सायन मित्रा, (75712के), इंजीनियर्स
यू/1053 सलिल जोशी (75679एक्स), एसी	यू/1083 प्रशांत गुप्ता, (75713एन), इंजीनियर्स
यू/1025 प्रवीण सिंह (75680एम), सिग्नल्स	टी/6775 नन्दु आर मेनोन, (75714पी), इंजीनियर्स
टी/6862 अंकुश शर्मा (75681पी), इन्फैन्ट्री	यू/1044 कुलदीप कुमार, (75715एक्स), इंजीनियर्स
टी/6783 ऐलेक्स डनियल (75682एक्स), मैक इन्फैन्ट्री	यू/946 पूरणजीत सिंह मेहता, (75716ए), मैक इन्फैन्ट्री
टी/6879 अजय मोर (75683ए), ईएमई	यू/1085 सांगले स्टिफन अगस्टेन, (75717एच), इंजीनियर्स
यू/1028 पियुष धारीवाल (75684एच), एओसी	यू/1022 गगनदीप सिंह, (75718एल), सिग्नल्स
टी/6757 मनिन्दर पाल सिंह (75685एल), एएडी	यू/1088 अंतरिक्ष सलाथिया, (75719एन), इन्फैन्ट्री
यू/1037 अमित गर्ग (75686एन), ईएमई	टी/6865 देभपल्लव बरूवा, (75720एच), इंजीनियर्स
टी/6840 ललित कुमार तिवारी (75687डब्ल्यू), इन्ट	यू/1050 येंडे राष्ठावेन्द्र कुमार, (75721एल), इंजीनियर्स
टी/6867 अनन्त शुक्ला (75688वाई), ईएमई	टी/6839 जिशो थोमस, (75722एन), आर्टी
टी/6789 संदीप कुमार मिश्रा (75689एफ), एएडी	टी/6755 संदीप हलदार, (75723डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
टी/6838 नितिन शर्मा (75690डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री	यू/1068 गुरबिन्दर सिंह, (75724वाई), सिग्नल्स
यू/1070 सागर सुमन (75691वाई), इन्फैन्ट्री	टी/6803 रविन्द्र सिंह श्योरान, (75725एफ), एओसी
यू/1080 अनीष पूनिया (75692एफ), सिग्नल्स	टी/6871 जितेन भाकर, (75726के), एओसी
टी/6870 चंदन सिंह (75693के), इन्फैन्ट्री	टी/6852 अम्बर राए कालिया, (75727एम), इंजीनियर्स
टी/6788 विशाल भाटिया (75694एम), इन्फैन्ट्री	टी/6847 वी अद्वैत, (75728पी), इंजीनियर्स
टी/6760 जसजीत सिंह (75695पी), ईएमई	टी/6833 ताजूदीन बागीवाडी, (75729एक्स), मैक इन्फैन्ट्री
टी/6811 एम राघवेंद्रन (75696एक्स), आर्टी	टी/6769 ननुगंसिंग जाजो, (75730एम), एओसी
टी/6758 शिवेक शर्मा (75697ए), आर्टी	
टी/6764 सी दिनेश (75698एच), एएडी	
टी/6814 अमरजीत सिंह (75699एल), एएससी	
यू/1069 मयंक जोशी (75700पी), सिग्नल्स	

यू/1024 प्रद्युम्न टी एस, (75731पी), इंजीनियर्स  
टी/6822 आशीष पारीक, (75732एक्स), एसी  
टी/6812 प्रवीण एम के, (75733ए), एएडी  
टी/6861 प्रशान्त डोगरा, (75734एच), ईएमई  
टी/6883 कौशल शर्मा, (75735एल), मैक इन्फैन्ट्री  
टी/6766 ध्रुवजीत दास, (75736एन), ईएमई  
टी/6842 पार्थ सारथि बटव्याल, (75737डब्ल्यू), आर्टी  
यू/1007 दुर्लव स्वैन, (75738वाई), एएडी  
यू/1060 अभिनव गंगराडे, (75741वाई), इंजीनियर्स  
यू/1066 हर्षित महाजन, (75742एफ), आर्टी  
यू/1043 प्रत्यक्ष मुदगिल, (75743के), ईएमई  
यू/1059 अमित अन्सल, (75744एम), ईएमई  
यू/1046 कार्तिक सक्सेना, (75745पी), एसी  
यू/1055 पल्लव कुमार, (75747ए), सिग्नल्स  
टी/6798 धीरज शर्मा, (75748एच), मैक इन्फैन्ट्री  
टी/6792 प्रशान्त वी, (75749एल), इन्फैन्ट्री  
यू/1075 राजेश कुमार, (75750ए), ईएमई  
टी/6730 कोस्तुभ रॉय, (75751एच), सिग्नल्स  
यू/1045 हरि वैभव, (75752एल), ईएमई  
टी/6787 हरप्रीत सिंह रैणा, (75753एन), इन्फैन्ट्री  
टी/6818 रिशमजोत सिंह बिन्द्रा, (75754डब्ल्यू), इंजीनियर्स  
यू/1035 निशान्त निलेकर, (75755वाई), ईएमई  
टी/6819 राजीव सुनील काम्बले, (75756एफ), एएससी  
टी/6828 नवजोत रेखी, (75757के), एएससी  
यू/1076 मेहुल ओ असनानी, (75758एम), इंजीनियर्स  
यू/1057 तरुण ऐलेक्स, (75759पी), सिग्नल्स  
टी/6880 अमित वर्मा, (75760के), मैक इन्फैन्ट्री  
टी/6774 टीटी बद्दीनाथ टीटी भारद्वाज, (75761एम), सिग्नल्स  
टी/6767 जगजीत भगीरथ, (75762पी), इंजीनियर्स  
टी/6873 रोहित, (75763एक्स), इंजीनियर्स  
यू/1074 अभय कुमार, (75764ए), ईएमई  
टी/6772 हेमन्त कुमार यादव, (75765एच), सिग्नल्स

यू/1049 रोषण् एस, (75766एल), ईएमई  
यू/1036 राहुल महाजन, (75767एन), आर्टी  
टी/6868 एस मोहम्मद सादिक उल अमीन, (75768डब्ल्यू), आर्टी  
टी/6872 विशाल भारती, (75769वाई), आर्टी  
यू/1056 अरूण कृष्णनन, (75770एन), इंजीनियर्स  
टी/6759 मनीष थापा, (75771डब्ल्यू), ईएमई  
टी/6771 आयुष पाठक, (75772वाई), आर्टी  
टी/6799 शेरास एम, (75773एफ), आर्टी  
टी/6849 श्रीकान्त गोविन्द कुमार, (75774के), इन्फैन्ट्री  
टी/6813 के नवीन रेड्डी, (75775एम), इंजीनियर्स  
टी/6754 जयजीत कच्छवाहा, (75776पी), एसी  
यू/1047 गौरव कुमार, (75777एक्स), एएडी  
टी/6836 सन्नी गांधी, (75778ए), इंजीनियर्स  
टी/6820 दीपक दुबे, (75779एच), आर्टी  
यू/1052 घनू कुमार राय, (75780एक्स), इंजीनियर्स  
टी/6794 अभिषेक वखलु, (75781ए), सिग्नल्स  
टी/6806 मनारूलकर अमया चन्द्रकान्त, (75782एच), सिग्नल्स  
टी/6869 प्रमित कुन्तल, (75783एल), इन्फैन्ट्री  
टी/6855 लोमेश सिरोही, (75784एन), इंजीनियर्स  
टी/6780 मधुसुधन उपाध्याय, (75785डब्ल्यू), ईएमई  
टी/6793 अर्जुन चौहान, (75786वाई), एसी  
टी/6784 तन्मय भारद्वाज, (75787एफ), इन्फैन्ट्री  
टी/6859 अजय शर्मा, (75788के), ईएमई  
टी/6805 गिरीश बलिहार, (75789एम), इन्ट  
टी/6795 सिमरनजीत सिंह, (75790एफ), मैक इन्फैन्ट्री  
टी/6881 अर्पित कंसल, (75791के), आर्टी  
यू/1073 संकेत शर्मा, (75792एम), सिग्नल्स  
यू/973 अर्पित सचदेवा, (75793पी), आर्टी  
यू/1064 शंकर कहल, (75794एक्स), इंजीनियर्स  
टी/6835 मनमोहन सिंह, (75795ए), सिग्नल्स  
टी/6858 विवेक शर्मा, (75796एच), ईएमई  
टी/6796 सैनेश भारद्वाज, (75797एल), इन्फैन्ट्री

टी/6834 साहिल रैना, (75798एन), सिग्नल्स  
 टी/6765 अनिल कुमार, (75799डब्ल्यू), सिग्नल्स  
 टी/6864 शक्ति सिंह, (75800ए), एसी  
 यू/1079 अतहर यूसुफ, (75801एच), ईएमई  
 टी/6830 आशुतोष आशीष, (75802एल), इंजीनियर्स  
 यू/1072 सार्थक नौटियाल, (75803एन), इंजीनियर्स  
 टी/6844 ऋषभ कुमार सक्सेना, (75804डब्ल्यू), ईएमई  
 यू/1040 दीपक कुमार, (75805वाई), इंजीनियर्स  
 टी/6846 आशीष महे, (75806एफ), आर्टी  
 यू/1081 पुष्पिंदर सिंह मन्हास, (75807के), सिग्नल्स  
 यू/1021 दीपन सुदर्शन जी, (75808एम), ईएमई  
 यू/1051 एम भरत कुमार, (75809पी), इंजीनियर्स  
 यू/1061 विपुल विपिन रखेजा, (75810के), एएडी  
 यू/1063 रिषीश ठाकुर, (75811एम), एओसी  
 टी/6773 सचिन चौधरी, (75812पी), इन्फैन्ट्री  
 टी/6808 अनुपम पोरवाल, (75813एक्स), ईएमई  
 यू/1033 विमल कुमार नायर वि, (75814ए), इन्फैन्ट्री  
 टी/6791 बिकरमजीत सिंह, (75815एच), इन्फैन्ट्री  
 टी/6845 नवतेज सिंह चोपड़ा, (75816एल), आर्टी  
 टी/6797 हिमांशु यादव, (75817एन), मैक इन्फैन्ट्री  
 टी/6837 हिमांशु निगम, (75819वाई), एएससी  
 टी/6854 हरी दत्त पोखरियाल, (75820एन), एएससी  
 टी/6821 नवप्रीत सिंह सन्धु, (75821डब्ल्यू), एएडी  
 यू/1077 शिवेन्द्र सिंह अहलावत, (75822वाई), एसी  
 यू/1089 प्रिंस शर्मा, (75823एफ), आर्टी  
 टी/6850 आशीष चौधरी, (75825एम), इन्फैन्ट्री  
 टी/6866 अमनबीर सिंह सिद्धु, (75826पी), एएससी  
 यू/1031 अंकित गुप्ता, (75827एक्स), एसी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 159 (एक सौ उनसठ) जैण्टलमैन कैंडिडेट्स जो कि 111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम टी जी सी और विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के

अंतर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत यू ई एस 19 पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

111 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/6752 के नवीन कुमार, (44570डब्ल्यू), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6753 हरीश एस, (44571वाई), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6754 जयजीत कच्छवाहा, (44572एफ), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6755 संदीप हलदार, (44573के), ईएमई 14 जुलाई 2010  
 टी/6756 योगेश कुमार शुक्ला, (44574एम), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6757 मनिन्दर पाल सिंह, (44575पी), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6758 शिवेक शर्मा, (44576एक्स), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6759 मनीष थापा, (44577ए), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6760 जसजीत सिंह, (44578एच), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6761 नवीन दलाल, (44579एल), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6762 मनदीप, (44580ए), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6763 मनतेज सिंह रियाह, (44581एच), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6764 सी दिनेश, (44582एल), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6765 अनिल कुमार, (44583एन), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6766 ध्रुवजीत दास, (44584डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6767 जगजीत भगीरथ, (44585वाई), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6769 ननुगंसिंग जाजो, (44587के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6771 आयुष पाठक, (44589पी), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6772 हेमन्त कुमार यादव, (44590के), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6773 सचिन चौधरी, (44591एम), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010  
 टी/6774 टीटी बद्रीनाथ टीटी भारद्वाज, (44592पी), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6775 नन्दु आर मेनोन, (44593एक्स), ईएमई, 14 जुलाई 2010  
 टी/6779 ऋतुराज बहुखण्डी, (44597एन), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6780 मधुसुधन उपाध्याय, (44598डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6783 ऐलेक्स डनियल, (44601एल), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6784 तन्मय भारद्वाज, (44602एन), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6787 हरप्रीत सिंह रैणा, (44605एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6788 विशाल भाटिया, (44606के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6789 संदीप कुमार मिश्रा, (44607एम), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6791 बिकरमजीत सिंह, (44609एक्स), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6792 प्रशान्त वी, (44610एम), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6793 अर्जुन चौहान, (44611पी), ईएमई, 14 जुलाई 2010

टी/6794 अभिषेक वखलु, (44612एक्स), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6795 सिमरनजीत सिंह, (44613ए), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6796 सैनेश भारद्वाज, (44614एच), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6797 हिमांशु यादव, (44615एल), ईएमई, 14 जुलाई 2010

टी/6798 धीरज शर्मा, (44616एन), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010

टी/6799 शेरास एम, (44617डब्ल्यू), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010

टी/6801 भरत गुप्ता, (44619एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6803 रविन्द्र सिंह श्योराण, (44621वाई), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6804 अभिनव मितल, (44622एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6805 गिरीश बलिहार, (44623के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6806 मन्गरूलकर अमया चन्द्रकान्त, (44624एम), ईएमई, 14 जुलाई 2010

टी/6807 अंकित हरजाई, (44625पी), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010

टी/6808 अनुपम पोरवाल, (44626एक्स), ईएमई, 14 जुलाई 2010

टी/6809 सौरभ पाण्डेय, (44627ए), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010

टी/6811 एम राघवेन्द्रन, (44628एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2010

टी/6812 प्रवीण एम के, (44629एल), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2010

टी/6813 के नवीन रेड्डी, (44630ए), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2010

टी/6814 अमरजीत सिंह, (44631एच), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2010

टी/6815 अखिल शर्मा, (44632एल), इंजीनियर्स, 16 जुलाई 2010

टी/6817 पंकज कुमार यादव, (44633एन), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6818 रिशमजोत सिंह बिन्द्रा, (44634डब्ल्यू), ईएमई, 17 जुलाई 2010

टी/6819 राजीव सुनील काम्बले, (44635वाई), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6820 दीपक दुबे, (44636एफ), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6821 नवप्रीत सिंह सन्धु, (44637के), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6822 आशीष पारीक, (44638एम), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6825 कार्तिक बिष्ट, (44639पी), सिग्नल्स, 17 जुलाई 2010

टी/6828 नवजोत रेखी, (44640के), ईएमई, 17 जुलाई 2010

टी/6830 आशुतोष आशीष, (44642पी), ईएमई, 19 जुलाई 2010

टी/6833 ताजूदीन बागीवाडी, (44644ए), सिग्नल्स, 19 जुलाई 2010

टी/6834 साहिल रैना, (44645एच), सिग्नल्स, 19 जुलाई 2010

टी/6835 मनमोहन सिंह, (44646एल), सिग्नल्स, 20 जुलाई 2010

टी/6836 सन्नी गौंधी, (44647एन), ईएमई, 20 जुलाई 2010

टी/6837 हिमांशु निगम, (44648डब्ल्यू), सिग्नल्स, 20 जुलाई 2010

टी/6838 नितिन शर्मा, (44649वाई), सिग्नल्स, 20 जुलाई 2010

टी/6839 जीशो थॉमस, (44650एन), इंजीनियर्स, 22 जुलाई 2010

टी/6840 ललित कुमार तिवारी, (44651डब्ल्यू), सिग्नल्स, 22 जुलाई 2010

टी/6841 आकाश कुण्डु, (44652वाई), इंजीनियर्स, 24 जुलाई 2010

टी/6842 पार्थ सारथि बटव्याल, (44653एफ), इंजीनियर्स, 24 जुलाई 2010

टी/6844 ऋषभ कुमार सक्सेना, (44654के), ईएमई, 26 जुलाई 2010

टी/6845 नवतेज सिंह चोपड़ा, (44655एम), ईएमई, 26 जुलाई 2010

टी/6846 आशीष महे, (44656पी), सिग्नल्स, 26 जुलाई 2010

टी/6847 वी अद्वैत, (44657एक्स), ईएमई, 26 जुलाई 2010

टी/6849 श्रीकान्त गोविन्द कुमार, (44659एच), सिग्नल्स, 27 जुलाई 2010

टी/6850 आशिष चौधरी, (44660एक्स), सिग्नल्स, 27 जुलाई 2010

टी/6852 अम्बर राए कालिया, (44661ए), ईएमई, 27 जुलाई 2010

टी/6854 हरी दत्त पोखरियाल, (44662एच), ईएमई, 27 जुलाई 2010

टी/6855 लोमेश सिरोही, (44663एल), ईएमई, 27 जुलाई 2010

टी/6856 शिराज चौधरी, (44664एन), ईएमई, 27 जुलाई 2010

टी/6858 विवेक शर्मा, (44666वाई), ईएमई, 01 अगस्त 2010

- टी/6859 अजय शर्मा, (44667एफ), सिग्नल्स, 31 जुलाई 2010
- टी/6861 प्रशान्त डोगरा, (44669एम), ईएमई, 02 अगस्त 2010
- टी/6862 अंकुश शर्मा, (44670एफ), सिग्नल्स, 02 अगस्त 2010
- टी/6863 कीर्ति वर्धन सिंह चौहान, (44671के), ईएमई, 02 अगस्त 2010
- टी/6864 शक्ति सिंह, (44672एम), सिग्नल्स, 02 अगस्त 2010
- टी/6865 देभपल्लव बरूवा, (44673पी), ईएमई, 02 अगस्त 2010
- टी/6866 अमनबीर सिंह सिद्धू, (44674एक्स), सिग्नल्स, 04 अगस्त 2010
- टी/6867 अनन्त शुक्ला, (44675ए), ईएमई, 05 अगस्त 2010
- टी/6868 एस मोहम्मद सादिक उल अमीन, (44676एच), ईएमई, 05 अगस्त 2010
- टी/6869 प्रमित कुन्तल, (44677एल), सिग्नल्स, 05 अगस्त 2010
- टी/6870 चन्दन सिंह, (44678एन), सिग्नल्स, 05 अगस्त 2010
- टी/6871 जितेन भाकर, (44679डब्ल्यू), सिग्नल्स, 05 अगस्त 2010
- टी/6872 विशाल भारती, (44680एल), सिग्नल्स, 05 अगस्त 2010
- टी/6873 रोहित, (44681एन), ईएमई, 06 अगस्त 2010
- टी/6879 अजय मोर, (44687पी), ईएमई, 13 अगस्त 2010
- टी/6880 अमित वर्मा, (44688एक्स), ईएमई, 16 अगस्त 2010
- टी/6881 अर्पित कंसल, (44689ए), सिग्नल्स, 16 अगस्त 2010
- टी/6883 कौशल शर्मा, (44691एक्स), सिग्नल्स, 16 अगस्त 2010
- टी/6885 गुरसिमरनजीत सिंह, (44693एच), सिग्नल्स, 16 अगस्त 2010
- 19 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम
- यू/1021 दीपन सुदर्शन जी, (44695एन), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1022 गगनदीप सिंह, (44696डब्ल्यू), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1023 मनोज महतोतिया, (44697वाई), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1024 प्रद्युमन् टीएस, (44698एफ), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1025 प्रवीण सिंह, (44699के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1026 वरुण सूद, (44700एन), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1028 पियूष धारीवाल, (44702वाई), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1029 देवेन्द्र सिंह मालध्या, (44703एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1030 विकास झा, (44704के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1031 अंकित गुप्ता, (44705एम), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1032 एल प्रशान्त, (44706पी), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1033 विमल कुमार नायर वी, (44707एक्स), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1034 विकास सिंह, (44708ए), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1035 निशान्त निलेकर, (44709एच), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1036 राहुल महाजन, (44710एक्स), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1037 अमित गर्ग, (44711ए), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1038 अभिलाष चन्द, (44712एच), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1040 दीपक कुमार, (44714एन), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1041 सुखजीत सिंह, (44715डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1043 प्रत्यक्ष मुदगिल, (44717एफ), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1044 कुलदीप कुमार, (44718के), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1045 हरि वैभव, (44719एम), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1046 कार्तिक सक्सेना, (44720एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1047 गौरव कुमार, (44721के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1049 रोषण एस, (44723पी), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1050 येंडे राघ्नावेन्द्र कुमार, (44724एक्स), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1051 एम भरत कुमार, (44725ए), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1052 घनू कुमार राय, (44726एच), इंजीनियर्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1053 सलिल जोशी, (44727एल), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1054 नितिन पाण्डे, (44728एन), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1055 पल्लव कुमार, (44729डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1056 अरूण कृष्णन, (44730एल), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1057 तरूण ऐलेक्स, (44731एन), ईएमई, 14 जुलाई 2010
- यू/1058 मोहित सेहदेव (44732डब्ल्यू), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1059 अमित अन्सल, (44733वाई), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1060 अभिनव गंगराडे, (44734एफ), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1061 विपुल विपिन रखेजा, (44735के), सिग्नल्स, 14 जुलाई 2010
- यू/1063 रिषीष ठाकुर, (44737पी), ईएमई, 16 जुलाई 2010
- यू/1064 शंकर कहल, (44738एक्स), ईएमई, 17 जुलाई 2010
- यू/1066 हर्षित महाजन, (44740पी), सिग्नल्स, 18 जुलाई 2010
- यू/1067 सायन मिश्रा, (44741एक्स), ईएमई, 19 जुलाई 2010
- यू/1068 गुरबिन्दर सिंह, (44742ए), सिग्नल्स, 20 जुलाई 2010



यू/1069 मयंक जोशी, 44743एच, सिग्नल्स, 20 जुलाई 2010  
 यू/1070 सागर सुमन, 44744एल, सिग्नल्स, 01 जुलाई 2009  
 यू/1072 सार्थक नौटियाल, 44746डब्ल्यू, ईएमई, 03 अगस्त 2009  
 यू/1073 संकेत शर्मा, 44747वाई, ईएमई, 01 अगस्त 2009  
 यू/1074 अभय कुमार, 44748एफ, ईएमई, 01 अगस्त 2009  
 यू/1075 राजेश कुमार, 44749के, ईएमई, 01 अगस्त 2009  
 यू/1076 मेहुल ओ असनानी, 44750वाई, ईएमई, 22 जून 2009  
 यू/1077 शिवेन्द्र सिंह अहलावत, 44751एफ, ईएमई, 01 जुलाई 2009  
 यू/1079 अतहर यूसुफ, 44753एम, ईएमई, 01 अगस्त 2009  
 यू/1080 अनीष पूनिया, 44754पी, सिग्नल्स, 01 अगस्त 2009  
 यू/1081 पुष्पिंदर सिंह मन्हास, 44755एक्स, सिग्नल, 01 अगस्त 2009  
 यू/1083 प्रशांत गुप्ता, 44757एच, इंजीनियर्स, 01 अगस्त 2009  
 यू/1084 राहुल रावत, 44758एल, ईएमई, 17 जुलाई 2010  
 यू/1085 सांगले स्टिफन अगस्टेन, 44759एन, ईएमई, 26 जुलाई 2010  
 यू/1086 माईसनाम दीपक कुमार, 44760एच, सिग्नल्स, 02 जुलाई 2009  
 यू/1088 अंतरिक्ष सलाथिया, 44762एन, ईएमई, 17 जुलाई 2010  
 यू/1089 प्रिंस शर्मा, 44763डब्ल्यू, सिग्नल्स, 19 जुलाई 2010  
 जेण्टलमैन कैंडेड्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

राहुल सांगवान  
 ले कर्नल  
 एमएमएस-8बी

#### सेना शाखा

संख्या 275, दिनांक 18 जून 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएस/एसएससी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

#### नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

(एमएस-13999के) मेजर पूवन्नन जी, 23 मार्च 2011

स्काइन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

(एमएस-14852ए), (एफ-26047एफ) स्काइन लीडर सोनाली प्रासर, 30 अगस्त 2011

(एमएस-14255एल), (एफ-26068टी) स्काइन लीडर पांसग दोमा दुक्या, 19 फरवरी 2012

कैप्टन से मेजर के पद पर

(एमएस-15253एम) कैप्टन रवि प्रकाश, 20 फरवरी 2011

(एमएस-15267एम) कैप्टन वनित गर्ग, 20 फरवरी 2011

(एमएस-15412वाई) कैप्टन राकेश मिश्रा, 01 सितम्बर 2011

(एमएस-15413एफ) कैप्टन ललित कुमार यादव, 05 अक्टूबर 2011

(एमएस-15414के) कैप्टन अभिषेक मोघे, 30 सितम्बर 2011

(एमएस-15577एक्स) कैप्टन सीमा सुभाष रेवणकर, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15605वाई) कैप्टन नरेन्द्र कुमार कौसाम, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15607के) कैप्टन मधुकर कुमार, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15610के) कैप्टन अदित्या सिंह राणा, 06 मार्च 2011

(एमएस-15612पी) कैप्टन तारिकजोत सिंह, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15615एच) कैप्टन सुमित मुध, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15620एन) कैप्टन दांडेकर प्राजक्ता प्रफुल्ला, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15623एफ) कैप्टन रोबी बोस, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15645ए) कैप्टन जितेन्द्र शुक्ला, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15718एफ) कैप्टन सोनिया दत्ता, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15724पी) कैप्टन संदीप एम के, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15738पी) कैप्टन राजकुमार मंलेम, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15753के) कैप्टन मनोज शर्मा, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15757ए) कैप्टन नेहा सोडी, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15763एन) कैप्टन शरवन सिंगला, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15788ए) कैप्टन नरोत्तम शर्मा, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15791ए) कैप्टन सुमीत कुमार सिंह, 25 अक्टूबर 2011

(एमएस-15829वाई) कैप्टन अमित चोपडा, 22 नवम्बर 2011

(एमएस-16595एम) कैप्टन श्वेता सिकरवार, 15 जून 2011

(एमएस-16698एल) कैप्टन डी प्रिया, 16 जून 2011

(एमएस-16728एक्स) कैप्टन अश्विनी कुमार मिश्र, 01 जनवरी 2011

(एमएस-15254पी) कैप्टन चन्द्रकान्त एन, 20 फरवरी 2011

(एमएस-15255एक्स) कैप्टन दिनेश कुण्ड, 20 फरवरी 2011  
 (एमएस-15290ए) कैप्टन दीपक कुमार ठाकुर, 20 फरवरी 2011  
 (एमएस-15296एफ) कैप्टन मनीषा रॉय, 23 फरवरी 2011  
 (एमएस-15408डब्ल्यू) कैप्टन गौतम सिधौ, 01 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15429एम) कैप्टन कुरमाय्यागीर गोपीनाथ, 22 जनवरी 2011  
 (एमएस-15572वाई) कैप्टन पंकु कुमार, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15579एच) कैप्टन निखाडे रविकिरन दामोधरराव, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15582एच) कैप्टन मुहम्मद आरिफ सलीम, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15598एन) कैप्टन पारूल गुप्ता, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15601एच) कैप्टन माजी नवमीता मृनालकान्ती, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15622वाई) कैप्टन पंकज गुप्ता, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15628ए) कैप्टन रेखा शर्मा, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15629एच) कैप्टन उमर नजीर, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-156635डब्ल्यू) कैप्टन राजन गुप्ता, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15638के) कैप्टन कृष्णा कुमार के, 06 सितम्बर 2011  
 (एमएस-15639एम) कैप्टन सोनू सिंह, 06 सितम्बर 2008  
 (एमएस-16593एफ) कैप्टन शिल्पी, 15 जून 2011  
 (एमएस-16612एफ) कैप्टन प्रशान्त गुप्ता, 15 जून 2011  
 (एमएस-16646पी) कैप्टन मुकेश, 15 जून 2011

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्काइन लीडर के पद पर

(एमएस-15559पी) (एफ 28866एच) फ्ला लेफ्टि ज्योति सिंह, 22 सितम्बर 2010

(एमएस-15475एफ) (एफ-28879एफ) फ्ला लेफ्टि सचिवा सिंह, 22 जुलाई 2010

(एमएस-15585डब्ल्यू) (एफ-29420एफ) फ्ला लेफ्टि रवी जोशी, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15603एन) (एफ-29416ए) फ्ला लेफ्टि अरविन्द कुमार गौतम, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15633एल) (एफ-29414एन) फ्ला लेफ्टि ठोबरे प्रमोद सोपानराव, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15809एल) (एफ-29436एल) फ्ला लेफ्टि शानतु दुवारा, 25 अक्टूबर 2011

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

(एमएस-15467एच) (75936एफ) सर्जन लेफ्टि अमित शर्मा, 22 जुलाई 2010

(एमएस-15495पी) (75946बी) सर्जन लेफ्टि ठाकरे प्रणाब एकनाथ, 20 मार्च 2011

(एमएस-15569वाई) (75960के) सर्जन लेफ्टि अमरदीप सिंह परमार, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-15602एल) (75967ए) सर्जन लेफ्टि सोमराज गुप्ता, 06 सितम्बर 2011

(एमएस-16236वाई) (76042वाई) सर्जन लेफ्टि मनोज कुमार एम, 13 अगस्त 2011

(एमएस-15406एल) (75933जेड) सर्जन लेफ्टि अहमद मुस्तफा मतीन, 04 सितम्बर 2011

(एमएस-16140डब्ल्यू) (75039आर) सर्जन लेफ्टि मिलि दास चौधुरी, 28 जुलाई 2010

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

(गैर तकनीकी)

कप्तान से मेजर के पद पर

(एनटीआर-16759एक्स) कप्तान अरुण कुमार गुप्ता, 19 मई 2010

ब्रिगेडियर यश पांडे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

-----

वायु शाखा

संख्या 276, दिनांक 18 जून 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:-

भारतीय वायु सेना

लेखा शाखा

एयर कमांडर के मूल रैंक में

एयर कमांडर आर मल्होत्रा (15771) लेखा, 02 अप्रैल 2012

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

-----

एयर शाखा

सं. 277, दिनांक 19 जून 2012 नं. वासेमु/106681/पीए(सीपीसी) दिनांक मार्च 2012--भारत के राष्ट्रपति ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित पदोन्नतियों की हैं:-

जूवाअ से मूल वाअ

वाअ रमा कांत सिंह (609617), एसीएचजीडी, 17 सितम्बर 2011

वाअ राजेन्द्र यादव (613780), एसीएचजीडी, 15 सितम्बर 2011

वाअ जगतार सिंह बुट्टर (614067), एसीएचजीडी, 11 सितम्बर 2011

वाअ सूर्यानाथ (614322), एसीएचजीडी, 27 सितम्बर 2011  
वाअ ओम प्रकाश सिंह चौहान (614491), एसीएचजीडी, 01 अक्टूबर 2011  
वाअ अरूण कुमार सिंह (614833), एसीएचजीडी, 15 अक्टूबर 2011  
वाअ रामायण प्रताप सिंह (614954), एसीएचजीडी, 01 अक्टूबर 2011  
वाअ बलराम भट्टा (617729), एसीएचजीडी, 15 अक्टूबर 2011  
वाअ वीरभान त्यागी (618610), एसीएचजीडी, 13 सितम्बर 2011  
वाअ महकार सिंह वर्मा (619601), एसीएचजीडी, 13 अक्टूबर 2011  
वाअ जीवन सिंह अधिकारी (621257), एसीएचजीडी, 25 सितम्बर 2011  
वाअ रबी शंकर पॉल (622541), एसीएचजीडी, 29 सितम्बर 2011  
वाअ कुशलाब रॉय (627196), एसीएचजीडी, 09 सितम्बर 2011  
वाअ ऋषि देओ सिंह (632792), एसीएचजीडी, 15 सितम्बर 2011  
वाअ पारस नाथ सिंह (642952), एसीएचजीडी, 01 अक्टूबर 2011  
वाअ विद्या नंदन सिंह (644946), एसीएचजीडी, 19 सितम्बर 2011  
वाअ चरण सिंह (645040), एसीएचजीडी, 25 सितम्बर 2011  
वाअ राम शरण (645773), एसीएचजीडी, 11 सितम्बर 2011  
वाअ अर्जुन प्रसाद वर्मा (645924), एसीएचजीडी, 13 सितम्बर 2011  
वाअ रण सिंह (646645), एसीएचजीडी, 19 सितम्बर 2011  
वाअ बिपिन बिहारी वर्मा (646651), एसीएचजीडी, 15 अक्टूबर 2011  
वाअ आधार कुमार (646880), एसीएचजीडी, 15 अक्टूबर 2011  
वाअ अशरफी लाल (647088), एसीएचजीडी, 21 सितम्बर 2011  
वाअ प्रहलाद चंद्र दास (647355), एसीएचजीडी, 19 सितम्बर 2011  
वाअ प्रहलाद चंद्र दास (647355), एसीएचजीडी, 19 सितम्बर 2011  
वाअ हरी शंकर मिश्रा (647529), एसीएचजीडी, 25 सितम्बर 2011  
वाअ उमेद सिंह राठी (647597), एसीएचजीडी, 13 सितम्बर 2011  
वाअ गोनौर भक्ता (647726), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ थिम्मादासारी देवेन्द्रन (647776), एसीएचजीडी, 27 सितम्बर 2011  
वाअ ओम प्रकाश नारायण (648857), एसीएचजीडी, 19 सितम्बर 2011  
वाअ प्रेम कुमार सिंह (649540), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ हबीब उल्लाहा (649617), एसीएचजीडी, 27 सितम्बर 2011

वाअ राम बाबू साह (670199), एसीएचजीडी, 11 अक्टूबर 2011  
वाअ लच्छी राम (677957), एसीएचजीडी, 09 सितम्बर 2011  
वाअ बी सुब्रमन्यम पतूरी (682686), एसीएचजीडी, 21 सितम्बर 2011  
वाअ श्याम लाल (684860), एसीएचजीडी, 21 सितम्बर 2011  
वाअ जसवंत सिंह करकटिया (690843), एसीएचजीडी, 17 अक्टूबर 2011  
वाअ कृष्ण कुमार कौशिक (692550), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ देवेन्द्र कुमार उपाध्याय (692552), एसीएचजीडी, 09 सितम्बर 2011  
वाअ ईश्वर सिंह (692555), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ अतर सिंह यादव (692564), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ रमेश कुमार सिंह यादव (692648), एसीएचजीडी, 07 अक्टूबर 2011  
वाअ राजेश कुमार यादव (692650), एसीएचजीडी, 07 अक्टूबर 2011  
वाअ ओम प्रकाश पांडे (692654), एसीएचजीडी, 09 सितम्बर 2011  
वाअ विजय प्रकाश कटियार (692658), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास (692663), एसीएचजीडी, 03 अक्टूबर 2011  
वाअ भूरी सिंह (692666), एसीएचजीडी, 09 सितम्बर 2011  
वाअ सुशील कुमार सिंह (692753), एसीएचजीडी, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ रतन लाल सेन (692755), एसीएचजीडी, 07 अक्टूबर 2011  
वाअ मिठन लाल शर्मा (692756), एसीएचजीडी, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ बदलू राम बहनिवाल (692765), एसीएचजीडी, 17 अक्टूबर 2011  
वाअ राजेन्द्रन पनगोडे माधवन (692825), एसीएचजीडी, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ रामफल यादव (693303), एसीएचजीडी, 19 अक्टूबर 2011  
वाअ छाबा रूपा राम (693346), एसीएचजीडी, 11 अक्टूबर 2011  
वाअ हरी सिंह (693347), एसीएचजीडी, 19 अक्टूबर 2011  
वाअ वीर पाल यादव (693419), एसीएचजीडी, 19 अक्टूबर 2011  
वाअ फतेह सिंह सैनी (693430), एसीएचजीडी, 15 अक्टूबर 2011  
वाअ सत्य प्रकाश शर्मा (693434), एसीएचजीडी, 19 अक्टूबर 2011  
वाअ अरूण कुमार शर्मा (693444), एसीएचजीडी, 19 अक्टूबर 2011

- वाअ राजेश वेर (693455), एसीएचजीडी, 11 अक्टूबर 2011
- वाअ जय राज शर्मा (693694), एसीएचजीडी, 23 सितम्बर 2011
- वाअ विनोद कुमार शर्मा (693794), एसीएचजीडी, 11 अक्टूबर 2011
- वाअ शुक्ला संजय कुमार (694145), एसीएचजीडी, 23 सितम्बर 2011
- वाअ रमेश कुमार शर्मा (694614), एसीएचजीडी, 09 अक्टूबर 2011
- वाअ अश्विनी कुमार (700445), एसीएचजीडी, 17 अक्टूबर 2011
- वाअ अरूण कुमार उपाध्याय (627102), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ राम किशोर वर्मा (639697), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ सरवजीत सिंह (673327), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ सुधीर कुमार अरोरा (673748), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ रामभज (673816), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ शत्रुघ्न साह (673837), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ ओम प्रकाश (673885), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ यश पाल सिंह (673918), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ दिनेश कुमार पाल (673951), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ हरी शंकर (673993), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ वीरेन्द्र सिंह (673999), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ धर्म सिंह भरवान (674015), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ प्रवीण कुमार (674020), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ राधे श्याम गिरी (674029), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ अनिल कुमार त्यागी (674069), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ कृष्ण कुमार बरवाल (674093), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ परमेश्वर प्रकाश शर्मा (674096), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ दिलीप कुमार सरकार (674239), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ एमडी सहीरूद्दीन अहमद (674262), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ रमेश कुमार (674284), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ स्वपन कुमार दत्ता (674333), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ शम्भु कुमार प्रसाद गुप्ता (674345), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ बनवारी प्रसाद (674392), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ महेन्द्र नाथ बेहरा (674461), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ बिश्नोई श्री राम (674556), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ मीर सिंह (674588), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ रमेश चंद्र दत्ता (674922), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ शम्भु ठाकुर (674998), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ शैलेन्द्र कुमार सिंह (680107), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ शत्रुघ्न शर्मा (680412), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ सुरेन्द्र सिंह हुड्डा (680586), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ वेद पाल सिंह पंवर (680630), एडीएसओ, 06 जनवरी 2010
- वाअ वेद प्रकाश मिश्रा (661296), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ हरमोहन सिंह यादव (661310), एएफ फिट, 03 अगस्त 2009
- वाअ अयोध्या साहू (661442), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010
- वाअ अख्तर हुसैन अंसारी (661564), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ वाव्हल रोहिदास गणपत (662174), एएफ फिट, 01 मार्च 2009
- वाअ बद्री नाथ त्रिवेदी (662282), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ श्रवण कुमार चौहान (662395), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ जगत नारायण साह (662411), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ नरेन्द्र कुमार (662487), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010
- वाअ देवेन्द्र प्रसाद सिंह (662546), एएफ फिट, 03 अगस्त 2010
- वाअ हरीश चन्द्रा (662548), एएफ फिट, 05 मार्च 2010
- वाअ मोहम्मद मोबीन खान (665085), एएफ फिट, 01 मार्च 2009
- वाअ चंद्र भूषण सिंह (665157), एएफ फिट, 01 मार्च 2009
- वाअ राकेश सिंह (665213), एएफ फिट, 01 मार्च 2009
- वाअ निर्मल चंद्र साहू (665474), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ सुभाष चंद्र (665502), एएफ फिट, 03 मार्च 2009
- वाअ भिखारी सिंह (665604), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ कर्मेन्द्र कुमार (665998), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ चंद्र भूषण सिंह (666033), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ ऋष्णा चंद्रा नायक (666106), एएफ फिट, 01 मई 2009
- वाअ सतचिदा नंद दीक्षित (666109), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ प्रकाश चंद्रा श्रीवास्तव (666355), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ अनिल कुमार सिंह (666362), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009
- वाअ शिशु पाल सिंह (666460), एएफ फिट, 01 दिसम्बर 2009

वाअ राजपाल सिंह (666472), एएफ फिट, 03 दिसम्बर 2009  
वाअ प्रवत रंजन दाश (666485), एएफ फिट, 03 जुलाई 2009  
वाअ नारायण दत्त शर्मा (666661), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ बिनोद कुमार तिवारी (666728), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ भास्कर प्रसाद पांडे (666837), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ सरत चंद्र महापात्रा (666893), एएफ फिट, 03 मार्च 2010  
वाअ श्याम लाल (666906), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ भोरिक (666951), एएफ फिट, 03 जुलाई 2009  
वाअ गणेश दयाल (666963), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ जगत सिंह (666982), एएफ फिट, 03 मार्च 2010  
वाअ राज पाल सिंह वर्मा (666985), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ ज्ञान प्रकाश शर्मा (667003), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ राम करन (667073), एएफ फिट, 03 मार्च 2010  
वाअ बिजोय कुमार मोहन्ती (667411), एएफ फिट, 03 मार्च 2010  
वाअ राजेन्द्र सिंह (667439), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ कुलदीप सिंह गथानिया (667455), एएफ फिट, 03 फरवरी 2010  
वाअ अनिल कुमार अवस्थी (667553), एएफ फिट, 05 मार्च 2010  
वाअ वीर पाल सिंह रावत (667572), एएफ फिट, 03 मार्च 2010  
वाअ विजेन्द्र कुमार (667582), एएफ फिट, 03 जुलाई 2009  
वाअ दिनेश कुमार (667611), एएफ फिट, 03 मई 2010  
वाअ नवल किशोर यादव (667825), एएफ फिट, 03 मई 2010  
वाअ टी अशोक पात्रो (667873), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ दिवाकर (667895), एएफ फिट, 03 मई 2010  
वाअ राजिन्दर सिंह (667913), एएफ फिट, 03 जुलाई 2009  
वाअ संत राम यादव (667970), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ नटराजन राजशेखरन (668280), एएफ फिट, 03 जून 2010  
वाअ अखिलेश कुमार ओझा (668731), एएफ फिट, 03 जुलाई 2010  
वाअ अशोक कुमार कुटप्पन (669009), एएफ फिट, 05 जुलाई 2009  
वाअ युवराज महलावत (669049), एएफ फिट, 03 अगस्त 2009  
वाअ मरिअप्पन मरिमुत्तु (678053), एएफ फिट, 03 अगस्त 2009  
वाअ राजीव कुमार सूद (678578), एएफ फिट, 03 अगस्त 2009  
वाअ बिजेन्द्र सिंह (679168), एएफ फिट, 03 अगस्त 2009

वाअ सुदर्शन सिंह (619265), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ सुदर्शन पाल सिंह (625651), एएफएसओ, 25 सितम्बर 2011  
वाअ जय राम यादव (626891), एएफएसओ, 27 सितम्बर 2011  
वाअ अशोक कुमार (627577), एएफएसओ, 29 सितम्बर 2011  
वाअ मोहनदास के टी (627761), एएफएसओ, 29 सितम्बर 2011  
वाअ मिश्रा प्रेमनाथ रामजी (633083), एएफएसओ, 17 सितम्बर 2011  
वाअ बने सिंह (633477), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ रामा नंद यादव (633652), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ राम आसरे (633653), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ प्रवीण चंद्र (634008), एएफएसओ, 13 सितम्बर 2011  
वाअ मुनीर अहमद (634088), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ सुरेन्द्र पांडे (634102), एएफएसओ, 21 सितम्बर 2011  
वाअ पूरन चंद्र दास (634133), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ शिव नाथ सिंह यादव (634154), एएफएसओ, 15 सितम्बर 2011  
वाअ सुरेन्द्र कुमार शर्मा (634240), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ नंद जी पांडे (634279), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ विरेन्द्र कुमार शर्मा (634808), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ पदम चरण महाराणा (634991), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ सुरेश कुमार दहिया (634995), एएफएसओ, 17 सितम्बर 2011  
वाअ राम शंकर शांडिल्य (635675), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ तारा प्रकाश मेहता (635704), एएफएसओ, 19 सितम्बर 2011  
वाअ मनफूल आराम बिश्नोई (635955), एएफएसओ, 23 सितम्बर 2011  
वाअ नारायणा पात्रो (636843), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ अनिल कांता दास (636847), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ रामायण सिंह चौहान (637160), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ अभय कुमार (637421), एएफएसओ, 05 अक्टूबर 2011  
वाअ बिरेन्द्र सिंह (652136), एएफएसओ, 25 सितम्बर 2011

- वाअ सिंह बग्गा (667030), एएफएसओ, 03 अक्टूबर 2011
- वाअ कल्याण कुमार बसक (667150), एएफएसओ, 25 सितम्बर 2011
- वाअ अवध नारायण शाही (669600), एएफएसओ, 25 सितम्बर 2011
- वाअ पीयूष मोहन जांगिड (669448), एएफएसओ, 13 सितम्बर 2011
- वाअ किशोर कुमार सुकुमार मेनन (679917), एएफएसओ, 01 अक्टूबर 2011
- वाअ कैलाश नारायण यादव (613953), कैट असिस्टेंट, 03 अप्रैल 2011
- वाअ बाबू राम (614068), कैट असिस्टेंट, 01 मार्च 2010
- वाअ बीरेन्द्र प्रसाद (614317), कैट असिस्टेंट, 02 नवम्बर 2010
- वाअ शैलेन्द्र कुमार दीक्षित (622215), कैट असिस्टेंट, 19 अक्टूबर 2009
- वाअ रामजीत सिंह (628509), कैट असिस्टेंट, 23 अक्टूबर 2009
- वाअ तिलक राज (646269), कैट असिस्टेंट, 29 अक्टूबर 2009
- वाअ दुल सिंह राठौर (646901), कैट असिस्टेंट, 29 अक्टूबर 2009
- वाअ केदार राम यादव (647090), कैट असिस्टेंट, 01 फरवरी 2010
- वाअ राकेश कुमार सिंह चौहान (647154), कैट असिस्टेंट, 29 अक्टूबर 2009
- वाअ अमर घोष (647178), कैट असिस्टेंट, 10 नवम्बर 2010
- वाअ कृष्ण नंद यादव (648356), कैट असिस्टेंट, 19 अक्टूबर 2009
- वाअ गुणनिधि राउत (648378), कैट असिस्टेंट, 19 अक्टूबर 2009
- वाअ समीर रंजन अधिकारी (648393), कैट असिस्टेंट, 01 जनवरी 2011
- वाअ बेनी माधव दुबे (648443), कैट असिस्टेंट, 04 नवम्बर 2010
- वाअ देवेन्द्र सिंह (648492), कैट असिस्टेंट, 19 अक्टूबर 2009
- वाअ यादव ओमप्रकाश माताबदल (649455), कैट असिस्टेंट, 21 अक्टूबर 2009
- वाअ अरुण कुमार पॉल (649647), कैट असिस्टेंट, 12 नवम्बर 2010
- वाअ एलेक्स देवदास (671823), कैट असिस्टेंट, 23 अक्टूबर 2009
- वाअ जगेश्वर दयाल वर्मा (671902), कैट असिस्टेंट, 23 अक्टूबर 2009
- वाअ पारस नाथ (671903), कैट असिस्टेंट, 08 नवम्बर 2010
- वाअ जोगिन्द्र सिंह (671931), कैट असिस्टेंट, 06 नवम्बर 2010
- वाअ सुरेन्द्र कुमार पारिक (678565), कैट असिस्टेंट, 01 जनवरी 2011
- वाअ विकास मुतसुद्दी (678625), कैट असिस्टेंट, 01 अप्रैल 2011
- वाअ सतनाम सिंह (614054), अकाउंट क्लर्क, 27 मई 2011
- वाअ बाल कृष्ण (614595), अकाउंट क्लर्क, 27 मई 2011
- वाअ विक्रम सिंह नेगी (614684), अकाउंट क्लर्क, 27 मई 2011
- वाअ प्रसन्न कुमार मिश्रा (645113), अकाउंट क्लर्क, 27 मई 2011
- वाअ लल्लन चौबे (645228), अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2011
- वाअ निर्मल चंद्र दास (645392), अकाउंट क्लर्क, 25 मई 2011
- वाअ रघु नाथ बंसल (645593), अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2011
- वाअ राम बृक्ष प्रसाद यादव (646103), अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2011
- वाअ पदम सिंह शेजवाल (646136), अकाउंट क्लर्क, 29 मई 2011
- वाअ रमा पदा दालुई (646306), अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2011
- वाअ प्रफुल्ल कुमार नायक (646339), अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2011
- वाअ कल्पिपदा देबनाथ (646849), अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2011
- वाअ बृज पाल (649527), अकाउंट क्लर्क, 31 मई 2011
- वाअ जयपाल सिंह (649884), अकाउंट क्लर्क, 02 जून 2011
- वाअ विपिन कुमार अग्रवाल (649888), अकाउंट क्लर्क, 02 जून 2011
- वाअ विश्वेश्वर रॉय (661479), अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2011
- वाअ अरुण पाल सिंह (670090), अकाउंट क्लर्क, 02 जून 2011
- वाअ महमूद अली (670095), अकाउंट क्लर्क, 02 जून 2011
- वाअ शिव शंकर प्रसाद गुप्ता (670153), अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2011
- वाअ बिजय कुमार सिंह (670201), अकाउंट क्लर्क, 04 जून 2011
- वाअ लाजपत राय (670654), अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2011
- वाअ श्याम बहादुर (670671), अकाउंट क्लर्क, 06 जून 2011
- वाअ रामदासन चैथकलम (670708), अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2011
- वाअ जमाल अब्दुल नासिर (670931), अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2011
- वाअ सुशील कुमार श्रीवास्तव (671293), अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2011
- वाअ सागीर अहमद (671295), अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2011
- वाअ वेद सिंह रोहल (671468), अकाउंट क्लर्क, 08 जून 2011

वाअ अनिल कुमार (671926), अकाउंट क्लर्क, 21 मई 2011  
वाअ गोविंद राम सोनी (672645), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ श्याम नाथ सिंह (674037), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ देवाकार सिंह साउन (674674), अकाउंट क्लर्क, 23 मई 2011  
वाअ शरदपाल सिंह मलिक (692266), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ भुवनेश्वर मंडल (692441), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ राम कुमार मदाद (692688), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ आशीष महाजन (693082), अकाउंट क्लर्क, 19 मई 2011  
वाअ राज बिजय सिंह (644528), क्लर्क जीडी, 28 दिसम्बर 2009  
वाअ सुदर्शन साहू (646233), क्लर्क जीडी, 01 अक्टूबर 2009  
वाअ बिन्दा सिंह (646524), क्लर्क जीडी, 30 दिसम्बर 2009  
वाअ प्रशान्त कुमार पटनायक (649120), क्लर्क जीडी, 01 जनवरी 2010  
वाअ इलाकेदार पाल (649280), क्लर्क जीडी, 03 जनवरी 2010  
वाअ कृष्ण चंद्र गौतम (649519), क्लर्क जीडी, 05 जनवरी 2010  
वाअ सुखबीर सिंह त्यागी (649521), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ हरेन्द्र कुमार सिंह (649547), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ हिमांशु शेखर (649554), क्लर्क जीडी, 05 जनवरी 2010  
वाअ लाल जीत अहीर (649637), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ गणेशन मथीवनन (649686), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ केशव प्रसाद (649711), क्लर्क जीडी, 28 दिसम्बर 2009  
वाअ देवेन्द्र नाथ उपाध्याय (649716), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ राम सिंह (649724), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ अनरुल्लाह खान (649726), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ मनी राम यादव (649727), क्लर्क जीडी, 07 जनवरी 2010  
वाअ ओम प्रकाश त्रिवेदी (649729), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ क्षेत्री मनीन्द्रा सिंह (649762), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ मोहीतोश पॉल (649764), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ हरि हर साहू (649951), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ राम सागर त्रिवेदी (670036), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ कुंदन कुमार सिंह (670038), क्लर्क जीडी, 11 जनवरी 2010  
वाअ वेद प्रकाश (670040), क्लर्क जीडी, 13 जनवरी 2010

वाअ जॉय गोपाल सरकार (670086), क्लर्क जीडी, 13 जनवरी 2010  
वाअ मोईनुल हक चौधरी (670107), क्लर्क जीडी, 15 जनवरी 2010  
वाअ परवेज अहसान अंसारी (670170), क्लर्क जीडी, 13 जनवरी 2010  
वाअ बीभास देबनाथ (670180), क्लर्क जीडी, 13 जनवरी 2010  
वाअ हबीबुर रहमान (670216), क्लर्क जीडी, 15 जनवरी 2010  
वाअ धर्मबीर सिंह वर्मा (670344), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ आर काशीनाथन (670348), क्लर्क जीडी, 28 दिसम्बर 2009  
वाअ राजेन्द्र प्रसाद पाल (670365), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ अशोक कुमार (670471), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ इकराम अहमद अब्दुल रहीम पटेल (670546), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ सुशान्त कुमार दत्ता (670640), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ जगदीश प्रसाद वर्मा (670748), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ रमेश चंद्र शर्मा (670909), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ राजाप्यन वीनू (671228), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ रवीन्द्र कुमार वर्मा (671271), क्लर्क जीडी, 17 जनवरी 2010  
वाअ राजेन्द्र कुमार कौशिक (671300), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ सुरीन्द्र सिंह (671478), क्लर्क जीडी, 28 दिसम्बर 2009  
वाअ श्री पुरण कुमार बरुआ (671749), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ शिव कुमार सिंह (671898), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ सतीश चंद्र (671963), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ कर्म सिंह (671989), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ संत कुमार निगम (672044), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ रमेश चंद्र राय (672493), क्लर्क जीडी, 01 फरवरी 2010  
वाअ ब्रह्म देव सिंह (672494), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009  
वाअ अवधेश कुमार (672507), क्लर्क जीडी, 01 फरवरी 2010  
वाअ ब्रिजेश कुमार परिहार (672553), क्लर्क जीडी, 01 फरवरी 2010  
वाअ तपन कुमार गुडैत (672586), क्लर्क जीडी, 21 जनवरी 2010  
वाअ सुमन्त भारद्वाज (678716), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009

- वाअ शिव कुमार यादव (692253), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009
- वाअ ज्योतिष पॉल (692419), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009
- वाअ अमित यादव (692586), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009
- वाअ सदानंद चौहान (692598), क्लर्क जीडी, 01 सितम्बर 2009
- वाअ मोहिन्द्र सिंह मलिक (692679), क्लर्क जीडी, 01 अगस्त 2009
- वाअ उदय कुमार चक्रबोर्ती (692833), क्लर्क जीडी, 28 दिसम्बर 2009
- वाअ ज्योति देव दत्ता (692988), क्लर्क जीडी, 01 सितम्बर 2009
- वाअ पृथ्वी सिंह (639877), क्रिप्टे, 02 जुलाई 2009
- वाअ प्रदीप कुमार चतुर्वेदी (639895), क्रिप्टे, 02 जुलाई 2009
- वाअ राजेन्द्र सिंह तलन (639953), क्रिप्टे, 02 दिसम्बर 2009
- वाअ शर्मा सुनील कुमार (639987), क्रिप्टे, 04 दिसम्बर 2009
- वाअ सत प्रकाश यादव (639997), क्रिप्टे, 02 जून 2010
- वाअ धर्म वीर सिंह घनघास (690119), क्रिप्टे, 02 जुलाई 2009
- वाअ राजीव कुमार दीक्षित (692319), क्रिप्टे, 02 जुलाई 2009
- वाअ भारत भूषण वर्मा (692683), क्रिप्टे, 02 जुलाई 2009
- वाअ तेजबहादुर सिंह (692829), क्रिप्टे, 04 अप्रैल 2010
- वाअ सतीश चंद्र पुशोला (692830), क्रिप्टे, 02 नवम्बर 2009
- वाअ कृष्ण कुमार सिंह (692841), क्रिप्टे, 06 दिसम्बर 2009
- वाअ राजेन्द्र कुमार सिंह (692881), क्रिप्टे, 02 नवम्बर 2009
- वाअ कृष्ण मोहन सिंह (692898), क्रिप्टे, 02 अप्रैल 2010
- वाअ अखिलेश कुमार सिंह (692902), क्रिप्टे, 04 दिसम्बर 2009
- वाअ राजकुमार (693182), क्रिप्टे, 04 अप्रैल 2010
- वाअ भूपिन्द्र सिंह बहनिवाल (693207), क्रिप्टे, 04 अप्रैल 2010
- वाअ जय सिंह जोरासिया (693900), क्रिप्टे, 02 दिसम्बर 2010
- वाअ सूरज मल बजवान (693908), क्रिप्टे, 02 दिसम्बर 2010
- वाअ जसविंदर सिंह लबाना (694349), क्रिप्टे, 04 दिसम्बर 2010
- वाअ सूर्यकांत कार (704418), शिक्षा अनुदेशक, 05 अगस्त 2010
- वाअ नरेश प्रसाद जायल (726940), शिक्षा अनुदेशक, 01 सितम्बर 2011
- वाअ शंकर चंद्र नार (727053), शिक्षा अनुदेशक, 05 अगस्त 2010
- वाअ एंटेनी एम बाज्राथरा (727085), शिक्षा अनुदेशक, 02 अक्टूबर 2009
- वाअ ओमकार श्रीवास्तव (727242), शिक्षा अनुदेशक, 02 अक्टूबर 2009
- वाअ कैलाश चंद्र पांडा (727465), शिक्षा अनुदेशक, 01 सितम्बर 2011
- वाअ दलबीर सिंह राणा (728604), शिक्षा अनुदेशक, 02 नवम्बर 2009
- वाअ रूप किशोर (736824), शिक्षा अनुदेशक, 05 अगस्त 2010
- वाअ नायर मधूसूदनन (739842), शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2010
- वाअ अनिल कुमार गोपाला पिल्लई (739843), शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2010
- वाअ अवनीश कुमार पी के (739844), शिक्षा अनुदेशक, 05 अगस्त 2010
- वाअ रघु के पी (739845), शिक्षा अनुदेशक, 03 अगस्त 2010
- वाअ अरविन्द कुमार (739849), शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2010
- वाअ सत्येन्द्र कुमार शुक्ला (739852), शिक्षा अनुदेशक, 02 सितम्बर 2010
- वाअ कौशलेंद्र कुमार सिंह (739854), शिक्षा अनुदेशक, 02 सितम्बर 2010
- वाअ समीर कुमार साहा (739856), शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2010
- वाअ अंजार ए (770144), शिक्षा अनुदेशक, 02 मार्च 2011
- वाअ नरेश कुमार शर्मा (772317), शिक्षा अनुदेशक, 02 मार्च 2011
- वाअ धनंजय शुक्ला (772324), शिक्षा अनुदेशक, 01 अगस्त 2010
- वाअ केशवन पोटी वी पी (773620), शिक्षा अनुदेशक, 04 मार्च 2011
- वाअ नवीन कुमार शर्मा (797410), शिक्षा अनुदेशक, 04 मार्च 2011
- वाअ नवल किशोर प्रसाद (659858), इंजन फिटर, 02 मई 2008
- वाअ सरोजा कांत परिदा (660060), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2007
- वाअ बलराम उपाध्याय (660176), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2007
- वाअ सुमेर सिंह बिदावत (660349), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2007
- वाअ अरविंद कुमार सिंह (660358), इंजन फिटर, 02 जनवरी 2008
- वाअ गोरख नाथ सिंह (660753), इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2007
- वाअ मो. अमानुल्लाह (660989), इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2007
- वाअ हरे राम राय (661007), इंजन फिटर, 02 जून 2008
- वाअ रमेश चंद्र साहु (661155), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2007



वाअ रामेश्वर सिंह (661327), इंजन फिटर, 02 जुलाई 2009  
वाअ गुलाब सिंह (661417), इंजन फिटर, 02 जुलाई 2009  
वाअ विजय कांत मिश्रा (661423), इंजन फिटर, 02 जुलाई 2009  
वाअ शिवा पादा घोष (661557), इंजन फिटर, 02 जनवरी 2008  
वाअ अशोक कुमार पांडे (661572), इंजन फिटर, 02 जुलाई 2008  
वाअ परमानंद प्रसाद सिंह (662186), इंजन फिटर, 02 जुलाई 2009  
वाअ देबाशीष दत्ता (662798), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ नन्हे सिंह महुर (662850), इंजन फिटर, 02 जनवरी 2008  
वाअ राजेन्द्र सिंह गौर (665164), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2008  
वाअ रामा शंकर राजवर (665169), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2008  
वाअ बिष्णु कुमार सिंह (665300), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ उमेश प्रसाद साह (665308), इंजन फिटर, 02 अगस्त 2009  
वाअ अशोक वासुदेव मंकार (665455), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ अशोक कुमार सिंह (665521), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2008  
वाअ नारायण चंद्र देबनाथ (665565), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ अमरजीत सिंह सिरोही (665569), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ श्री राम शुक्ला (665709), इंजन फिटर, 02 दिसम्बर 2008  
वाअ शिब्वन लाल गुप्ता (665713), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ राम नरेश (665871), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ बितेश्वर प्रसाद सिंह (665966), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ रमेश चंद्र (666034), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ परितोष बिश्वास (666123), इंजन फिटर, 02 जून 2009  
वाअ गोविन्द राम (666440), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ श्याम दास रॉय (666506), इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2009  
वाअ मल्ला वेंकय रामना (666578), इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2009  
वाअ मिथलेश कुमार सिंह (666666), इंजन फिटर, 02 सितम्बर 2009  
वाअ राजेन्द्र प्रसाद साहु (666675), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ देव प्रयाग सिंह (666693), इंजन फिटर, 02 नवम्बर 2009

वाअ मिथिलेश कुमार राजपाल (666707), इंजन फिटर, 02 अप्रैल 2009  
वाअ हरी राम यादव (666741), इंजन फिटर, 02 अक्टूबर 2009  
वाअ अजय कुमार सिंह (666929), इंजन फिटर, 02 मई 2009  
वाअ राजेन्द्र प्रसाद (666954), इंजन फिटर, 02 जून 2009  
वाअ गोरख नाथ (669513), इंजन फिटर, 02 जून 2009  
वाअ विरेन्द्र कुमार ठाकुर (675701), इंजन फिटर, 02 जून 2008  
वाअ उमेश कुमार त्यागी (675726), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ राजेन्द्र सिंह रावत (675734), इंजन फिटर, 02 फरवरी 2008  
वाअ ओम प्रकाश राणा (675827), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ राजेन्द्र सिंह (675833), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ संजीव कुमार (675902), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ नरेश कुमार (677898), इंजन फिटर, 02 मार्च 2008  
वाअ रतन देबनाथ (677935), इंजन फिटर, 02 मार्च 2009  
वाअ पंकज कुमार (677972), इंजन फिटर, 02 जून 2009  
वाअ मुनेश कुमार (678681), इंजन फिटर, 02 जून 2009  
वाअ नंद कुमार राय (613324), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011  
वाअ धर्म देव ठाकुर (613802), उपस्कर सहायक, 25 मार्च 2011  
वाअ परशु राम खतोई (614071), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ सुबोध कुमार सक्सेना (614201), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ राम शब्द राय (614204), उपस्कर सहायक, 20 अप्रैल 2011  
वाअ लाखन सिंह सेंगर (614305), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ राम परिखान सिंह (614364), उपस्कर सहायक, 18 अप्रैल 2011  
वाअ शेख अब्दुल्ला (614764), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011  
वाअ कैलाश कुमार तिवारी (614977), उपस्कर सहायक, 22 अप्रैल 2011  
वाअ ऋषिकेश चौधरी (614995), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ देबाहारी साहू (633764), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ मदन लाल पिंडल (634852), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011  
वाअ सुरेन्द्र सिंह भाटी (645039), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011  
वाअ उगम सिंह पंवर (645354), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011  
वाअ विजय कुमार (645599), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011

वाअ योगेन्द्र प्रसाद बारी (645736), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ जॉन जार्ज (645821), उपस्कर सहायक, 18 अप्रैल 2011

वाअ राम बालक प्रसाद (645933), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011

वाअ महेन्द्र प्रसाद (645938), उपस्कर सहायक, 18 अप्रैल 2011

वाअ शिव दास चटर्जी (645950), उपस्कर सहायक, 10 मई 2011

वाअ राजेन्द्र कुमार पाल (645968), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011

वाअ मुबारक हुसैन (646085), उपस्कर सहायक, 28 अप्रैल 2011

वाअ सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (646271), उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2011

वाअ योगेन्द्र लाल रॉय (646291), उपस्कर सहायक, 02 अप्रैल 2011

वाअ जिलेदार (646373), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011

वाअ नवीन चंद्र मैथनी (646427), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ प्रहलाद घोडसाल (646458), उपस्कर सहायक, 27 मार्च 2011

वाअ अशोक कुमार सरकार (646542), उपस्कर सहायक, 21 मार्च 2011

वाअ सज्जन सिंह राठौर (646606), उपस्कर सहायक, 19 मार्च 2011

वाअ ऋषि केश त्रिपाठी (646722), उपस्कर सहायक, 29 मार्च 2011

वाअ जितेन्द्र नाथ दुबे (646724), उपस्कर सहायक, 29 मार्च 2011

वाअ नकाटी पीर अहमद (646815), उपस्कर सहायक, 29 मार्च 2011

वाअ रामनाथ प्रसाद (646841), उपस्कर सहायक, 29 मार्च 2011

वाअ बलबीर सिंह (646950), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ राम महेश शाक्या (646951), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ बिजेन्द्र कुमार तरमाली (647286), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ हरीश चंद्र सूरी (647656), उपस्कर सहायक, 29 मार्च 2011

वाअ जितेन्द्र प्रसाद (648112), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011

वाअ यतेन्द्र कुमार शर्मा (648140), उपस्कर सहायक, 28 अप्रैल 2011

वाअ सुशील कुमार चौधरी (648322), उपस्कर सहायक, 19 मार्च 2011

वाअ देवेन्द्र नाथ दुबे (648331), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011

वाअ सोम प्रकाश (648407), उपस्कर सहायक, 21 मार्च 2011

वाअ बदले सिंह (648598), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ धर्म जीत यादव (648777), उपस्कर सहायक, 23 मार्च 2011

वाअ उमेश त्रिपाठी (648853), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ बिजय कुमार सिंह (649111), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ अशोक कुमार मिश्रा (649114), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011

वाअ राम शरण यादव (649317), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ शिव प्रसाद सविता (649370), उपस्कर सहायक, 31 मार्च 2011

वाअ अवधेश कुमार राय (649445), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ दिनेश प्रसाद यादव (649559), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ हीरा लाल प्रसाद (649562), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011

वाअ सुथर रामनिवास (649779), उपस्कर सहायक, 26 अप्रैल 2011

वाअ अमर पाल सिंह (649905), उपस्कर सहायक, 26 अप्रैल 2011

वाअ धनेष कुमार शर्मा (649908), उपस्कर सहायक, 26 अप्रैल 2011

वाअ हबीबुर रहमान खान (649961), उपस्कर सहायक, 28 अप्रैल 2011

वाअ बाबू लाल सूथर (651093), उपस्कर सहायक, 24 अप्रैल 2011

वाअ सुरेश सिंह (670058), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ आशुतोष तिवारी (670063), उपस्कर सहायक, 28 अप्रैल 2011

वाअ धिराउ राम (670132), उपस्कर सहायक, 04 अप्रैल 2011

वाअ जय नारायण (670134), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ रामा शंकर (670142), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ जगदम्बा प्रसाद नौटियाल (670356), उपस्कर सहायक, 10 मई 2011

वाअ निरंजन घोष (670648), उपस्कर सहायक, 06 अप्रैल 2011

वाअ जालम सिंह राजपूत (670733), उपस्कर सहायक, 06 अप्रैल 2011

वाअ देवीदासन करात (670844), उपस्कर सहायक, 06 अप्रैल 2011

वाअ रणबीर सिंह घनकड (671018), उपस्कर सहायक, 06 अप्रैल 2011

वाअ महन्त प्रकाश (671085), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ उमेश सिंह (671366), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ प्रबीर कुमार घोष (671383), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ मुस्ताफीजुर रहमान (671409), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ देव राज (671460), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ निरंजन पाती (671669), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ इंद्र भूषण तिवारी (671786), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ भोज राज सिंह (671936), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ रतन लाल साहू (671941), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ अवधेश कुमार सिंह (672038), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ कन्है भूपाल जनार्दन (672169), उपस्कर सहायक, 21 मार्च 2011

वाअ मुल्ला महम्मसाहेब काशिमसाहेब (672170), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ परमानंद रॉय (672254), उपस्कर सहायक, 12 अप्रैल 2011

वाअ टी वी ईसवरन (672291), उपस्कर सहायक, 14 अप्रैल 2011

वाअ ऑंकार चंद (672329), उपस्कर सहायक, 02 मई 2011

वाअ वीरेन्द्र कुमार मिठाई लाल (672420), उपस्कर सहायक, 14 अप्रैल 2011

वाअ चंद्र मोहन (672498), उपस्कर सहायक, 14 अप्रैल 2011

वाअ ओम प्रकाश पाठक ब्राह्मिण (672499), उपस्कर सहायक, 14 अप्रैल 2011

वाअ अरविंद कुमार गुप्ता (672501), उपस्कर सहायक, 14 अप्रैल 2011

वाअ शिव प्रकाश लाल श्रीवास्तव (672559), उपस्कर सहायक, 02 मई 2011

वाअ शाहजाद खान (672577), उपस्कर सहायक, 10 अप्रैल 2011

वाअ अरुण कुमार त्रिपाठी (672584), उपस्कर सहायक, 04 मई 2011

वाअ राजू सी (676553), उपस्कर सहायक, 19 मार्च 2011

वाअ देश राज (692259), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ नफे सिंह रोहिल्ला (692261), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ अय्यापनकाबु कृष्णन गनाष (692390), उपस्कर सहायक, 21 मार्च 2011

वाअ अनिल कुमार त्रिपाठी (692624), उपस्कर सहायक, 21 मार्च 2011

वाअ रमेश कुमार राजपूत (692635), उपस्कर सहायक, 30 अप्रैल 2011

वाअ स्वर्ण सिंह सिंधू (692719), उपस्कर सहायक, 23 मार्च 2011

वाअ मोहित राज (692761), उपस्कर सहायक, 04 मई 2011

वाअ ब्रिजेश कुमार मलिक (692975), उपस्कर सहायक, 04 मई 2011

वाअ सरत कुमार स्वेन (693054), उपस्कर सहायक, 06 मई 2011

वाअ सनातन घोष (693072), उपस्कर सहायक, 04 मई 2011

वाअ प्रसन्ना कुमार नंदा (693110), उपस्कर सहायक, 19 मार्च 2011

वाअ प्रमजीत सिंह (693389), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ पाटिल लक्ष्मण शंकर (693600), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ राकेश पाल (693622), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ सतनाम सिंह (693776), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ तपन कृष्ण नाहा (694181), उपस्कर सहायक, 08 मई 2011

वाअ मो. नूर हुसैन (694313), उपस्कर सहायक, 08 मई 2011

वाअ जोगिन्द्र कुमार मल्होत्रा (694376), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ जयपाल पवारिया (694436), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ नमोनारायण मिश्रा (694827), उपस्कर सहायक, 08 मई 2011

वाअ जरनेल सिंह (700102), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ प्रभाकर सिंह (700299), उपस्कर सहायक, 16 अप्रैल 2011

वाअ उन्नीकृष्णन नायर जी एन (701859), उपस्कर सहायक, 08 मई 2011

वाअ शशी भूषण शर्मा (695661), फ्लाइंट इंजीनियर, 18 सितम्बर 2008

वाअ पर्वताचारी लोगनाथन (696009), फ्लाइंट इंजीनियर, 18 सितम्बर 2008

- वाअ वर्गीज चाको पलाकट्टू (696897), फ्लाईट इंजीनियर, 18 सितम्बर 2008
- वाअ कृष्ण पाल सिंह (699474), फ्लाईट इंजीनियर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ सरोज कुमार (699537), फ्लाईट इंजीनियर, 18 सितम्बर 2008
- वाअ नित्यानंद तिवारी (699783), फ्लाईट इंजीनियर, 18 सितम्बर 2008
- वाअ कमलेश कुमार (662391), फ्लाईट गनर, 04 जून 2010
- वाअ रामनारायण जॉयसवाल (665688), फ्लाईट गनर, 04 जून 2010
- वाअ रामचंद्रा (665897), फ्लाईट गनर, 04 जून 2010
- वाअ हंसराज प्रसाद कुशवाहा (666328), फ्लाईट गनर, 04 जून 2007
- वाअ श्री प्रकाश गुप्ता (667541), फ्लाईट गनर, 06 जुलाई 2010
- वाअ प्राणतोष डे (669724), फ्लाईट गनर, 04 जून 2010
- वाअ आनंद प्रकाश त्रिपाठी (675144), फ्लाईट गनर, 04 जुलाई 2010
- वाअ सुनील कुमार सिंह (679540), फ्लाईट गनर, 04 जून 2010
- वाअ कर्णम सुरोधमा राव (695491), फ्लाईट गनर, 02 जुलाई 2010
- वाअ बीरेन्द्र कुमार बेहरा (647148), जीटीआई, 30 जून 2010
- वाअ गंगा सागर प्रसाद (647568), जीटीआई, 04 जुलाई 2010
- वाअ रबिन्द्र कुमार मोन्त्री (648377), जीटीआई, 14 जुलाई 2010
- वाअ पी यादव रेड्डी (648581), जीटीआई, 04 जुलाई 2010
- वाअ राजकुमार मिश्रा (648587), जीटीआई, 16 जुलाई 2010
- वाअ बिनोद शॉ (648620), जीटीआई, 26 जून 2010
- वाअ राकेश कुमार शर्मा (670096), जीटीआई, 18 जुलाई 2010
- वाअ वर्दारजुलु पुरुषोथमन (670779), जीटीआई, 08 जुलाई 2010
- वाअ हेमन्त कुमार रॉय (670802), जीटीआई, 01 मार्च 2010
- वाअ उदन सिंह (671287), जीटीआई, 12 जुलाई 2010
- वाअ सज्जन सिंह चरण (672360), जीटीआई, 24 जून 2010
- वाअ जय राज सिंह (692846), जीटीआई, 12 जुलाई 2010
- वाअ ओम प्रकाश शर्मा (727196), जीटीआई (एस), 28 जून 2010
- वाअ प्रमोद कुमार शर्मा (735235), जीटीआई (एस), 04 जुलाई 2010
- वाअ सुंदर राव सज्जा (770023), जीटीआई (एस), 08 जुलाई 2010
- वाअ योगेन्द्र कुमार यादव (622812), इंस्ट फिटर, 03 जून 2011
- वाअ श्रीधरन पी एस (623082), इंस्ट फिटर, 03 अप्रैल 2010
- वाअ राम भवन पाठक (623247), इंस्ट फिटर, 05 मार्च 2010
- वाअ शफीमोहम्मद (623250), इंस्ट फिटर, 03 मार्च 2010
- वाअ ओम प्रकाश (625999), इंस्ट फिटर, 03 मई 2010
- वाअ ज्ञान प्रकाश (636076), इंस्ट फिटर, 03 मार्च 2010
- वाअ राम ध्यान सिंह (636141), इंस्ट फिटर, 03 अप्रैल 2010
- वाअ शशी भूषण (636260), इंस्ट फिटर, 03 जून 2010
- वाअ सुख देव कोरी (636620), इंस्ट फिटर, 01 जून 2010
- वाअ उन्नीथन एस के के (636978), इंस्ट फिटर, 03 अप्रैल 2010
- वाअ आनंद बिहारी सिंह (637895), इंस्ट फिटर, 01 जून 2011
- वाअ ओम प्रकाश (638254), इंस्ट फिटर, 03 जून 2011
- वाअ नंद कुमार यादव (652381), इंस्ट फिटर, 01 जून 2010
- वाअ देवेन्द्र पाल सिंह (653105), इंस्ट फिटर, 01 जून 2011
- वाअ रजनी कांत पांडे (653298), इंस्ट फिटर, 01 जून 2011
- वाअ रामकिशन (653503), इंस्ट फिटर, 01 मई 2010
- वाअ प्रमोद कुमार शुक्ला (690173), इंस्ट फिटर, 03 फरवरी 2010
- वाअ जितेन्द्र कुमार (690342), इंस्ट फिटर, 03 मई 2010
- वाअ बाल कृष्ण शर्मा (691525), इंस्ट फिटर, 05 फरवरी 2010
- वाअ अरबिन्द कुमार पांडे (691701), इंस्ट फिटर, 05 फरवरी 2010
- वाअ अखिलेश कुमार सिन्हा (624440), चिकित्सा सहायक, 29 मई 2011
- वाअ सुरेश कुमार वेलायुधन (624646), चिकित्सा सहायक, 29 मई 2011
- वाअ अशोक कुमार (655008), चिकित्सा सहायक, 21 मई 2011
- वाअ उपेन्द्र नारायण शर्मा (655161), चिकित्सा सहायक, 21 मई 2011
- वाअ सिया राम (655239), चिकित्सा सहायक, 21 मई 2011
- वाअ सलम सिंह भाटी (655258), चिकित्सा सहायक, 21 मई 2011
- वाअ रण बीर सिंह (655267), चिकित्सा सहायक, 23 मई 2011
- वाअ विजया शंकर मिश्रा (655277), चिकित्सा सहायक, 23 मई 2011
- वाअ कामेश्वर प्रसाद सिंह (655296), चिकित्सा सहायक, 25 मई 2011
- वाअ कामता प्रसाद (655318), चिकित्सा सहायक, 25 मई 2011

वाअ गुना मनी साहू (655336), चिकित्सा सहायक, 08 जून 2011  
वाअ नायर एनजी (655383), चिकित्सा सहायक, 27 मई 2011  
वाअ हर नारायण (655395), चिकित्सा सहायक, 27 मई 2011  
वाअ राजेन्द्र सिंह यादव (655476), चिकित्सा सहायक, 08 जून 2011  
वाअ चक्र धर जेना (655553), चिकित्सा सहायक, 10 जून 2011  
वाअ मृपाल कान्त बरूआ (655573), चिकित्सा सहायक, 10 जून 2011  
वाअ निर्भय पाल सिंह (655622), चिकित्सा सहायक, 10 जून 2011  
वाअ अजय कुमार सिंह (655639), चिकित्सा सहायक, 12 जून 2011  
वाअ गौतम कुमार सिंह (655648), चिकित्सा सहायक, 06 जून 2011  
वाअ प्रणव मजूमदार (655654), चिकित्सा सहायक, 06 जून 2011  
वाअ प्रेम नारायण वर्मा (655695), चिकित्सा सहायक, 29 मई 2011  
वाअ सैमुअल एम (655727), चिकित्सा सहायक, 27 मई 2011  
वाअ संग्राम मोर्या (655741), चिकित्सा सहायक, 06 जून 2011  
वाअ अजय कुमार मिश्रा (655874), चिकित्सा सहायक, 06 जून 2011  
वाअ बयारूष्णा राउल (655889), चिकित्सा सहायक, 29 मई 2011  
वाअ उन्नी कृष्णन वेलायुधन (656218), चिकित्सा सहायक, 31 मई 2011  
वाअ हरीश चंद्रा घिल्डयाल (656225), चिकित्सा सहायक, 31 मई 2011  
वाअ नरेन्द्र कुमार (656267), चिकित्सा सहायक, 19 मई 2011  
वाअ चिर रंजन महापात्रा (656276), चिकित्सा सहायक, 02 जून 2011  
वाअ शशी कुमार कूनाथ (656306), चिकित्सा सहायक, 02 जून 2011  
वाअ नटराजन राघवन (656635), चिकित्सा सहायक, 02 जून 2011  
वाअ सुब्रत मुखर्जी (656696), चिकित्सा सहायक, 04 जून 2011  
वाअ रमेश कुमार यादव (656758), चिकित्सा सहायक, 19 मई 2011  
वाअ क्षेत्रा मोहन सैन (624717), मेट सहायक, 02 नवम्बर 2009  
वाअ नारायण सीएच पॉल (627513), मेट सहायक, 07 मार्च 2011

वाअ अन्नामला ए (628262), मेट सहायक, 07 मार्च 2011  
वाअ विनोदकुमार के पी (628336), मेट सहायक, 04 नवम्बर 2009  
वाअ देबेन्द्र कुमार स्वेन (628389), मेट सहायक, 02 नवम्बर 2011  
वाअ राम चन्द्र पाल (637424), मेट सहायक, 02 जून 2011  
वाअ सुभाष निगम (666969), मेट सहायक, 02 जून 2011  
वाअ ज्योतिमय दास (667165), मेट सहायक, 02 जून 2011  
वाअ पबित्रा कुमार मेधी (667166), मेट सहायक, 04 जून 2011  
वाअ महिपाल सिंह (692548), मेट सहायक, 07 मार्च 2011  
वाअ श्यामल कुमार दास (695600), मेट सहायक, 07 मार्च 2011  
वाअ प्रमोद कुमार (685567), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ विनोद नंद लाल दास (685571), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ कृष्णामूर्ति रामानन (685574), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ गया प्रसाद मिश्रा (685579), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ जग पाल सिंह (685580), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ जी रमेश (686179), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ मनोज कुमार (686184), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ रमेश कुमार रंजन (686190), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ रामेश्वर प्रसाद (686194), एमएस फिटर (ई), 02 मई 2011  
वाअ कनानईकल जोसेफ जोशी (686782), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ संजीव कुमार शर्मा (686790), एमएस फिटर (ई), 06 मई 2011  
वाअ प्रेम चंद झा (686791), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ अनिल प्रसाद (686801), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ कैलाश पंत (686803), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ रविन्द्र कुमार (687377), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ प्रदीप कुमार साह (687378), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ विचित्र नारायण सिंह (687379), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ सरोज कुमार महापात्रा (687380), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ चंद्र शेखर प्रसाद (687381), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ मनोज कुमार गुप्ता (687382), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ त्रिपुरारी कुमार (687385), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011  
वाअ वीरेन्द्र बहादुर (687387), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011

- वाअ मनोज कुमार (687388), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ राजू कुमार श्रीवास्तवा (687389), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ शियो शंकर शर्मा (687392), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ मनोज कुमार पांडे (687393), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ देवेन्द्र कुमार सिंह (687396), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ कपूर सिंह (687406), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ नरेश चंद (687407), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ कालिदास चंद्रा (687414), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ बिश्वा जीत रे (687416), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ सागीर अहमद राव (687423), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ सुभाष कुमार (687425), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ गजेन्द्र सिंह (687427), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ नबल किशोर शर्मा (687428), एमएस फिटर (ई), 04 मई 2011
- वाअ जयप्रकाश सक्सेना (707072), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ ऋषि पाल सिंह (707074), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ गंगाधर बेहेरा (707087), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ विद्या भूषण कुमार (707090), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ नीरज कुमार (707095), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ सत्येन्द्र सिंह यादव (707098), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ नरेश कुमार ढूदी (707102), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ बैद्या नाथ सिंह (707399), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ जोल्लू नारायण रेड्डी (707403), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ वीरेन्द्र कुमार (707409), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ गजेन्द्र सिंह राणा (707410), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ मोहम्मद शाहिद खान (707413), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ शम्भु नाथ ठाकुर (707416), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ राम प्रवेश कुमार (707429), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ मुकेश कुमार (707431), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ संजय कुमार शर्मा (707436), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ रामपाल सिंह (707438), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ योगेन्द्र प्रकाश गौतम (707439), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ निर्मल सिंह छाया (707440), एमएस फिटर (एल), 02 अक्टूबर 2010
- वाअ चुन्नी लाल (707444), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ मुकेश कुमार तोमर (707447), एमएस फिटर (एल), 11 अगस्त 2010
- वाअ अखिलेश कुमार (677779), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ राज देव पाठक (677780), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ कृष्ण देव तिवारी (677781), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ सरदार सिंह (677883), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ ज्ञानेन्द्र सिंह अरोड़ा (678110), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ राकेश कुमार शर्मा (678112), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ सुख देव सिंह (678117), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ अनिल कुमार पोरवाल (678148), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ रविन्द्र जगन्नाथ खेक्रे (678194), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ शंते महादेव महालिंग (678195), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ वेद प्रकाश त्यागी (678404), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ श्री चंद शर्मा (678405), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010
- वाअ रामवीर सिंह रावत (678412), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ अनिरुद्ध दयाल (678450), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ ओम प्रकाश (678451), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ अशोक कुमार त्रिपाठी (678942), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ सुभाष चन्द्रा (678985), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ अंजल कुमार शर्मा (679015), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ एजाज अहमद (679125), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ प्रभु दयाल (679150), एमएस फिटर (एम), 04 जुलाई 2010

वाअ कमलेश सिंह (660169), एमटी फिटर, 12 दिसम्बर 2009

वाअ राधा कृष्णन करियार विदु (660475), एमटी फिटर, 06 दिसम्बर 2009

वाअ मोहम्मद कामिल (660792), एमटी फिटर, 10 दिसम्बर 2009

वाअ अरूणा कुमार पांडा (660884), एमटी फिटर, 10 दिसम्बर 2009

वाअ भारत सिंह (661005), एमटी फिटर, 08 दिसम्बर 2009

वाअ कुलभूषण बक्शी (661160), एमटी फिटर, 08 दिसम्बर 2009

वाअ ध्रुमेन्द्र सिंह बैस (662006), एमटी फिटर, 06 दिसम्बर 2009

वाअ दनेश कुमार सोई (662054), एमटी फिटर, 14 दिसम्बर 2009

वाअ पी रामाकृष्णैया (668123), एमटी फिटर, 02 दिसम्बर 2009

वाअ प्रकाश चंद्र गौला (668920), एमटी फिटर, 04 दिसम्बर 2009

वाअ सोना लाल भगत (669562), एमटी फिटर, 14 दिसम्बर 2009

वाअ सुरेन्द्रन के एम (676518), एमटी फिटर, 02 दिसम्बर 2009

वाअ रघुवीर सिंह (677000), एमटी फिटर, 02 दिसम्बर 2009

वाअ रियासत अली (677688), एमटी फिटर, 02 दिसम्बर 2009

वाअ सिद्ध नाथ पांडे (612378), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ राम प्रवेश कानू (618057), एमटीडी, 09 अगस्त 2011

वाअ अब्दुल समद (618909), एमटीडी, 11 अगस्त 2011

वाअ श्याम नंदन सिंह (619930), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ प्रमोद कुमार (620123), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ रमेश प्रसाद वर्मा (620177), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ बाल कृष्ण चिकारा (620296), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ सेथू बास्करन (620340), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ दुर्गाराम माली (620551), एमटीडी, 13 अगस्त 2011

वाअ सुभाष चंद्रा हरीचंदन (620587), एमटीडी, 15 अगस्त 2011

वाअ जयपाल सिंह शोरन (620789), एमटीडी, 15 अगस्त 2011

वाअ धर्मवीर सिंह दाहिया (621261), एमटीडी, 15 अगस्त 2011

वाअ जयमल सिंह (621331), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ जय राज सिंह (621662), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ संतोष कुमार विश्वास (621703), एमटीडी, 07 अगस्त 2011

वाअ रामनाथ बरीथा (621973), एमटीडी, 24 जुलाई 2011

वाअ करतार सिंह (622124), एमटीडी, 24 जुलाई 2011

वाअ दीपक कुमार सिंह (622182), एमटीडी, 24 जुलाई 2011

वाअ त्रिलोक सिंह चीमा (622431), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ विजय कुमार कुशवाहा (622563), एमटीडी, 07 अगस्त 2011

वाअ हुक्म सिंह अधिकारी (622603), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ महिपाल सिंह चौहान (622766), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ गौरैया जसाराम (622999), एमटीडी, 19 अगस्त 2011

वाअ लीला धर ठाकुरिया (623304), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ मुक्ति पादा पॉल (623319), एमटीडी, 26 जुलाई 2011

वाअ मो. असलम खान (623326), एमटीडी, 26 जुलाई 2011

वाअ ओंकार सिंह (623445), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ ओम प्रकाश शर्मा (623666), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ खटक बहादुर सोनार (623774), एमटीडी, 17 अगस्त 2011

वाअ पीयूष कुमार (624163), एमटीडी, 19 अगस्त 2011

वाअ मलय भट्टाचार्य (624248), एमटीडी, 21 अगस्त 2011

वाअ मुप्पानेनी रामा कृष्ण राव (624425), एमटीडी, 03 अगस्त 2011

वाअ किशोरी प्रसाद (624548), एमटीडी, 01 अगस्त 2011

वाअ मोहम्मद साबिर (624625), एमटीडी, 19 अगस्त 2011

वाअ कौशल कुमार सिंह (624628), एमटीडी, 21 अगस्त 2011

वाअ परेश चंद्रा ठाकुरिया (624720), एमटीडी, 19 अगस्त 2011

वाअ रणजीत महतो (624877), एमटीडी, 26 जुलाई 2011

वाअ राम नरेश (625126), एमटीडी, 19 अगस्त 2011

वाअ सेत बहादुर सिंह (625129), एमटीडी, 30 जुलाई 2011

वाअ राजेश कुमार पांडे (625263), एमटीडी, 28 जुलाई 2011

वाअ महादेव चंद्र गौरैया (625395), एमटीडी, 26 जुलाई 2011

वाअ कामख्या नारायण सिंह (625594), एमटीडी, 19 अगस्त 2011  
 वाअ परतै हनामन्त निवरत्ती (625824), एमटीडी, 21 अगस्त 2011  
 वाअ बेरागी गोकुलदास भिकनदास (625826), एमटीडी, 21 अगस्त 2011  
 वाअ जगदीश प्रसाद शर्मा (626176), एमटीडी, 21 अगस्त 2011  
 वाअ अंजनि कुमार (626635), एमटीडी, 30 जुलाई 2011  
 वाअ रोशन लाल (626744), एमटीडी, 30 जुलाई 2011  
 वाअ शिव पाल सिंह (626888), एमटीडी, 01 अगस्त 2011  
 वाअ राकेश बाबु (627032), एमटीडी, 01 अगस्त 2011  
 वाअ चंदन नेन्दी (627160), एमटीडी, 03 अगस्त 2011  
 वाअ किशोर कुमार एन एन (627542), एमटीडी, 01 अगस्त 2011  
 वाअ सेवी चन्द दूदी (627724), एमटीडी, 03 अगस्त 2011  
 वाअ सुरेश कुमार (628567), एमटीडी, 07 अगस्त 2011  
 वाअ जगबीर सिंह (628694), एमटीडी, 05 अगस्त 2011  
 वाअ जोगिन्द्र सिंह पंवर (628713), एमटीडी, 05 अगस्त 2011  
 वाअ शिवेन्द्र सिंह (628993), एमटीडी, 07 अगस्त 2011  
 वाअ चरन जीत सिंह (629079), एमटीडी, 05 अगस्त 2011  
 वाअ गजेन्द्र सिंह मलिक (666449), एमटीडी, 19 अगस्त 2011  
 वाअ स्वप्न कुमार गुप्ता (625255), म्यूजिशियन, 01 दिसम्बर 2010  
 वाअ गुरूशरन सिंह बालिया (634972), फोटो फिटर, 01 जुलाई 2010  
 वाअ सूर्यापाल शर्मा (638046), फोटो फिटर, 01 जनवरी 2010  
 वाअ राठौर गोविन्द सिंह (638256), फोटो फिटर, 01 अगस्त 2010  
 वाअ बिदावत मूल सिंह (638259), फोटो फिटर, 04 अगस्त 2010  
 वाअ राजेन्द्र प्रसाद (650453), फोटो फिटर, 06 अगस्त 2010  
 वाअ डोरी लाल कोयल (650767), फोटो फिटर, 09 फरवरी 2010  
 वाअ संत सिंह (650783), फोटो फिटर, 05 फरवरी 2010  
 वाअ राजेश कुमार शर्मा (650961), फोटो फिटर, 02 फरवरी 2011  
 वाअ स्वर्ण सिंह मन्हास (651244), फोटो फिटर, 03 जनवरी 2010  
 वाअ महेन्द्र कुमार (657982), फोटो फिटर, 03 फरवरी 2010  
 वाअ शिवा पाडा भट्टाचार्जी (657996), फोटो फिटर, 09 फरवरी 2010  
 वाअ राज कुमार झा (682966), फोटो फिटर, 04 अगस्त 2010  
 वाअ प्रेम सिंह कार्की (627208), पी जे आई, 11 जून 2007  
 वाअ अजित सिंह राणा (628363), पी जे आई, 01 फरवरी 2008  
 वाअ असित कुमार बिस्वास (629129), पी जे आई, 07 जून 2008

वाअ राज सिंह शेरावत (692705), पी जे आई, 01 मई 2009  
 वाअ चरणजीत सिंह मक्कड़ (692717), पी जे आई, 08 अप्रैल 2011  
 वाअ राज वीर सिंह (694048), पी जे आई, 01 जनवरी 2010  
 वाअ राम शरण यादव (701125), पी जे आई, 20 अप्रैल 2011  
 वाअ सन्नी कुन्मपूरथ (705101), पी जे आई, 09 अगस्त 2011  
 वाअ रामाजी सिंह (621793), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ विनय कुमार मिश्रा (621956), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ बिबेका नंद राठ (622167), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ उपेन्द्र कुमार सिंह (622276), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ विजय शंकर चोबे (622277), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ नागेश्वर ठाकुर (622285), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ मूल सिंह ढाका (622296), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ संसार पाल (622579), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ पांडे राज नारायण (622988), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ बलविन्द्र सिंह मेहदवान (624373), रेडियो फिटर, 15 फरवरी 2010  
 वाअ सुभाष चंद्र ऐच (625410), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ शाम लाल (625668), रेडियो फिटर, 15 फरवरी 2010  
 वाअ श्री नारायण तिवारी (625763), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ मकरन्द राम (625778), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ दिनेश कुमार शर्मा (626404), रेडियो फिटर, 15 फरवरी 2010  
 वाअ अरूण कुमार सिंह (626760), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010  
 वाअ ओम प्रकाश (626773), रेडियो फिटर, 23 फरवरी 2010  
 वाअ उमा शंकर सिंह (635431), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ अर्जुना ठाकुर (635435), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ कौशल कुमार तिवारी (635621), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ सतीश कुमार तिवारी (635628), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ मान सिंह चौहान (635876), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011  
 वाअ राजेन्द्र कुमार लावनिया (636588), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ उमेश सिंह (636867), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ निर्मल सिंह (636920), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010  
 वाअ अजित कुमार गुप्ता (637739), रेडियो फिटर, 15 फरवरी 2010



- वाअ शिव कुमार पाठक (638787), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010
- वाअ परमेश्वर पॉल (638868), रेडियो फिटर, 17 फरवरी 2010
- वाअ पछीलू कालीदास (638995), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ अजय कुमार पट्टनायक (639005), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ बसन्त कुमार महाराणा (639248), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ नारायण लाल जांगिड (639291), रेडियो फिटर, 01 मार्च 2010
- वाअ सुभाष विश्वनाथ उतरवार (639423), रेडियो फिटर, 27 फरवरी 2010
- वाअ बलिन्द्र सिंह (639503), रेडियो फिटर, 27 फरवरी 2010
- वाअ मोहम्मद जैबुल हसन (651453), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010
- वाअ सुखबीर सिंह (651575), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011
- वाअ रमेश (651582), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011
- वाअ अमरेन्द्र सामल (651615), रेडियो फिटर, 01 फरवरी 2011
- वाअ नित्यानंद प्रसाद (652013), रेडियो फिटर, 15 फरवरी 2010
- वाअ कालूराम तोमर (652736), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010
- वाअ सतीश चंद्र भारद्वाज (653350), रेडियो फिटर, 11 फरवरी 2010
- वाअ सुरेन्द्र कुमार जून (653626), रेडियो फिटर, 27 फरवरी 2010
- वाअ इस्लाम अली (653643), रेडियो फिटर, 23 फरवरी 2010
- वाअ प्रोकाश भंडारी (653986), रेडियो फिटर, 23 फरवरी 2010
- वाअ हरे श्याम मेहन्ता (654091), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ रविन्द्र कुमार साहू (654098), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ सिंह इन्द्रा गोपाल (654112), रेडियो फिटर, 01 मार्च 2010
- वाअ संतोष कुमार त्रिपाठी (654466), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ सुरेन्द्र पाल शर्मा (654545), रेडियो फिटर, 21 फरवरी 2010
- वाअ अजय कुमार (672973), रेडियो फिटर, 27 फरवरी 2010
- वाअ निरंजन महापात्रा (672991), रेडियो फिटर, 27 फरवरी 2010
- वाअ प्रकाश श्याम (673124), रेडियो फिटर, 01 मार्च 2010
- वाअ विजया पाल सिंह (674110), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ उत्तम सिंह (680889), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ कृष्ण कुमार (681047), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ असीष कुमार स्वेन (681421), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ करीमी सेती रामा कृष्णा (681663), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ हीरा लाल पाठक (681971), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ करे लाल यादव (682052), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ शेख अब्दुल गोफार (682168), रेडियो फिटर, 09 मार्च 2010
- वाअ मान सिंह (683368), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ विश्वनाथ (683570), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ योग राज राणा (683763), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ बलवान सिंह (683843), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ चंद्र सिंह कान्याल (683907), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ नंद लाल कुमावत (684050), रेडियो फिटर, 11 मार्च 2010
- वाअ बाय कृष्णालेंका (644079), एस ई डब्ल्यू, 06 जून 2009
- वाअ सनप सुधाकर किशनराव (657734), एस ई डब्ल्यू, 03 अगस्त 2009
- वाअ विश्व नाथ पाल (658014), एस ई डब्ल्यू, 06 जून 2009
- वाअ गौरव बालकृष्ण ओंकार (658760), एस ई डब्ल्यू, 03 अगस्त 2009
- वाअ सरूआ देव सिंह यादवा (658772), एस ई डब्ल्यू, 03 अगस्त 2009
- वाअ रामाकान्त सिंह यादव (643246), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ रामेश्वर प्रसाद (643698), वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2009
- वाअ धर्मवीर ढींगरा (643727), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ विजय सिंह बोंद्रा (644102), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010
- वाअ चंद्र भास्कर राम (644154), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ दशरथी राउतराय (644964), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ छत्रपाल सिंह (657303), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ प्रेम लाल साह (657502), वेपन फिटर, 06 नवम्बर 2008
- वाअ सुद्रेसन बालकृष्णन (657796), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010
- वाअ महाराज सिंह (658115), वेपन फिटर, 08 नवम्बर 2008
- वाअ संतोष कुमार (658347), वेपन फिटर, 21 नवम्बर 2010
- वाअ विश्वेश्वर मिश्रा (658557), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010
- वाअ बाबू लाल प्रसाद (658564), वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2008
- वाअ शिव नाथ प्रसाद (658568), वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2008
- वाअ त्रिपाठी अवधेश चंद्रा (658847), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010

- वाअ शिव भान सिंह (659429), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010
- वाअ मानकेश्वर सिंह (659478), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ राम निवास (659679), वेपन फिटर, 19 नवम्बर 2010
- वाअ राम पाल सिंह (660367), वेपन फिटर, 23 नवम्बर 2010
- वाअ ज्योति बल्लव गोपाल (660435), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ राम नारायण सिंह (660772), वेपन फिटर, 17 नवम्बर 2010
- वाअ पारस नाथ यादव (660858), वेपन फिटर, 19 नवम्बर 2010
- वाअ तपन कुमार दास (660920), वेपन फिटर, 19 नवम्बर 2010
- वाअ अमर नाथ चहुर्वेदी (661313), वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2008
- वाअ केशल किशोर (661433), वेपन फिटर, 25 नवम्बर 2010
- वाअ वकील झा (661478), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ लाला बिष्णु प्रसाद राय (661752), वेपन फिटर, 21 नवम्बर 2010
- वाअ ओमवीर सिंह (661808), वेपन फिटर, 02 फरवरी 2009
- वाअ धर्म वीर शरोडिया (661826), वेपन फिटर, 02 जनवरी 2009
- वाअ सत पाल शर्मा (662227), वेपन फिटर, 02 फरवरी 2009
- वाअ सुभाष चंद शर्मा (662272), वेपन फिटर, 25 नवम्बर 2010
- वाअ पाटिल उत्तम रामराव (662377), वेपन फिटर, 02 मार्च 2009
- वाअ रामदुलार सिंह (662390), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ शैलेश कुमार पांडे (662718), वेपन फिटर, 02 मई 2009
- वाअ त्रिपाठी संजय कुमार (662842), वेपन फिटर, 01 दिसम्बर 2010
- वाअ गोपी कृष्णा (665040), वेपन फिटर, 02 फरवरी 2009
- वाअ राम बाली (665075), वेपन फिटर, 25 नवम्बर 2010
- वाअ जगदीश प्रसाद (665092), वेपन फिटर, 21 नवम्बर 2010
- वाअ राधे श्याम (665098), वेपन फिटर, 02 दिसम्बर 2008
- वाअ इसरार अहमद (665137), वेपन फिटर, 02 मार्च 2009
- वाअ राजेन्द्र प्रताप सिंह (665154), वेपन फिटर, 25 नवम्बर 2010
- वाअ घनश्याम राय (665170), वेपन फिटर, 02 फरवरी 2009
- वाअ ओम पाल सिंह चौहान (665207), वेपन फिटर, 02 जनवरी 2009
- वाअ अशोक कुमार जैन (665223), वेपन फिटर, 02 जनवरी 2009
- वाअ एस के सैय्यब अली मुल्लाह (665393), वेपन फिटर, 21 नवम्बर 2010
- वाअ प्रफुल्ल कुमार नंदा (665904), वेपन फिटर, 29 नवम्बर 2010
- वाअ राजनारायण सिंह (665056), रेडियो फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ अनिश अहमद खान (666067), वेपन फिटर, 02 मार्च 2009
- वाअ पंचानन बेहेरा (666110), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ रास बिहारी पांडे (666504), वेपन फिटर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ ज्ञानेश्वर (666726), वेपन फिटर, 02 मार्च 2009
- वाअ राजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री (666820), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ अनिल कुमार (666848), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ राम नरेश (667063), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ बचन सिंह (667376), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ श्री अतुल चंद्रा बोरा (667489), वेपन फिटर, 27 नवम्बर 2010
- वाअ मान सिंह (667537), वेपन फिटर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ छोगाराम बिश्नोई (668180), वेपन फिटर, 29 नवम्बर 2010
- वाअ तपन कुमार दास (668353), वेपन फिटर, 01 दिसम्बर 2010
- वाअ विरेन्द्र (668445), वेपन फिटर, 29 नवम्बर 2010
- वाअ सुधांशु शेखर सतपथी (669121), वेपन फिटर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ राजेन्द्र बाबू (669485), वेपन फिटर, 01 दिसम्बर 2010
- वाअ राकेश कुमार त्रिपाठी (669583), वेपन फिटर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ सतीश कुमार वासन (669832), वेपन फिटर, 05 दिसम्बर 2010
- वाअ आत्मा राम (669977), वेपन फिटर, 29 नवम्बर 2010
- वाअ रास बिहारी योगेन्द्र (675021), वेपन फिटर, 02 मई 2009
- वाअ गति वी पर्वतईस्वरा शास्त्री (675055), वेपन फिटर, 01 दिसम्बर 2010
- वाअ सजीव टीके (675061), वेपन फिटर, 03 दिसम्बर 2010
- वाअ रिजवान मोहम्मद (675078), वेपन फिटर, 02 अप्रैल 2009
- वाअ हरीवीर सिंह (675087), वेपन फिटर, 01 दिसम्बर 2010
- वाअ देवेन्द्र कुमार शर्मा (675289), वेपन फिटर, 04 नवम्बर 2008
- वाअ सरोज कान्ता चौधरी (675500), वेपन फिटर, 04 नवम्बर 2008
- वाअ निरंजन गिरी (675764), वेपन फिटर, 03 दिसम्बर 2010
- वाअ चंदेश्वर प्रसाद (676939), वेपन फिटर, 04 नवम्बर 2008

वाअ अनिल कुमार चौरासिया (678962), वेपन फिटर, 04 नवम्बर 2008

वाअ जीत सिंह सांगवान (678990), वेपन फिटर, 15 नवम्बर 2010

वाअ मृत्युन्व्य कुमार (679089), वेपन फिटर, 15 नवम्बर 2010

वाअ सत्या प्रकाश ओझा (679092), वेपन फिटर, 05 दिसम्बर 2010

वाअ बिनोद कुमार सिंह (695286), वेपन फिटर, 15 नवम्बर 2010

वाअ उदय पाल सिंह जनमेड़ा (657311), वर्कशॉप फिटर (बी), 05 अप्रैल 2011

वाअ नारायण बसक (657851), वर्कशॉप फिटर (बी), 08 अप्रैल 2011

वाअ अवधेश बहादुर सिंह (657862), वर्कशॉप फिटर (बी), 10 अप्रैल 2011

वाअ सुरेंच बोरो (657866), वर्कशॉप फिटर (बी), 04 अप्रैल 2011

वाअ सुंकारा राजेश्वरा राव (658137), वर्कशॉप फिटर (बी), 10 अप्रैल 2011

वाअ अशोक कुमार (658385), वर्कशॉप फिटर (बी), 06 अप्रैल 2011

वाअ राज नंदन यादव (658876), वर्कशॉप फिटर (बी), 01 अक्टूबर 2011

वाअ जुबैर अली (658879), वर्कशॉप फिटर (बी), 04 अप्रैल 2011

वाअ मेघराज सिंह तेवतिया (658885), वर्कशॉप फिटर (बी), 04 अप्रैल 2011

वाअ अरुण कुमार सिंह (659053), वर्कशॉप फिटर (बी), 10 अप्रैल 2011

वाअ सुरेश प्रसाद सिंह (659075), वर्कशॉप फिटर (बी), 16 अप्रैल 2011

वाअ नकुल यादव (665168), वर्कशॉप फिटर (बी), 03 जून 2011

वाअ थोरावडे चंद्रकांत श्रीपति (665460), वर्कशॉप फिटर (बी), 12 अप्रैल 2011

वाअ प्रभु नाथ गौरेया (665545), वर्कशॉप फिटर (बी), 01 अगस्त 2011

वाअ अथोकपम श्याम किशोर सिंह (666926), वर्कशॉप फिटर (बी), 06 अप्रैल 2011

वाअ ग्लांडे प्रवीण रामसुख (667349), वर्कशॉप फिटर (बी), 04 अप्रैल 2011

वाअ सुख बीर सिंह नागर (657596), वर्कशॉप फिटर (सी), 03 फरवरी 2011

वाअ गोकुला नंदा जैना (657871), वर्कशॉप फिटर (सी), 09 अक्टूबर 2010

वाअ सुखविन्द्र सिंह सैनी (658900), वर्कशॉप फिटर (सी), 05 अक्टूबर 2010

वाअ बच्चा लाल (658901), वर्कशॉप फिटर (सी), 03 फरवरी 2011

वाअ विपिन कुमार अग्रवाल (659339), वर्कशॉप फिटर (सी), 01 सितम्बर 2010

वाअ रिशी पाल (659349), वर्कशॉप फिटर (सी), 03 सितम्बर 2010

वाअ अरूप कुमार सेन (668341), वर्कशॉप फिटर (सी), 07 अक्टूबर 2010

वाअ जय राज धीमान (660569), वर्कशॉप फिटर (एम), 03 अक्टूबर 2009

वाअ देश राज (660576), वर्कशॉप फिटर (एम), 03 अक्टूबर 2009

वाअ धर्म बीर सिंह (661167), वर्कशॉप फिटर (एम), 03 अक्टूबर 2009

वाअ देवेन्द्र कुमार सिंह (661870), वर्कशॉप फिटर (एम), 03 अक्टूबर 2009

वाअ अमरपाल सिंह त्यागी (662376), वर्कशॉप फिटर (एम), 01 मार्च 2010

वाअ राजपाल सिंह नेहरा (666979), वर्कशॉप फिटर (एम), 01 मई 2010

वाअ दर्शन लाल ढिंगरा (675831), वर्कशॉप फिटर (एम), 01 जुलाई 2010

अंजलि सिंह  
निदेशक (एयर-1)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th July 2012

## ARMY BRANCH

No. 273, dated 15th June 2012—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Major

Capt Pradeep Misra (MS-16150A) (ExMS-14020Y), AMC, DOC, 29 Jul 2009 with seniority for pay and promotion with effect from 08 Mar 2001. This includes total 08 years 143 days service (05 years 143 days for previous full Pay Commission Service and 03 years for PG Degree), which will not count for gratuity. Seniority in the rank of Major will reckon with effect from 08 Mar 2005.

The Officer has been granted rank of Major with effect from date of Commission i.e. 29 Jul 2009.

To be Capt

Capt Rituraj Kotoki (MS-16049A), DOC, 26 Feb 2009, with seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Kalyan Kumar Bhakta (MS-16121L), DOC, 28 Jul 2009, with seniority for pay and promotion from 28 Jan 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Harsoda Rohan Jamanbhai (MS-15775H), DOC, 25 Apr 2008, with seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Phuritshabam Chinglemba (MS-16058F), DOC, 26 Feb 2009, with seniority for pay and promotion from 26 Aug 2008. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Kartikeya R Singh (MS-16258X), DOC, 20 Aug 2009, with seniority for pay and promotion from 20 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Nitin Gupta (MS-16742K), DOC, 14 Jul 2010, with seniority for pay and promotion from 14 Jan 2010. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Jayanta Chakravarty (MS-16255K), DOC, 19 Aug 2009, with seniority for pay and promotion from 19 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Nabanita Mondal (MS-16357A), DOC, 13 Aug 2009, with seniority for pay and promotion from 13 Feb 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Yasholankaar Bhagwati (MS-16695X), DOC, 16 Jun 2010, with seniority for pay and promotion from 16 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Mithun Kumar (MS-16716H), DOC, 18 Jun 2010, with seniority for pay and promotion from 18 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Ranjit Singh Lahel (MS-16608Y), DOC, 15 Jun 2010, with seniority for pay and promotion from 15 Dec 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Akankshi Bloria (MS-16508N), DOC, 09 Feb 2010, with seniority for pay and promotion from 09 Aug 2006. This includes 42 months antedate seniority [36 months for Master of Surgery (E. N. T.) and six months for hospital appointment], which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Capt on probation

Capt Moseen Moneer (MS-16620A), AMC, 15 Jun 2010

Capt Kumari Nitu (MS-16803W), AMC, 21 Oct 2011

Capt Rajan Anand (MS-16484P), AMC, 09 Jan 2010

Capt Lavesh Kumar Agrawal (MS-16604H), AMC, 15 Jun 2010

Capt Manoj Ramkrishna Kashid (MS-16761P), AMC, 11 Dec 2010

Capt Shaieq Shafi Raja (MS-16323M), AMC, 31 Jul 2009

To be Flt Lt

Flt Lt Rajesh Kumar (MS-16707F) (AF-31093), DOC, 17 Jun 2010, with seniority for pay and promotion from 17 Jun 2007. This includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Pediatrics) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Mayanglambam Usharani (MS-16466M) (AF-30890A), DOC, 08 Jan 2010, with seniority for pay and promotion from 08 Jul 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Harsh Preet (MS-16433F) (AF-30884K), DOC, 01 Jan 2010, with seniority for pay and promotion from 01 Jul 2009. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt on probation

Flt Lt Narendra Pachehra (MS-16444N) (AF-30889H), AMC, 05 Jan 2010

Flt Lt Raghunandan V (MS-16806K) (AF-31427H), AMC, 24 Aug 2011

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt on Probation

Lt Hemant Himanshu Parihar (MS-16801L), AMC, 10 Sept 2011

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Lt on Probation

Surg Lt Joshi Dipali Prakash (MS-16804Y), AMC, 01 Nov 2011

Surg Lt S Ravindranath Reddy (MS-16478F), AMC, 10 Jan 2010

Surg Lt Rahul G (MS-16621H), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Benith Nelson (MS-16622L), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Chandran R (MS-16631M), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Syam N (MS-16681X), AMC, 16 Jun 2010

Surg Lt Gowrishankar K (MS-16735N), AMC, 7 Jul 2010

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Surg Sub Lt on Probation

Surg Sub Lt Ahmed Zaid Jamal (MS-16771Y), AMC, 18 Mar 2011

Surg Sub Lt Vibhu Tiwari (MS-16773K), AMC, 18 Mar 2011

Surg Sub Lt Gautam Girish (MS-16800H), AMC, 10 Sep 2011

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 274, dated 15th Jun 2012—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 163 (One hundred and sixty three) Gentleman Cadets of 111 Technical Graduates Course (TGC) and 19 University Entry Scheme (UES) Course, whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 11 Jun 2011 (FN) except Two GCs vide GC No U/1051 and U/1086 who were LMC and after being S1H1A1P1E1 they have been granted Permanent Commission wef 17 Jun 11 (FN) and 30 Aug 11 (FN) respectively, under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Jun 2009 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

U/1026 Varun Sood, 75659K, Engrs

T/6807 Ankit Harjai, 75660Y, AC

U/1054 Nitin Pandey, 75661F, Arty

T/6809 Saurabh Pandey, 75662K, AOC

U/1023 Manoj Mahtolia, 75663M, AC

U/1041 Sukhjeet Singh, 75664P, Sigs

T/6825 Kartik Bisht, 75665X, Sigs

U/1058 Mohit Sahdev, 75666A, Mech Inf

U/1086 Maisnam Deepak Kumar, 75667H, EME

T/6756 Yogesh Kumar Shukla, 75668L, ASC

T/6762 Mandeep, 75669L, AC	T/6804 Abhinav Mittal, 75711F, ASC
T/6841 Akash Kundu, 75670H, Arty	U/1067 Sayan Mitra, 75712K, Engrs
U/1038 Abhilash Chand, 75671L, Engrs	U/1083 Prashant Gupta, 75713N, Engrs
T/6856 Shiraz Chaudhary, 75672N, EME	T/6775 Nandu R Menon, 75714P, Engrs
U/1034 Vikas Singh, 75673W, Arty	U/1044 Kuldeep Kumar, 75715X, Engrs
T/6801 Bharat Gupta, 75674Y, Inf	U/946 Puranjit Singh Mehta, 75716A, Mech Inf
U/1029 Devendra Singh Maldhya, 75675F, Arty	U/1085 Sangale Stephen Augustine, 75717H, Engrs
U/1084 Rahul Rawat, 75676K, Engrs	U/1022 Gagandeep Singh, 75718L, Sigs
T/6817 Pankaj Kumar Yadav, 75677M, ASC	U/1088 Antriksh Slathia, 75719N, Inf
T/6779 Rituraj Bahukhandi, 75678P, Inf	T/6865 Devopallav Baruah, 75720H, Engrs
U/1053 Salil Joshi, 75679X, AC	U/1050 Yende Raghavendra Kumar, 75721L, Engrs
U/1025 Praveen Singh, 75680M, Sigs	T/6839 Jisho Thomas, 75722N, Arty
T/6862 Ankush Sharma, 75681P, Inf	T/6755 Sandip Halder, 75723W, Inf
T/6783 Alex Daniel, 75682X, Mech Inf	U/1068 Gurubinder Singh, 75724Y, Sigs
T/6879 Ajay Mor, 75683A, EME	T/6803 Ravinder Singh Sheoran, 75725F, AOC
U/1028 Piyush Dhariwal, 75684H, AOC	T/6871 Jiten Bhakar, 75726K, AOC
T/6757 Maaninder Pal Singh, 75685L, AAD	T/6852 Amber Rai Kalia, 75727M, Engrs
U/1037 Amit Garg, 75686N, EME	T/6847 V Advait, 75728P, Engrs
T/6840 Lalit Kumar Tiwari, 75687W, Int	T/6833 Tajuddin Bagewadi, 75729X, Mech Inf
T/6867 Anant Shukla, 75688Y, EME	T/6769 Nganungsing Jajo, 75730M, AOC
T/6789 Sandeep Kumar Mishra, 75689F, AAD	U/1024 Pradyumna T S, 75731P Engrs
T/6838 Nitin Sharma, 75690W, Inf	T/6822 Ashish Pareek, 75732X, AC
U/1070 Sagar Suman, 75691Y, Inf	T/6812 Praveen M K, 75733A, AAD
U/1080 Anish Poonia, 75692F, Sigs	T/6861 Prashant Dogra, 75734H, EME
T/6870 Chandan Singh, 75693K, Inf	T/6883 Kaushal Sharma, 75735L, Mech Inf
T/6788 Vishal Bhatia, 75694M, Inf	T/6766 Dhrubajit Das, 75736N, EME
T/6760 Jasjeet Singh, 75695P, EME	T/6842 Partha Sarathi Batabyal, 75737W, Arty
T/6811M Ragavendran, 75696X, Arty	U/1007 Durlav Swain, 75738Y, AAD
T/6758 Shivek Sharma, 75697A, Arty	U/1060 Abhinav Gangrade, 75741Y, Engrs
T/6764 C Dinesh, 75698H, AAD	U/1066 Harshit Mahajan, 75742F, Arty
T/6814 Amarjit Singh, 75699L, ASC	U/1043 Pratyaksh Mudgil, 75743K, EME
U/1069 Mayank Joshi, 75700P, Sigs	U/1059 Amit Ansal, 75744M, EME
T/6753 Harish S, 75701X, Inf	U/1046 Kartik Saxena, 75745P, AC
T/6761 Navin Dalal, 75702A, Engrs	U/1055 Pallove Kumar, 75747A, Sigs
T/6885 Gursimranjit Singh, 75703H, Arty	T/6798 Dheeraj Sharma, 75748H, Mech Inf
T/6763 Mantej Singh Riar, 75704L, Arty	T/6792 Prashanth V, 75749L, Inf
U/1030 Vikas Jha, 75705N, Sigs	U/1075 Rajesh Kumar, 75750A, EME
T/6752 K Naveen Kumar, 75706W, EME	T/6730 Kaustubh Roy, 75751H, Sigs
T/6863 Kirti Vardhan Singh Chauhan, 75707Y, ASC	U/1045 Hari Vaibhav, 75752L, EME
T/6815 Akhil Sharma, 75708F, EME	T/6787 Harpreet Singh Raina, 75753N, Inf
U/1032 L Prashant, 75709K, AAD	T/6818 Rishamjot Singh Bindra, 75754W, Engrs

U/1035 Nishant Nilekar, 75755Y, EME  
 T/6819 Rajiv Sunil Kamble, 75756F, ASC  
 T/6828 Navjot Rekhi, 75757K, ASC  
 U/1076 Mehul O Asnani, 75758M, Engrs  
 U/1057 Tarun Alex, 75759P, Sigs  
 T/6880 Amit Verma, 75760K, Mech Inf  
 T/6774 TT Badrinath TT Bharadwaj, 75761M, Sigs  
 T/6767 Jagjit Bhagirath, 75762P, Engrs  
 T/6873 Rohit, 75763X, Engrs  
 U/1074 Abhay Kumar, 75764A, EME  
 T/6772 Hemant Kumar Yadav, 75765H, Sigs  
 U/1049 Roshan S, 75766L, EME  
 U/1036 Rahul Mahajan, 75767N, Arty  
 T/6868 S Mohammed Sadiq Ul Ameen, 75768W, Arty  
 T/6872 Vishal Bharti, 75769Y, Arty  
 U/1056 Arun Krishnan, 75770N Engrs  
 T/6759 Manish Thapa, 75771W, EME  
 T/6771 Ayush Pathak, 75772Y, Arty  
 T/6799 Sheras M, 75773F, Arty  
 T/6849 Shrikanth Govind Kumar, 75774K, Inf  
 T/6813 K Naveen Reddy, 75775M, Engrs  
 T/6754 Jayjeet Kachhwaha, 75776P, AC  
 U/1047 Gaurav Kumar, 75777X, AAD  
 T/6836 Sunny Gandhi, 75778A, Engrs  
 T/6820 Deepak Dubey, 75779H, Arty  
 U/1052 Dhanu Kumar Rai, 75780X, Engrs  
 T/6794 Abhishek Wakhloo, 75781A, Sigs  
 T/6806 Mangrulkar Ameya Chandrakant, 75782H, Sigs  
 T/6869 Pramit Kuntal, 75783L, Inf  
 T/6855 Lomesh Sirohi, 75784N, Engrs  
 T/6780 Madhusudan Upadhyay, 75785W, EME  
 T/6793 Arjun Chauhan, 75786Y, AC  
 T/6784 Tanmay Bhardwaj, 75787F, Inf  
 T/6859 Ajay Sharma, 75788K, EME  
 T/6805 Giresh Kumar Balihar, 75789M, Int  
 T/6795 Simranjit Singh, 75790F, Mech Inf  
 T/6881 Arpit Kansal, 75791K, Arty  
 U/1073 Sanket Sharma, 75792M, Sigs  
 U/973 Arpit Sachdeva, 75793P, Arty  
 U/1064 Shankar Kehal, 75794X, Engrs  
 T/6835 Manmohan Singh, 75795A, Sigs

T/6858 Vivek Sharma, 75796H, EME  
 T/6796 Sainesh Bhardwaj, 75797L, Inf  
 T/6734 Sahil Raina, 75798N, Sigs  
 T/6765 Anil Kumar, 75799W, Sigs  
 T/6864 Shakti Singh, 75800A, AC  
 U/1079 Athar Yusuf, 75801H, EME  
 T/6830 Ashutosh Ashish, 75802L, Engrs  
 U/1072 Sarthak Nautiyal, 75803N, Engrs  
 T/6844 Rishabh Kumar Saxena, 75804W, EME  
 U/1040 Deepak Kumar, 75805Y, Engrs  
 T/6846 Ashish Mehay, 75806F, Arty  
 U/1081 Pushpinder Singh Manhas, 75807K, Sigs  
 U/1021 Deepan Sudharson G, 75808M, EME  
 U/1051 M Bharat Kumar, 75809P, Engrs  
 U/1061 Vipul Vipin Rakheja, 75810K, AAD  
 U/1063 Rishish Thakur, 75811M, AOC  
 T/6773 Sachin Chaudhary, 75812P, Inf  
 T/6808 Anupam Porwal, 75813X, EME  
 U/1033 Vimal Kumar Nair V, 75814A, Inf  
 T/6791 Bikramjeet Singh, 75815H, Inf  
 T/6845 Navtaj Singh Chopra, 75816L, Arty  
 T/6797 Himanshu Yadav, 75817N, Mech Inf  
 T/6837 Himanshu Nigam, 75819Y, ASC  
 T/6854 Hari Dutt Pokhriyal, 75820N, ASC  
 T/6821 Navpreet Singh Sandhu, 75821W, AAD  
 U/1077 Shivender Singh Ahlawat, 75822Y, AC  
 U/1089 Prince Sharma, 75823F, Arty  
 T/6850 Ashish Chaudhary, 75825M, Inf  
 T/6866 Amanbir Singh Sidhu, 75826P, ASC  
 U/1031 Ankit Gupta, 75827X, AC

#### SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 159 (one hundred and fifty nine) GCs of 111 Technical Graduates Course (TGC) and 19 University Entry Scheme are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

#### 111 TECHNICAL GRADUATE COURSE

T/6752 K Naveen Kumar, 44570W, EME, 14 Jul 2010  
 T/6753 Harish S, 44571Y, Sigs, 14 Jul 2010

- T/6754 Jayjeet Kachhwaha, 44572F, EME, 14 Jul 2010
- T/6755 Sandip Halder, 44573K, EME, 14 Jul 2010
- T/6756 Yogesh Kumar Shukla, 44574M, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6757 Maninder Pal Singh, 44575P, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6758 Shivek Sharma, 44576X, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6759 Manish Thapa, 44577A, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6760 Jasjeet Singh, 44578H, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6761 Navin Dalal, 44579L, EME, 14 Jul 2010
- T/6762 Mandeep, 44580A, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6763 Mantej Singh Riar, 44581H, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6764 C Dinesh, 44582L, EME, 14 Jul 2010
- T/6765 Anil Kumar, 44583N, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6766 Dhruvajit Das, 44584W, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6767 Jagjit Bhagirath, 44585Y, EME, 14 Jul 2010
- T/6769 Noganungsing Jajo, 44587K, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6771 Ayush Pathak, 44589P, EME, 14 Jul 2010
- T/6772 Hemant Kumar Yadav, 44590K, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6773 Sachin Chaudhary, 44591M, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6774 TT Badrinath TT Bhardwaj, 44592P, EME, 14 Jul 2010
- T/6775 Nandu R Menon, 44593X, EME, 14 Jul 2010
- T/6779 Rituraj Bahukhandi, 44597N, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6780 Madhusudan Upadhaya, 44598W, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6783 Alex Daniel, 44601L, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6784 Tanmay Bhardwaj, 44602N, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6787 Harpreet Singh Raina, 44605F, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6788 Vishal Bhatia, 44606K, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6789 Sandeep Kumar Mishra, 44607M, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6791 Bikramjeet Singh, 44609X, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6792 Prashanth V, 44610M, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6793 Arjun Chauhan, 44611P, EME, 14 Jul 2010
- T/6794 Abhishek Wakhloo, 44612X, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6795 Simaranjit Singh, 44613A, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6796 Sainesh Bhardwaj, 44614H, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6797 Himanshu Yadav, 44615L, EME, 14 Jul 2010
- T/6798 Dheeraj Sharma, 44616N, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6799 Sheras M, 44617W, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6801 Bharat Gupta, 44619F, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6803 Ravinder Singh Sheoran, 44621Y, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6804 Abhinav Mittal, 44622F, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6805 Giresh Kumar Balihar, 44623K, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6806 Mangrulkar Ameya Chandrakant, 44624M, EME, 14 Jul 2010
- T/6807 Ankit Harjai, 44625P, Engrs, 14 Jul 2010
- T/6808 Anupam Porwal, 44626X, EME, 14 Jul 2010
- T/6809 Saurabh Pandey, 44627A, Sigs, 14 Jul 2010
- T/6811 M Ragavendran, 44628H, Sigs, 16 Jul 2010
- T/6812 Praveen MK, 44629L, Sigs, 16 Jul 2010
- T/6813 K Naveen Reddy, 44630A, Engrs, 16 Jul 2010
- T/6814 Amarjit Singh, 44631H, Sigs, 16 Jul 2010
- T/6815 Akhil Sharma, 44632L, Engrs, 16 Jul 2010
- T/6817 Pankaj Kumar Yadav, 44633N, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6818 Rishamjot Singh Bindra, 44634W, EME, 17 Jul 2010
- T/6819 Rajiv Sunil Kamble, 44635Y, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6820 Deepak Dubey, 44636F, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6821 Navpreet Singh Sandhu, 44637K, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6822 Ashish Pareek, 44638M, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6825 Kartik Bisht, 44639P, Sigs, 17 Jul 2010
- T/6828 Navjot Rekhi, 44640K, EME, 17 Jul 2010
- T/6830 Ashutosh Ashish, 44642P, EME, 19 Jul 2010
- T/6833 Tajuddin G Bagewadi, 44644A, Sigs, 19 Jul 2010
- T/6834 Sahil Raina, 44645H, Sigs, 19 Jul 2010
- T/6835 Manmohan Singh, 44646L, Sigs, 20 Jul 2010
- T/6836 Sunny Gandhi, 44647N, EME, 20 Jul 2010
- T/6837 Himanshu Nigam, 44648W, Sigs, 20 Jul 2010
- T/6838 Nitin Sharma, 44649Y, Sigs, 20 Jul 2010
- T/6839 Jisho Thomas, 44650N, Engrs, 22 Jul 2010
- T/6840 Lalit Kumar Tiwari, 44651W, Sigs, 24 Jul 2010
- T/6841 Akash Kundu, 44652Y, Engrs, 24 Jul 2010
- T/6842 Partha Sarathi Batabyal, 44653F, Engrs, 24 Jul 2010
- T/6844 Rishbh Kumar Saxena, 44654K, EME, 26 Jul 2010
- T/6845 Navtaj Singh Chopra, 44655M, EME, 26 Jul 2010
- T/6846 Ashish Mehay, 44656P, Sigs, 26 Jul 2010
- T/6847 V Adavit, 44657X, EME, 26 Jul 2010
- T/6849 Shrikanth Govind Kumar, 44659H, Sigs, 27 Jul 2010
- T/6850 Ashish Chaudhary, 44660X, Sigs, 27 Jul 2010
- T/6852 Amber Rai Kalia, 44661A, EME, 27 Jul 2010



- T/6854 Hari Dutt Pokhriyal, 44662H, EME, 27 Jul 2010  
T/6855 Lomesh Sirohi, 44663L, EME, 27 Jul 2010  
T/6856 Shiraz Chaudhary, 44664N, EME, 27 Jul 2010  
T/6858 Vivek Sharma, 44666Y, EME, 01 Aug 2010  
T/6859 Ajay Sharma, 44667F, Sigs, 31 Jul 2010  
T/6861 Prashant Dogra, 44669M, EME, 02 Aug 2010  
T/6862 Ankush Sharma, 44670F, Sigs, 02 Aug 2010  
T/6863 Kirti Vardhan Singh Chauhan, 44671K, EME, 02 Aug 2010  
T/6864 Shakti Singh, 44672M, Sigs, 02 Aug 2010  
T/6865 Devopallav Baruah, 44673P, EME, 02 Aug 2010  
T/6866 Amanbir Singh Sidhu, 44674X, Sigs, 04 Aug 2010  
T/6867 Anant Shukla, 44675A, EME, 05 Aug 2010  
T/6868 S Mohammed Sadiq Ul Ameen, 44676H, EME, 05 Aug 2010  
T/6869 Pramit Kuntal, 44677L, Sigs, 05 Aug 2010  
T/6870 Chandan Singh, 44678N, Sigs, 05 Aug 2010  
T/6871 Jiten Bhakar, 44679W, Sigs, 05 Aug 2010  
T/6872 Vishal Bharti, 44680L, Sigs, 05 Aug 2010  
T/6873 Rohit, 44681N, EME, 06 Aug 2010  
T/6879 Ajay Mor, 44687P, EME, 13 Aug 2010  
T/6880 Amit Verma, 44688X, EME, 16 Aug 2010  
T/6881 Arpit Kansal, 44689A, Sigs, 16 Aug 2010  
T/6883 Kaushal Sharma, 44691X, Sigs, 16 Aug 2010  
T/6885 Gursimranjit Singh, 44693H, Sigs, 16 Aug 2010  
19 UNIVERSITY ENTRY SCHEME COURSE  
U/1021 Deepan Sudharson G, 44695N, EME, 14 Jul 2010  
U/1022 Gagandeep Singh, 44696W, EME, 14 Jul 2010  
U/1023 Manoj Mahtolia, 44697Y, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1024 Pradyumna Rao, 44698F, Engrs, 14 Jul 2010  
U/1025 Praveen Singh, 44699K, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1026 Varun Sood, 44700N, EME, 14 Jul 2010  
U/1028 Piyush Dhariwal, 44702Y, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1029 Devendra Singh Maldhya, 44703F, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1030 Vikash Jha, 44704K, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1031 Ankit Gupta, 44705M, EME, 14 Jul 2010  
U/1032 L Prashant, 44706P, EME, 14 Jul 2010  
U/1033 Vimal Kumar Nair V, 44707X, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1034 Vikash Singh, 44708A, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1035 Nishant Nilekar, 44709H, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1036 Rahul Mahajan, 44710X, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1037 Amit Garg, 44711A, EME, 14 Jul 2010  
U/1038 Abhilash Chand, 44712H, EME, 14 Jul 2010  
U/1040 Deepak Kumar, 44714N, EME, 14 Jul 2010  
U/1041 Sukhjeet Singh, 44715W, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1043 Pratyakash Mudgil, 44717F, EME, 14 Jul 2010  
U/1044 Kuldeep Kumar, 44718K, Engrs, 14 Jul 2010  
U/1045 Hari Vaibhav, 44719M, EME, 14 Jul 2010  
U/1046 Kartik Saxena, 44720F, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1047 Gaurav Kumar, 44721K, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1049 Roshan S, 44723P, EME, 14 Jul 2010  
U/1050 Yende Raghavendra Kumar, 44724X, Engrs, 14 Jul 2010  
U/1051 M Bharat Kumar, 44725A, Engrs, 14 Jul 2010  
U/1052 Dhanu Kumar Rai, 44726H, Engrs, 14 Jul 2010  
U/1053 Salil Joshi, 44727L, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1054 Nitin Pandey, 44728N, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1055 Pallove Kumar, 44729W, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1056 Arun Krishnan, 44730L, EME, 14 Jul 2010  
U/1057 Tarun Alex, 44731N, EME, 14 Jul 2010  
U/1058 Mohit Sahdev, 44732W, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1059 Amit Ansal, 44733Y, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1060 Abhinav Gangrade, 44734F, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1061 Vipul Vipin Rakheja, 44735K, Sigs, 14 Jul 2010  
U/1063 Rishish Thakur, 44737P, EME, 16 Jul 2010  
U/1064 Shankar Kehal, 44738X, EME, 17 Jul 2010  
U/1066 Harshit Mahajan, 44740P, Sigs, 18 Jul 2010  
U/1067 Sayan Mitra, 44741X, EME, 19 Jul 2010  
U/1068 Gurubinde Singh, 44742A, Sigs, 20 Jul 2010  
U/1069 Mayank Joshi, 44743H, Sigs, 20 Jul 2010  
U/1070 Sagar Suman, 44744L, Sigs, 01 Jul 2009  
U/1072 Sarthak Nautiyal, 44746W, EME, 03 Aug 2009  
U/1073 Sanket Sharma, 44747Y, EME, 01 Aug 2009  
U/1074 Abhay Kumar, 44748F, EME, 01 Aug 2009  
U/1075 Rajesh Kumar, 44749K, EME, 01 Aug 2009  
U/1076 Mehul O Asnani, 44750Y, EME, 22 Jun 2009  
U/1077 Shivender Singh Ahlawat, 44751F, EME, 01 Jul 2009  
U/1079 Athar Yusuf, 44753M, EME, 01 Aug 2009  
U/1080 Anish Poonia, 44754P, Sigs, 01 Aug 2009  
U/1081 Pushpinder Singh Manhas, 44755X, Sigs, 01 Aug 2009  
U/1083 Prashant Gupta, 44757H, Engrs, 01 Aug 2009

U/1084 Rahul Rawat, 44758L, EME, 17 Jul 2010  
 U/1085 Sangale Stephen Augustine, 44759N, EME, 26 Jul 2010  
 U/1086 Maisnam Deepak Kumar, 44760H, Sigs, 02 Jul 2009  
 U/1088 Antriksh Slathia, 44762N, EME, 17 Jul 2010  
 U/1089 Prince Sharma, 44763W, Sigs, 19 Jul 2010  
 The Arms/Services allotted to the GCs is valid for the duration of their training only

RAHUL SANGWAN  
 Lt Col  
 AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 275, dated 18th June 2012—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Maj to be Lt Col

MS-13999K, Maj Poovannan G, 23 Mar 2011

Sqn Ldr to Wg Cdr

MS-14852A (AF-26047F), Sqn Ldr Sonali Prashar, 30 Aug 2011

MS-14255L (AF-26068T), Sqn Ldr Pasang Doma Dukpa, 19 Jan 2012

Capt to Maj

MS-15253M Capt Ravi Prakash, 20 Feb 2011  
 MS-15267M Capt Vanit Garg, 20 Feb 2011  
 MS-15412Y Capt Rakesh Mishra, 01 Sep 2011  
 MS-15413F Capt Lalit Kumar Yadav, 05 Oct 2011  
 MS-15414K Capt Abhishek Moghe, 30 Sep 2011  
 MS-15577X Capt Seema Subhash Revankar, 06 Sep 2011  
 MS-15605Y Capt Narendra Kumar Keisam, 06 Sep 2011  
 MS-15607K Capt Madhukar Kumar, 06 Sep 2011  
 MS-15610K Capt Aditya Singh Rana, 06 Mar 2011  
 MS-15612P Capt Tarikjot Singh, 06 Sep 2011  
 MS-15615H Capt Sumit Mudh, 06 Sep 2011  
 MS-15620N Capt Dandekar Prajakta Prafulla, 06 Sep 2011  
 MS-15623F Capt Roby Bose, 06 Sep 2011  
 MS-15645A Capt Jitendra Shukla, 06 Sep 2011  
 MS-15718F Capt Sonia Datta, 25 Oct 2011  
 MS-15724P Capt Sandeep MK, 25 Oct 2011

MS-15738P Capt Raj Kumar Manglem, 25 Oct 2011  
 MS-15753K Capt Manoj Sharma, 25 Oct 2011  
 MS-15757A Capt Neha Sodhi, 25 Oct 2011  
 MS-15763N Capt Sharven Singla, 25 Oct 2011  
 MS-15788A Capt Narottam Sharma, 25 Oct 2011  
 MS-15791A Capt Sumit Kumar Singh, 25 Oct 2011  
 MS-15829Y Capt Amit Chopra, 22 Nov 2011  
 MS-16595M Capt Shweta Sikarwar, 15 Jun 2011  
 MS-16698L Capt D Priya, 16 Jun 2011  
 MS-16728X Capt Ashwini Kumar Mishra, 01 Jan 2011  
 MS-15254P Capt Chandrakanth N, 20 Feb 2011  
 MS-15255X Capt Dinesh Kundu, 20 Feb 2011  
 MS-15290A Capt Deepak Kumar Thakur, 20 Feb 2011  
 MS-15296F Capt Manisha Roy, 23 Feb 2011  
 MS-15408W Capt Gautam Singha, 01 Sep 2011  
 MS-15429M Capt Kurmayyagari Gopinath, 22 Jan 2011  
 MS-15572Y Capt Pinku Kumar, 06 Sep 2011  
 MS-15579H Capt Nikhade Ravikiran Damodharrao, 06 Sep 2011  
 MS-15582H Capt Mohammad Arif Salim, 06 Sep 2011  
 MS-15598N Capt Parul Gupta, 06 Sep 2011  
 MS-15601H Capt Maji Navamita Mrinalkanti, 06 Sep 2011  
 MS-15622Y Capt Pankaj Gupta, 06 Sep 2011  
 MS-15628A Capt Rekha Sharma, 06 Sep 2011  
 MS-15629H Capt Umar Nazir, 06 Sep 2011  
 MS-15635W Capt Rajan Gupta, 06 Sep 2011  
 MS-15638K Capt Krishna Kumar K, 06 Sep 2011  
 MS-15639M Capt Sonu Singh, 06 Sep 2008  
 MS-16593F Capt Shilpi, 15 Jun 2011  
 MS-16612F Capt Prasant Gupta, 15 Jun 2011  
 MS-16646P Capt Mukesh, 15 Jun 2011  
 Flt Lt to Sqn Ldr  
 MS-15559P (AF-28866H), Flt Lt Jyoti Singh, 22 Sep 2010  
 MS-15475F (AF-28879F), Flt Lt Sanchita Singh, 22 Jul 2010  
 MS-15585W (AF-29420F), Flt Lt Ravi Joshi, 06 Sep 2011  
 MS-15603N (AF-29416A), Flt Lt Arvind Kumar Gautam, 06 Sep 2011  
 MS-15633L (AF-29414N), Flt Lt Thombre Pramod Sopanrao, 06 Sep 2011  
 MS-15809L (AF-29436L), Flt Lt Shantanu Duarah, 25 Oct 2011

## Surg Lt to Surg Lt Cdr

- MS-15467H (75936F) Surg Lt Amit Sharma, 22 Jul 2010  
 MS-15495P (75946B) Surg Lt Thakare Pranab Eknath,  
 20 Mar 2011  
 MS-15569Y (75960K) Surg Lt Amardeep Singh Parmar,  
 06 Sep 2011  
 MS-15602L (75967A) Surg Lt Somraj Gupta, 06 Sep 2011  
 MS-16236Y (76042Y) Surg Lt Manoj Kumar M, 13 Aug  
 2011  
 MS-15406L (75933Z) Surg Lt Ahmad Mustafa Mateen,  
 04 Sep 2011  
 MS-16140W (76039R) Surg Lt Mili Das Chowdhury,  
 28 Jul 2010

PERMANENT COMMISSION  
 ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

## Capt to Maj

- NTR-16759X Capt Arun Kumar Gupta, 19 May 2010

YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DG AFMS(HR)

## AIR BRANCH

No. 276, dated 18th June 2012—The President is pleased  
 to make the following substantive promotions :—

## INDIAN AIR FORCE

## ACCTS BRANCH

## To be Subs Air Cmde

- Air Cmde R Malhotra (15771) Accts, 02 Apr 2012

AK SINGH  
 Dy Dir Personnel (Officer)-2B

## AIR BRANCH

No. 277, dated 19th June 2012—The President is pleased  
 to make the following Promotions :—

## (JWOs to Sub WOs)

- (609617) WO Rama Kant Singh, Ach GD, 17 Sep 2011  
 (613780) WO Rajendra Yadav, Ach GD, 15 Sep 2011  
 (614067) WO Jagtar Singh Butter, Ach GD, 11 Sep 2011  
 (614322) WO Suryanath, Ach GD, 27 Sep 2011  
 (614491) WO Om Prakash Singh Chauhan, Ach GD,  
 01 Oct 2011  
 (614833) WO Arun Kumar Singh, Ach GD, 15 Oct 2011  
 (614954) WO Ramayan Pratap Singh, Ach GD, 01 Oct  
 2011

- (617729) WO Balram Bhatita, Ach GD, 15 Oct 2011  
 (618610) WO Virbhan Tyagi, Ach GD, 13 Sep 2011  
 (619601) WO Mehkar Singh Verma, Ach GD, 13 Oct 2011  
 (621257) WO Jiwan Singh Adhikari, Ach GD, 25 Sep 2011  
 (622541) WO Rabi Sankar Paul, Ach GD, 29 Sep 2011  
 (627196) WO Kushlab Roy, Ach GD, 09 Sep 2011  
 (632792) WO Rishi Deo Singh, Ach GD, 15 Sep 2011  
 (642952) WO Paras Nath Singh, Ach GD, 01 Oct 2011  
 (644946) WO Vidya Nandan Singh, Ach GD, 19 Sep 2011  
 (645040) WO Charan Singh, Ach GD, 25 Sep 2011  
 (645773) WO Ram Sharan, Ach GD, 11 Sep 2011  
 (645924) WO Arjun Prasad Verma, Ach GD, 13 Sep 2011  
 (646645) WO Ran Singh, Ach GD, 19 Sep 2011  
 (646651) WO Bipin Bihari Verma, Ach GD, 15 Oct 2011  
 (646880) WO Adhar Kumar, Ach GD, 15 Oct 2011  
 (647088) WO Asherfi Lal, Ach GD, 21 Sep 2011  
 (647267) WO Jyoti Kumar Mishra, Ach GD, 25 Sep 2011  
 (647355) WO Prahlad Chandra Das, Ach GD, 19 Sep 2011  
 (647529) WO Hari Shanker Mishra, Ach GD, 25 Sep 2011  
 (647597) WO Umed Singh Rathi, Ach GD, 13 Sep 2011  
 (647726) WO Gonaur Bhakta, Ach GD, 03 Oct 2011  
 (647776) WO Thimmadasari Devendran, Ach GD, 27 Sep  
 2011  
 (648857) WO Om Prakash Narain, Ach GD, 19 Sep 2011  
 (649540) WO Prem Kumar Singh, Ach GD, 03 Oct 2011  
 (649617) WO Habib Ullaha, Ach GD, 27 Sep 2011  
 (670199) WO Ram Basu Sah, Ach GD, 11 Oct 2011  
 (677957) WO Lachhi Ram, Ach GD, 09 Sep 2011  
 (682686) WO V Subrahmanyam Pature, Ach GD, 21 Sep  
 2011  
 (684860) WO Shyam Lal, Ach GD, 21 Sep 2011  
 (690843) WO Jaswant Singh Karkatiya, Ach GD, 17 Oct  
 2011  
 (692550) WO Krishan Kumar Kaushik, Ach GD, 03 Oct 2011  
 (692552) WO Devender Kumar Upadhya, Ach GD,  
 09 Sep 2011  
 (692555) WO Ishwer Singh, Ach GD, 03 Oct 2011  
 (692564) WO Atter Singh Yadav, Ach GD, 03 Oct 2011  
 (692648) WO Ramesh Kumar Singh Yadav, Ach GD,  
 07 Oct 2011  
 (692650) WO Rajesh Kumar Yadav, Ach GD, 07 Oct 2011  
 (692654) WO Om Prakash Pandey, Ach GD, 09 Sep 2011

- (692658) WO Vijay Prakash Katiyar, Ach GD, 03 Oct 2011
- (692663) WO Rajendra Prasad Shrivastava, Ach GD, 03 Oct 2011
- (692666) WO Bhoori Singh, Ach GD, 09 Sep 2011
- (692753) WO Sushil Kumar Singh, Ach GD, 05 Oct 2011
- (692755) WO Ratan Lal Sen, Ach GD, 07 Oct 2011
- (692756) WO Mithan Lal Sharma, Ach GD, 05 Oct 2011
- (692765) WO Badlu Ram Bahniwal, Ach GD, 17 Oct 2011
- (692825) WO Rajeendran Pangode Madhavan, Ach GD, 05 Oct 2011
- (693303) WO Ramphal Yadav, Ach GD, 19 Oct 2011
- (693346) WO Chhaba Roopa Ram, Ach GD, 11 Oct 2011
- (693347) WO Hari Singh, Ach GD, 19 Oct 2011
- (693419) WO Vir Pal Yadav, Ach GD, 19 Oct 2011
- (693430) WO Fateh Singh Saini, Ach GD, 15 Oct 2011
- (693434) WO Satya Prakash Sharma, Ach GD, 19 Oct 2011
- (693444) WO Arun Kumar Sharma, Ach GD, 19 Oct 2011
- (693455) WO Rajesh Ver, Ach GD, 11 Oct 2011
- (693694) WO Jai Raj Sharma, Ach GD, 23 Sep 2011
- (693794) WO Vinod Kumar Sharma, Ach GD, 11 Oct 2011
- (694145) WO Shukla Sanjay Kumar, Ach GD, 23 Sep 2011
- (694614) WO Ramesh Kumar Sharma, Ach GD, 09 Oct 2011
- (700445) WO Ashwani Kumar, Ach GD, 17 Oct 2011
- (627102) WO Arun Kumar Upadhyay, ADSO, 06 Jan 2010
- (639697) WO Ram Kishor Verma, ADSO, 06 Jan 2010
- (673327) WO Sarvjit Singh, ADSO, 06 Jan 2010
- (673748) WO Sudhir Kumar Arora, ADSO, 06 Jan 2010
- (673816) WO Rambhaji, ADSO, 06 Jan 2010
- (673837) WO Shatrughn Sah, ADSO, 06 Jan 2010
- (673885) WO Omprakash, ADSO, 06 Jan 2010
- (673918) WO Yash Pal Singh, ADSO, 06 Jan 2010
- (673951) WO Dinesh Kumar Pal, ADSO, 06 Jan 2010
- (673993) WO Hari Shankar, ADSO, 06 Jan 2010
- (673999) WO Virendra Singh, ADSO, 06 Jan 2010
- (674015) WO Dharam Singh Bharwan, ADSO, 06 Jan 2010
- (674020) WO Praveen Kumar, ADSO, 06 Jan 2010
- (674029) WO Radhe Shyam Giri, ADSO, 06 Jan 2010
- (674069) WO Anil Kumar Tyagi, ADSO, 06 Jan 2010
- (674093) WO Krishan Kumar Barwal, ADSO, 06 Jan 2010
- (674096) WO Parmeshwar Prakash Sharma, ADSO, 06 Jan 2010
- (674239) WO Dilip Kumar Sarkar, ADSO, 06 Jan 2010
- (674262) WO Md Sahiruddin Ahmed, ADSO, 06 Jan 2010
- (674284) WO Ramesh Kumar, ADSO, 06 Jan 2010
- (674333) WO Swapan Kumar Dutta, ADSO, 06 Jan 2010
- (674345) WO Shambhu Kumar Prasad Gupta, ADSO, 06 Jan 2010
- (674392) WO Banwari Prasad, ADSO, 06 Jan 2010
- (674461) WO Mahendra Nath Behera, ADSO, 06 Jan 2010
- (674556) WO Bishnoi Shri Ram, ADSO, 06 Jan 2010
- (674588) WO Meer Singh, ADSO, 06 Jan 2010
- (674922) WO Ramesh Chandra Datta, ADSO, 06 Jan 2010
- (674998) WO Shambhu Thakur, ADSO, 06 Jan 2010
- (680107) WO Shailendra Kumar Singh, ADSO, 06 Jan 2010
- (680412) WO Shatrughna Sharma, ADSO, 06 Jan 2010
- (680586) WO Surender Singh Hooda, ADSO, 06 Jan 2010
- (680630) WO Ved Pal Singh Panwar, ADSO, 06 Jan 2010
- (661296) WO Ved Prakash Mishra, AF Fit, 09 May 2009
- (661310) WO Harmohan Singh Yadav, AF Fit, 03 Aug 2000
- (661442) WO Ahyodhya Sahu, AF Fit, 03 Feb 2010
- (661564) WO Akhtar Hussain Ansari, AF Fit, 01 May 2009
- (662174) WO Wawal Rohidas Ganapat, AF Fit, 01 Mar 2009
- (662282) WO Badri Nath Trivedi, AF Fit, 01 May 2009
- (662395) WO Shravana Kumar Chauhan, AF Fit, 01 Dec 2009
- (662411) WO Jagat Narayan Sah, AF Fit, 01 Dec 2009
- (662487) WO Narendra Kumar, AF Fit, 03 Feb 2010
- (662546) WO Devendra Prasad Singh, AF Fit, 03 Aug 2009
- (662548) WO Harish Chandra, AF Fit, 05 Mar 2010
- (665085) WO Mohammad Mobin Khan, AF Fit, 01 Mar 2009
- (665157) WO Chandra Bhushan Singh, AF Fit, 01 Mar 2009
- (665213) WO Rakesh Singh, AF Fit, 01 Mar 2009
- (665474) WO Nirmal Chandra Sahu, AF Fit, 01 May 2009
- (665502) WO Subhash Chandra, AF Fit, 03 Mar 2009
- (665604) WO Bhikhari Singh, AF Fit, 01 May 2009
- (665998) WO Karmander Kumar, AF Fit, 01 Dec 2009
- (666033) WO Chandra Bhusan Singh, AF Fit, 01 Dec 2009
- (666106) WO Krushna Chandra Nayak, AF Fit, 01 May 2009
- (666109) WO Satchida Nanda Dixit, AF Fit, 01 Dec 2009

(666355) WO Prakash Chandra Srivastav, AF Fit, 01 Dec 2009  
 (666362) WO Anil Kumar Singh, AF Fit, 01 Dec 2009  
 (666460) WO Shishu Pal Singh, AF Fit, 01 Dec 2009  
 (666472) WO Rajpal Singh, AF Fit, 03 Dec 2009  
 (666485) WO Pravat Ranjan Dash, AF Fit, 03 Jul 2009  
 (666661) WO Narayan Dutt Sharma, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (666728) WO Binod Kumar Tiwari, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (666837) WO Bhaskar Prasad Pandey, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (666893) WO Sarat Chandra Mahapatra, AF Fit, 03 Mar 2010  
 (666906) WO Shyam Lal, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (666951) WO Bhorik, AF Fit, 03 Jul 2009  
 (666963) WO Ganesh Dayal, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (666982) WO Jagat Singh, AF Fit, 03 Mar 2010  
 (666985) WO Raj Pal Singh Verma, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (667003) WO Gyan Prakash Sharma, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (667073) WO Ram Karan, AF Fit, 03 Mar 2010  
 (667411) WO Bijoy Kumar Mohanty, AF Fit, 03 Mar 2010  
 (667439) WO Rajendra Singh, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (667455) WO Kuldeep Singh Gathania, AF Fit, 03 Feb 2010  
 (667553) WO Anil Kumar Awasthi, AF Fit, 05 Mar 2010  
 (667572) WO Veer Pal Singh Rawat, AF Fit, 03 Mar 2010  
 (667582) WO Vijender Kumar, AF Fit, 03 Jul 2009  
 (667611) WO Dinesh Kumar, AF Fit, 03 May 2010  
 (667825) WO Nawal Kishore Yadav, AF Fit, 03 May 2010  
 (667873) WO T Ashok Patro, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (667895) WO Diwakar, AF Fit, 03 May 2010  
 (667913) WO Rajinder Singh, AF Fit, 03 Jul 2009  
 (667970) WO Sant Ram Yadav, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (668280) WO Natarajan Rajasekaran, AF Fit, 03 Jun 2010  
 (668731) WO Akhilesh Kumar Ojha, AF Fit, 03 Jul 2010  
 (669009) WO Ashok Kumar Kuttapan, AF Fit, 05 Jul 2009  
 (669049) WO Yuvraj Mahlawat, AF Fit, 03 Aug 2009  
 (678053) WO Mariappan Marimuthu, AF Fit, 03 Aug 2009  
 (678578) WO Rajeev Kumar Sood, AF Fit, 03 Aug 2009  
 (679168) WO Bijender Singh, AF Fit, 03 Aug 2009  
 (619265) WO Sudarshan Singh, AFSO, 05 Oct 2011

(625651) WO Surnedra Pal Singh, AFSO, 25 Sep 2011  
 (626891) WO Jai Ram Yadava, AFSO, 27 Sep 2011  
 (627577) WO Ashok Kumar, AFSO, 29 Sep 2011  
 (627761) WO Mohanadas K T, AFSO, 29 Sep 2011  
 (633083) WO Mishra Premnath Ramjee, AFSO, 17 Sep 2011  
 (633477) WO Bane Singh, AFSO, 05 Oct 2011  
 (633652) WO Rama Nand Yadav, AFSO, 05 Oct 2011  
 (633653) WO Ram Asrey, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634008) WO Praveen Chandar, AFSO, 13 Sep 2011  
 (634088) WO Muneer Ahmed, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634102) WO Surendra Pandey, AFSO, 21 Sep 2011  
 (634133) WO Purna Chandra Dash, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634154) WO Shiv Nath Singh Yadav, AFSO, 15 Sep 2011  
 (634240) WO Surendra Kumar Sharma, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634279) WO Nand Jee Pandey, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634808) WO Virender Kumar Sharma, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634991) WO Padma Charan Maharana, AFSO, 05 Oct 2011  
 (634995) WO Suresh Kumar Dahiya, AFSO, 17 Sep 2011  
 (635675) WO Ram Shankar Shandilya, AFSO, 05 Oct 2011  
 (635704) WO Tara Prakash Mehta, AFSO, 19 Sep 2011  
 (635955) WO Manphul Aram Bishnoi, AFSO, 23 Sep 2011  
 (636843) WO Narayana Patro, AFSO, 05 Oct 2011  
 (636847) WO Anil Kanta Das, AFSO, 05 Oct 2011  
 (637160) WO Ramayan Singh Chauhan, AFSO, 05 Oct 2011  
 (637421) WO Abhai Kumar, AFSO, 05 Oct 2011  
 (652136) WO Birender Singh, AFSO, 25 Sep 2011  
 (667030) WO Singh Bagga, AFSO, 03 Oct 2011  
 (667150) WO Kalyan Kumar Basak, AFSO, 25 Sep 2011  
 (669600) WO Awadh Narain Shahi, AFSO, 25 Sep 2011  
 (679448) WO Piyush Mohan Jangid, AFSO, 13 Sep 2011  
 (679917) WO Kishore Kumar Sukumara Menon, AFSO, 01 Oct 2011  
 (613953) WO Kailash Narain Yadav, Cat Asst, 03 Apr 2011  
 (614068) WO Babu Ram, Cat Asst, 01 Mar 2010  
 (614317) WO Birendra Prasad, Cat Asst, 02 Nov 2010

- (622215) WO Shalendra Kumar Dixit, Cat Asst, 19 Oct 2009
- (628509) WO Ramjit Singh, Cat Asst, 23 Oct 2009
- (646269) WO Tilak Raj, Cat Asst, 29 Oct 2009
- (646901) WO Dul Singh Rathore, Cat Asst, 29 Oct 2009
- (647090) WO Kedar Ram Yadav, Cat Asst, 01 Feb 2010
- (647154) WO Rakesh Kumar Singh Chauhan, Cat Asst, 29 Oct 2009
- (647178) WO Amar Ghosh, Cat Asst, 10 Nov 2010
- (648356) WO Krishna Nand Yadav, Cat Asst, 19 Oct 2009
- (648378) WO Gunanidhi Rout, Cat Asst, 19 Oct 2009
- (648393) WO Samir Ranjan Adhikari, Cat Asst, 01 Jan 2011
- (648443) WO Beni Madhav Dubey, Cat Asst, 04 Nov 2010
- (648492) WO Davender Singh, Cat Asst, 19 Oct 2009
- (649455) WO Yadav Omprakash Matabadal, Cat Asst, 21 Oct 2009
- (649647) WO Arun Kumar Paul, Cat Asst, 12 Nov 2010
- (671823) WO Alex Devadhas, Cat Asst, 23 Oct 2009
- (671902) WO Jageshwar Dayal Verma, Cat Asst, 23 Oct 2009
- (671903) WO Paras Nath, Cat Asst, 08 Nov 2010
- (671931) WO Joginder Singh, Cat Asst, 06 Nov 2010
- (678565) WO Surendra Kumar Pareek, Cat Asst, 01 Jan 2011
- (678625) WO Bikash Mutsuddi, Cat Asst, 01 Apr 2011
- (614054) WO Satnam Singh, Clk Accts, 27 May 2011
- (614595) WO Bal Krishna, Clk Accts, 27 May 2011
- (614684) WO Vikram Singh Negi, Clk Accts, 27 May 2011
- (645113) WO Prasanna Kumara Mishra, Clk Accts, 27 May 2011
- (645228) WO Lallan Chaubey, Clk Accts, 31 May 2011
- (645392) WO Nirmal Chandra Das, Clk Accts, 25 May 2011
- (645593) WO Raghu Nath Bansal, Clk Accts, 29 May 2011
- (646103) WO Ram Briksh Prasad Yadav, Clk Accts, 23 May 2011
- (646136) WO Padam Singh Shejwal, Clk Accts, 29 May 2011
- (646306) WO Rama Pada Dalui, Clk Accts, 31 May 2011
- (646339) WO Prafulla Kumar Nayak, Clk Accts, 31 May 2011
- (646849) WO Kalipada Debnath, Clk Accts, 06 Jun 2011
- (649527) WO Brij Pal, Clk Accts, 31 May 2011
- (649884) WO Jaipal Singh, Clk Accts, 02 Jun 2011
- (649888) WO Vipin Kumar Aggarwal, Clk Accts, 02 Jun 2011
- (661479) WO Vishweshwar Roy, Clk Accts, 04 Jun 2011
- (670090) WO Arun Pal Singh, Clk Accts, 02 Jun 2011
- (670095) WO Mahmood Ali, Clk Accts, 02 Jun 2011
- (670153) WO Sheo Shankar Prasad Gupta, Clk Accts, 04 Jun 2011
- (670201) WO Bijay Kumar Singh, Clk Accts, 04 Jun 2011
- (670654) WO Lajpat Rai, Clk Accts, 06 Jun 2011
- (670671) WO Shyam Bahadur, Clk Accts, 06 Jun 2011
- (670708) WO Ramadasan Chenathkalam, Clk Accts, 08 Jun 2011
- (670931) WO Jamal Abdul Nasir, Clk Accts, 08 Jun 2011
- (671293) WO Sushil Kumar Srivastva, Clk Accts, 08 Jun 2011
- (671295) WO Sagir Ahmad, Clk Accts, 08 Jun 2011
- (671468) WO Ved Singh Rohal, Clk Accts, 08 Jun 2011
- (671926) WO Anil Kumar, Clk Accts, 21 May 2011
- (672645) WO Govind Ram Soni, Clk Accts, 19 May 2011
- (674037) WO Shyam Nath Singh, Clk Accts, 19 May 2011
- (674674) WO Dewakar Singh Saun, Clk Accts, 23 May 2011
- (692266) WO Sharadpal Singh Malik, Clk Accts, 19 May 2011
- (692441) WO Bhubaneswar Mandal, Clk Accts, 19 May 2011
- (692688) WO Ram Kumar Madad, Clk Accts, 19 May 2011
- (693082) WO Asish Mahajan, Clk Accts, 19 May 2011
- (644528) WO Raj Bijay Singh, Clk GD, 28 Dec 2009
- (646233) WO Sudarsan Sahoo, Clk GD, 01 Oct 2009
- (646524) WO Binda Singh, Clk GD, 30 Dec 2009
- (649120) WO Prasanta Kumar Pattanaik, Clk GD, 01 Jan 2010
- (649280) WO Elakedar Pal, Clk GD, 03 Jan 2010
- (649519) WO Krishan Chandra Gautam, Clk GD, 05 Jan 2010
- (649521) WO Sukhbir Singh Tyagi, Clk GD, 07 Jan 2010
- (649547) WO Harendra Kumar Singh, Clk GD, 07 Jan 2010
- (649554) WO Himanshu Shekhar, Clk GD, 05 Jan 2010
- (649637) WO Lal Jeet Ahir, Clk GD, 07 Jan 2010
- (649686) WO Ganesan Mathivanan, Clk GD, 11 Jan 2010

- (649711) WO Keshaw Prasad, Clk GD, 28 Dec 2009  
(649716) WO Devendra Nath Upadhyay, Clk GD, 07 Jan 2010  
(649724) WO Ram Singh, Clk GD, 07 Jan 2010  
(649726) WO Anarullah Khan, Clk GD, 07 Jan 2010  
(649727) WO Mani Ram Yadav, Clk GD, 07 Jan 2010  
(649729) WO Om Prakash Trivedi, Clk GD, 11 Jan 2010  
(649762) WO Kshetri Manindra Singh, Clk GD, 11 Jan 2010  
(649764) WO Mohitosh Paul, Clk GD, 11 Jan 2010  
(649951) WO Hari Har Sahu, Clk GD, 11 Jan 2010  
(670036) WO Ram Sagar Trivedi, Clk GD, 11 Jan 2010  
(670038) WO Kundan Kumar Singh, Clk GD, 11 Jan 2010  
(670040) WO Ved Prakash, Clk GD, 13 Jan 2010  
(670086) WO Joy Gopal Sarkar, Clk GD, 13 Jan 2010  
(670107) WO Moynul Hoque Choudhury, Clk GD, 15 Jan 2010  
(670170) WO Parwez Ahsan Ansari, Clk GD, 13 Jan 2010  
(670180) WO Bibhas Debnath, Clk GD, 13 Jan 2010  
(670216) WO Habibur Rahman, Clk GD, 15 Jan 2010  
(670344) WO Dharmbir Singh Verma, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670348) WO R Kasinathan, Clk GD, 28 Dec 2009  
(670365) WO Rajendra Prasad Pal, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670471) WO Ashok Kumar, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670546) WO Ikram Ahmad Abdul Rahim Patel, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670640) WO Susanta Kumar Dutta, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670748) WO Jagdish Prasad Verma, Clk GD, 17 Jan 2010  
(670909) WO Ramesh Chandra Sharma, Clk GD, 17 Jan 2010  
(671228) WO Rajappan Venu, Clk GD, 17 Jan 2010  
(671271) WO Ravindra Kumar Verma, Clk GD, 17 Jan 2010  
(671300) WO Rajender Kumar Kaushik, Clk GD, 21 Jan 2010  
(671478) WO Surinder Singh, Clk GD, 28 Dec 2009  
(671749) WO Sri Puran Kumar Barua, Clk GD, 21 Jan 2010  
(671898) WO Shiv Kumar Singh, Clk GD, 21 Jan 2010  
(671963) WO Satish Chandra, Clk GD, 21 Jan 2010  
(671989) WO Karam Singh, Clk GD, 21 Jan 2010  
(672044) WO Sant Kumar Nigam, Clk GD, 21 Jan 2010  
(672493) WO Ramesh Chand Rai, Clk GD, 01 Feb 2010  
(672494) WO Brahma Deo Singh, Clk GD, 01 Aug 2009  
(672507) WO Awadhesh Kumar, Clk GD, 01 Feb 2010  
(672553) WO Brijesh Kumar Parihar, Clk GD, 01 Feb 2010  
(672586) WO Tapan Kumar Guchhait, Clk GD, 21 Jan 2010  
(698716) WO Sumant Bhardwas, Clk GD, 01 Aug 2009  
(692253) WO Shiv Kumar Yadav, Clk GD, 01 Aug 2009  
(692419) WO Jyotish Paul, Clk GD, 01 Aug 2009  
(692586) WO Amit Yadav, Clk GD, 01 Aug 2009  
(692598) WO Sadanand Chauhan, Clk GD, 01 Sep 2009  
(692679) WO Mohinder Singh Malik, Clk GD, 01 Aug 2009  
(692833) WO Udai Kumar Chakraborty, Clk GD, 28 Dec 2009  
(692988) WO Jyoti Dev Dutta, Clk GD, 01 Sep 2009  
(639877) WO Prithvi Singh, Crypto, 02 Jul 2009  
(639895) WO Pradeep Kumar Chaturvedi, Crypto, 02 Jul 2009  
(639953) WO Rajendra Singh Talan, Crypto, 02 Dec 2009  
(639987) WO Sharma Sunil Kumar, Crypto, 04 Dec 2009  
(639997) WO Sat Prakash Yadav, Crypto, 02 Jun 2010  
(690119) WO Dharam Vir Singh Ghanghas, Crypto, 02 Jul 2009  
(692319) WO Rajiv Kumar Dixit, Crypto, 02 Jul 2009  
(692683) WO Bharat Bhushan Verma, Crypto, 02 Jul 2009  
(692829) WO Tejbahadur Singh, Crypto, 04 Apr 2010  
(692830) WO Satish Chandra Pushola, Crypto, 02 Nov 2009  
(692841) WO Krishan Kumar Singh, Crypto, 06 Dec 2009  
(692881) WO Rajendra Kumar Singh, Crypto, 02 Nov 2009  
(692898) WO Krishna Mohan Singh, Crypto, 02 Apr 2010  
(692902) WO Akhilesh Kumar Singh, Crypto, 04 Dec 2009  
(693182) WO Rajkumar, Crypto, 04 Apr 2010  
(693207) WO Bhupindar Singh Bahniwal, Crypto, 04 Apr 2010  
(693900) WO Jai Singh Jorasiya, Crypto, 02 Dec 2010  
(693908) WO Suraj Mal Bajwan, Crypto, 02 Dec 2010  
(694349) WO Jaswinder Singh Labana, Crypto, 04 Dec 2010  
(704418) WO Surya Kanta Kar, Edn Instr, 05 Aug 2010  
(726940) WO Naresh Prasad Jayal, Edn Instr, 01 Sep 2011

- (727053) WO Sankar Chandra Nar, Edn Instr, 05 Aug 2010
- (727085) WO Antony M Vazhathara, Edn Instr, 02 Oct 2009
- (727242) WO Omkar Shrivastava, Edn Instr, 02 Oct 2009
- (727465) WO Kailash Chandra Panda, Edn Instr, 01 Sep 2011
- (728604) WO Dalbir Singh Rana, Edn Instr, 02 Nov 2009
- (736824) WO Roop Kishor, Edn Instr, 05 Aug 2010
- (739842) WO Nair Madhusudanan, Edn Instr, 01 Aug 2010
- (739843) WO Anil Kumar Gopala Pillai, Edn Instr, 01 Aug 2010
- (739844) WO Avaneesh Kumar P K, Edn Instr, 05 Aug 2010
- (739845) WO Reghu K P, Edn Instr, 03 Aug 2010
- (739849) WO Arbind Kumar, Edn Instr, 01 Aug 2010
- (739852) WO Satyendra Kumar Shukla, Edn Instr, 02 Sep 2010
- (739854) WO Kaushalendra Kumar Singh, Edn Instr, 02 Sep 2010
- (739856) WO Samir Kumar Saha, Edn Instr, 01 Aug 2010
- (770144) WO Anzar A, Edn Instr, 02 Mar 2011
- (772317) WO Naresh Kumar Sharma, Edn Instr, 02 Mar 2011
- (772324) WO Dhananjaya Shukla, Edn Instr, 01 Aug 2010
- (773620) WO Kesavan Potty V P, Edn Instr, 04 Mar 2011
- (797410) WO Naveen Kumar Sharma, Edn Instr, 04 Mar 2011
- (659858) WO Nawal Kishore Prasad, Eng Fit, 02 May 2008
- (660060) WO Saroja Kanta Parida, Eng Fit, 02 Dec 2007
- (660176) WO Balram Upadhyay, Eng Fit, 02 Dec 2007
- (660349) WO Sumer Singh Bidawat, Eng Fit, 02 Dec 2007
- (660358) WO Arvind Kumar Singh, Eng Fit, 02 Jan 2008
- (660753) WO Gorakh Nath Singh, Eng Fit, 02 Oct 2007
- (660989) WO Md Amanullah, Eng Fit, 02 Oct 2007
- (661007) WO Hare Ram Rai, Eng Fit, 02 Jun 2008
- (661155) WO Ramesh Chandra Sahu, Eng Fit, 02 Dec 2007
- (661327) WO Rameshwar Singh, Eng Fit, 02 Jul 2009
- (661417) WO Gulab Singh, Eng Fit, 02 Jul 2009
- (661423) WO Vijay Kant Misra, Eng Fit, 02 Jul 2009
- (661557) WO Shiba Pada Ghosh, Eng Fit, 02 Jan 2008
- (661572) WO Ashok Kumar Pandey, Eng Fit, 02 Jul 2008
- (662186) WO Parmanand Prasad Singh, Eng Fit, 02 Jul 2009
- (662798) WO Debashish Dutta, Eng Fit, 02 Mar 2008
- (662850) WO Nanhey Singh Mahur, Eng Fit, 02 Jan 2008
- (665164) WO Rajendra Singh Gaur, Eng Fit, 02 Sep 2008
- (665169) WO Rama Shankar Rajvar, Eng Fit, 02 Dec 2008
- (665300) WO Bishnu Kumar Singh, Eng Fit, 02 Mar 2009
- (665308) WO Umesh Prasad Sah, Eng Fit, 02 Aug 2009
- (665455) WO Ashok Wasudeo Mankar, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (665521) WO Ashok Kumar Singh, Eng Fit, 02 Sep 2008
- (665565) WO Narayan Chandra Debnath, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (665569) WO Amarjeet Singh Sirohi, Eng Fit, 02 Mar 2009
- (665709) WO Sri Ram Shukla, Eng Fit, 02 Dec 2008
- (665713) WO Shibban Lal Gupta, Eng Fit, 02 Mar 2009
- (665871) WO Ram Naresh, Eng Fit, 02 Mar 2009
- (665966) WO Biteshwar Prasad Singh, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (666034) WO Ramesh Chandra, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (666123) WO Paritosh Biswas, Eng Fit, 02 Jun 2009
- (666440) WO Govind Singh, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (666506) WO Shyama Das Roy, Eng Fit, 02 Apr 2009
- (666578) WO Malla Venkata Ramana, Eng Fit, 02 Nov 2009
- (666666) WO Mithilesh Kumar Singh, Eng Fit, 02 Sep 2009
- (666675) WO Rajendra Prasad Sahu, Eng Fit, 02 Mar 2009
- (666693) WO Deo Prayag Singh, Eng Fit, 02 Nov 2009
- (666707) WO Mithilesh Kumar Rajpal, Eng Fit, 02 Apr 2009
- (666741) WO Hari Ram Yadav, Eng Fit, 02 Oct 2009
- (666929) WO Ajay Kumar Singh, Eng Fit, 02 May 2009
- (666954) WO Rajendra Prasad, Eng Fit, 02 Jun 2009
- (669513) WO Gorakh Nath, Eng Fit, 02 Jun 2009
- (675701) WO Virender Kumar Thakur, Eng Fit, 02 Jun 2008



- (675726) WO Umesh Kumar Tyagi, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(675734) WO Rajender Singh Rawat, Eng Fit, 02 Feb 2008  
(675827) WO Om Prakash Rana, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(675833) WO Rajender Singh, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(675902) WO Sanjeev Kumar, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(677898) WO Naresh Kumar, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(677935) WO Ratan Debnath, Eng Fit, 02 Mar 2008  
(677972) WO Pankaj Kumar, Eng Fit, 02 Jun 2009  
(678681) WO Munesh Kumar, Eng Fit, 02 Jun 2009  
(613324) WO Nand Kumar Rai, Eqpt Asst, 04 Apr 2011  
(613802) WO Dharm Deo Thakur, Eqpt Asst, 25 Mar 2011  
(614071) WO Parsu Ram Khato, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(614201) WO Subodh Kumar Saxena, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(614204) WO Ram Shabda Rai, Eqpt Asst, 20 Apr 2011  
(614305) WO Lakhan Singh Sengar, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(614364) WO Ram Parikhan Singh, Eqpt Asst, 18 Apr 2011  
(614764) WO Shaik Abdulla, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(614977) WO Kailash Kumar Tiwari, Eqpt Asst, 22 Apr 2011  
(614995) WO Hrishikesh Choudhury, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(633764) WO Debahari Sahu, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(634852) WO Madan Lal Pindel, Eqpt Asst, 24 Apr 2011  
(645039) WO Surendra Singh Bhati, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(645354) WO Ugam Singh Panwar, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(645599) WO Vijay Kumar, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(645736) WO Yogendra Prasad Bari, Eqpt Asst, 04 Apr 2011  
(645821) WO John George, Eqpt Asst, 18 Apr 2011  
(645933) WO Ram Balak Prasad, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(645938) WO Mahendra Prasad, Eqpt Asst, 18 Apr 2011  
(645950) WO Shib Das Chatterjee, Eqpt Asst, 10 May 2011  
(645968) WO Rajendra Kumar Pal, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(646085) WO Mubarak Husain, Eqpt Asst, 28 Apr 2011  
(646271) WO Surendra Prasad Singh, Eqpt Asst, 02 Apr 2011  
(646291) WO Yogendra Lal Roy, Eqpt Asst, 02 Apr 2011  
(646373) WO Jiledar, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(646427) WO Naveen Chandr Maithine, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(646458) WO Pralhad Ghodsal, Eqpt Asst, 27 Mar 2011  
(646542) WO Ashoke Kumar Sarkar, Eqpt Asst, 21 Mar 2011  
(646606) WO Sajjan Singh Rathore, Eqpt Asst, 19 Mar 2011  
(646722) WO Rishi Kesh Tripathi, Eqpt Asst, 29 Mar 2011  
(646724) WO Jitendra Nath Dubey, Eqpt Asst, 29 Mar 2011  
(646815) WO Nakati Peer Ahmed, Eqpt Asst, 29 Mar 2011  
(646841) WO Ramnath Prasad, Eqpt Asst, 29 Mar 2011  
(646950) WO Balbir Singh, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(646951) WO Ram Mahesh Shakya, Eqpt Asst, 04 Apr 2011  
(647286) WO Bijendra Kumar Tarmali, Eqpt Asst, 04 Apr 2011  
(647656) WO Harish Chander Suri, Eqpt Asst, 29 Mar 2011  
(648112) WO Jitendra Prasad, Eqpt Asst, 24 Apr 2011  
(648140) WO Yatendra Kumar Sharma, Eqpt Asst, 28 Apr 2011  
(648322) WO Sushil Kumar Choudhary, Eqpt Asst, 19 Mar 2011  
(648331) WO Devendra Nath Dubey, Eqpt Asst, 24 Apr 2011  
(648407) WO Som Parkash, Eqpt Asst, 21 Mar 2011  
(648598) WO Badley Singh, Eqpt Asst, 30 Apr 2011  
(648777) WO Dharm Jeet Yadav, Eqpt Asst, 23 Mar 2011  
(648853) WO Umesh Tripathy, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(649111) WO Bijay Kumar Singh, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(649114) WO Ashok Kumar Mishra, Eqpt Asst, 24 Apr 2011  
(649317) WO Ram Sharan Yadav, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(649370) WO Shivprasad Savita, Eqpt Asst, 31 Mar 2011  
(649445) WO Awadhesh Kumar Rai, Eqpt Asst, 04 Apr 2011

- (649559) WO Dinesh Prasad Yadav, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (649562) WO Hira Lal Prasad, Eqpt Asst, 24 Apr 2011
- (649779) WO Suthar Ramniwas, Eqpt Asst, 26 Apr 2011
- (649905) WO Amar Pal Singh, Eqpt Asst, 26 Apr 2011
- (649908) WO Dhanesh Kumar Sharma, Eqpt Asst, 26 Apr 2011
- (649961) WO Habibur Rahman Khan, Eqpt Asst, 28 Apr 2011
- (651093) WO Babu Lal Suthar, Eqpt Asst, 24 Apr 2011
- (670058) WO Suresh Singh, Eqpt Asst, 04 Apr 2011
- (670063) WO Ashutosh Tewari, Eqpt Asst, 28 Apr 2011
- (670132) WO Ghirrau Ram, Eqpt Asst, 04 Apr 2011
- (670134) WO Jai Narayan, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (670142) WO Rama Shankar, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (670356) WO Jagdamba Prasad Nautiyal, Eqpt Asst, 10 May 2011
- (670648) WO Niranjan Ghosh, Eqpt Asst, 06 Apr 2011
- (670733) WO Jalam Singh Rajput, Eqpt Asst, 06 Apr 2011
- (670844) WO Devidasan Karat, Eqpt Asst, 06 Apr 2011
- (671018) WO Ranbir Singh Dhankhar, Eqpt Asst, 06 Apr 2011
- (671085) WO Mahant Parkash, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (671366) WO Umesh Singh, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (671383) WO Prabir Kumar Ghosh, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (671409) WO Mustafizur Rahman, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (671460) WO Dev Raj, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (671669) WO Niranjan Pati, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (671786) WO Indra Bhushan Tiwary, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (671936) WO Bhoj Raj Singh, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (671941) WO Ratan Lal Sahu, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (672038) WO Awadhesh Kumar Singh, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (672169) WO Kanhe Bhupal Janardhan, Eqpt Asst, 21 Mar 2011
- (672170) WO Mulla Mahammusaheb Kashimsaheb, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (672254) WO Paramanand Roy, Eqpt Asst, 12 Apr 2011
- (672291) WO TV Eswaran, Eqpt Asst, 14 Apr 2011
- (672329) WO Onkar Chand, Eqpt Asst, 02 May 2011
- (672420) WO Virendra Kumar Mithai Lal, Eqpt Asst, 14 Apr 2011
- (672498) WO Chandra Mohan, Eqpt Asst, 14 Apr 2011
- (672499) WO Om Prakash Pathak Brahmin, Eqpt Asst, 14 Apr 2011
- (672501) WO Arvind Kumar Gupta, Eqpt Asst, 14 Apr 2011
- (672559) WO Shiv Prakash Lal Srivastav, Eqpt Asst, 02 May 2011
- (672577) WO Shahzad Khan, Eqpt Asst, 10 Apr 2011
- (672584) WO Arun Kumar Tripathi, Eqpt Asst, 04 May 2011
- (676553) WO Raju C, Eqpt Asst, 19 Mar 2011
- (692259) WO Deshraj, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (692261) WO Nafe Singh Rohilla, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (692390) WO Ayyapankavu Krishnan Ganash, Eqpt Asst, 21 Mar 2011
- (692624) WO Anil Kumar Tripathi, Eqpt Asst, 21 Mar 2011
- (692635) WO Ramesh Kumar Rajput, Eqpt Asst, 30 Apr 2011
- (692719) WO Swaran Singh Sidhu, Eqpt Asst, 23 Mar 2011
- (692761) WO Mohit Raj, Eqpt Asst, 04 May 2011
- (692975) WO Birjesh Kumar Malik, Eqpt Asst, 04 May 2011
- (693054) WO Sarat Kumar Swain, Eqpt Asst, 06 May 2011
- (693072) WO Sanatan Ghosh, Eqpt Asst, 04 May 2011
- (693110) WO Prasanna Kumar Nanda, Eqpt Asst, 19 Mar 2011
- (693389) WO Paramjit Singh, Eqpt Asst, 16 Apr 2011
- (693600) WO Patil Laxman Shankar, Eqpt Asst, 16 Apr 2011
- (693622) WO Rakesh Pal, Eqpt Asst, 16 Apr 2011
- (693776) WO Satnam Singh, Eqpt Asst, 16 Apr 2011
- (694181) WO Tapan Krishna Naha, Eqpt Asst, 08 May 2011
- (694313) WO Md Noor Hussain, Eqpt Asst, 08 May 2011
- (694376) WO Joginder Kumar Malhotra, Eqpt Asst, 16 Apr 2011
- (694436) WO Jaipal Pawaria, Eqpt Asst, 16 Apr 2011

(694827) WO Namonarayan Mishra, Eqpt Asst, 08 May 2011  
(700102) WO Jarnail Singh, Eqpt Asst, 16 Apr 2011  
(700299) WO Prabhakar Singh, Eqpt Asst, 16 Apr 2011  
(701859) WO Unnikrishnan Nair GN, Eqpt Asst, 08 May 2011  
(695661) WO Shashi Bhushan Sharma, Flt Eng, 18 Sep 2008  
(696009) WO Parvathachari Loganathan, Flt Eng, 18 Sep 2008  
(696897) WO Varghese Chacko Palakkattu, Flt Eng, 18 Sep 2008  
(699474) WO Krishna Pal Singh, Flt Eng, 02 Apr 2009  
(699537) WO Saroj Kumar, Flt Eng, 18 Sep 2008  
(699783) WO Nityanand Tiwari, Flt Eng, 18 Sep 2008  
(662391) WO Kamalesh Kumar, Flt Gun, 04 Jun 2010  
(665688) WO Ramnarayan Jayaswal, Flt Gun, 04 Jun 2010  
(665897) WO Ramchandra, Flt Gun, 04 Jun 2010  
(666328) WO Hansaraj Prasad Kushawaha, Flt Gun, 04 Jun 2007  
(667541) WO Shri Prakash Gupta, Flt Gun, 06 Jul 2010  
(669724) WO Prantosh Dey, Flt Gun, 04 Jun 2010  
(675144) WO Anand Prakash Tripathi, Flt Gun, 04 Jul 2010  
(679540) WO Sunil Kumar Singh, Flt Gun, 04 Jun 2010  
(695491) WO Karanam Surothama Rao, Flt Gun, 02 Jul 2010  
(647148) WO Birendra Kumar Behera, GTI, 30 Jun 2010  
(647568) WO Ganga Sagar Prasad, GTI, 04 Jul 2010  
(648377) WO Rabindra Kumar Montri, GTI, 14 Jul 2010  
(648581) WO P Yadava Reddy, GTI, 04 Jul 2010  
(648587) WO Rajkumar Mishra, GTI, 16 Jul 2010  
(648620) WO Binod Saw, GTI, 26 Jun 2010  
(670096) WO Rakesh Kumar Sharma, GTI, 18 Jul 2010  
(670779) WO Varadarajulu Purushothaman, GTI, 08 Jul 2010  
(670802) WO Hemanta Kumar Roy, GTI, 01 Mar 2010  
(671287) WO Udan Singh, GTI, 12 Jul 2010  
(672360) WO Sajjan Singh Charan, GTI, 24 Jun 2010  
(692846) WO Jai Raj Singh, GTI, 12 Jul 2010  
(727196) WO Om Parkesh Sharma, GTI (S), 28 Jun 2010

(735235) WO Pramod Kumar Sharma, GTI (S), 04 Jul 2010  
(770023) WO Sunda Ra Rao Sajja, GTI (S), 08 Jul 2010  
(622812) WO Yogendra Kumar Yadav, Inst Fit, 03 Jun 2011  
(623082) WO Sreedharan PS, Inst Fit, 03 Apr 2010  
(623247) WO Ram Bhawan Pathak, Inst Fit, 05 Mar 2010  
(623250) WO Shafimohammad, Inst Fit, 03 Mar 2010  
(625999) WO Om Parkash, Inst Fit, 03 May 2010  
(636076) WO Gyan Prakash, Inst Fit, 03 Mar 2010  
(636141) WO Ram Dhyan Singh, Inst Fit, 03 Apr 2010  
(636260) WO Shashi Bhushan, Inst Fit, 03 Jun 2010  
(636620) WO Sukh Deo Kori, Inst Fit, 01 Jun 2010  
(636978) WO Unnithan S K K, Inst Fit, 03 Apr 2010  
(637895) WO Anand Bihari Singh, Inst Fit, 01 Jun 2011  
(638254) WO Om Prakash, Inst Fit, 03 Jun 2011  
(652381) WO Nand Kumar Yadav, Inst Fit, 01 Jun 2010  
(653105) WO Davendra Pal Singh, Inst Fit, 01 Jun 2011  
(653298) WO Rajani Kant Pandey, Inst Fit, 01 Jun 2011  
(653503) WO Ramkishan, Inst Fit, 01 May 2010  
(690173) WO Pramod Kumar Shukla, Inst Fit, 03 Feb 2010  
(690342) WO Jitendra Kumar, Inst Fit, 03 May 2010  
(691525) WO Bal Krishan Sharma, Inst Fit, 05 Feb 2010  
(691701) WO Arbind Kumar Pandey, Inst Fit, 05 Feb 2010  
(624440) WO Akhilesh Kumar Sinha, Med Asst, 29 May 2011  
(624646) WO Suresh Kumar Velayudhan, Med Asst, 29 May 2011  
(655008) WO Ashok Kumar, Med Asst, 21 May 2011  
(655161) WO Upendra Narayan Sharma, Med Asst, 21 May 2011  
(655239) WO Siya Ram, Med Asst, 21 May 2011  
(655258) WO Salam Singh Bhati, Med Asst, 21 May 2011  
(655267) WO Ran Bir Singh, Med Asst, 23 May 2011  
(655277) WO Vijaya Shanker Mishra, Med Asst, 23 May 2011  
(655296) WO Kameshwar Prasad Singh, Med Asst, 25 May 2011  
(655318) WO Kamta Prasad, Med Asst, 25 May 2011  
(655336) WO Guna Mani Sahoo, Med Asst, 08 Jun 2011

- (655383) WO Nair NG, Med Asst, 27 May 2011
- (655395) WO Har Narayan, Med Asst, 27 May 2011
- (655476) WO Rajendr Singh Yadav, Med Asst, 08 Jun 2011
- (655553) WO Chakra Dhar Jena, Med Asst, 10 Jun 2011
- (655573) WO Mrinal Kant Barua, Med Asst, 10 Jun 2011
- (655622) WO Nirbhai Pal Singh, Med Asst, 10 Jun 2011
- (655639) WO Ajay Kumar Singh, Med Asst, 12 Jun 2011
- (655648) WO Gautam Kumar Das, Med Asst, 06 Jun 2011
- (655654) WO Pranab Majumder, Med Asst, 06 Jun 2011
- (655695) WO Prem Narayan Verma, Med Asst, 29 May 2011
- (655727) WO Samuel M, Med Asst, 27 May 2011
- (655741) WO Sangram Maurya, Med Asst, 06 Jun 2011
- (655874) WO Ajay Kumar Mishra, Med Asst, 06 Jun 2011
- (655889) WO Batakrushna Roul, Med Asst, 29 May 2011
- (656218) WO Unni Krishnan Velayudhan, Med Asst, 31 May 2011
- (656225) WO Harish Chandra Ghildiyal, Med Asst, 31 May 2011
- (656267) WO Narendra Kumar, Med Asst, 19 May 2011
- (656276) WO Chira Ranjan Mahapatra, Med Asst, 02 Jun 2011
- (656306) WO Sasi Kumar Koonath, Med Asst, 02 Jun 2011
- (656635) WO Natarajan Ragavan, Med Asst, 02 Jun 2011
- (656696) WO Subrata Mukherjee, Med Asst, 04 Jun 2011
- (656758) WO Ramesh Kumar Yadav, Med Asst, 19 May 2011
- (624717) WO Kshetra Mohan Sen, Med Asst, 02 Nov 2009
- (627513) WO Narayan Ch Paul, Med Asst, 07 Mar 2011
- (628262) WO Annamala A, Med Asst, 07 Mar 2011
- (628336) WO Vinodkumar K P, Med Asst, 04 Nov 2009
- (628389) WO Debendra Kumar Swain, Med Asst, 02 Nov 2009
- (637424) WO Ram Chandra Pal, Med Asst, 02 Jun 2011
- (666969) WO Subhash Nigam, Med Asst, 02 Jun 2011
- (667165) WO Jyotirmoy Das, Med Asst, 02 Jun 2011
- (667166) WO Pabitra Kumar Medhi, Med Asst, 04 Jun 2011
- (692548) WO Mahipal Singh, Med Asst, 07 Mar 2011
- (695600) WO Shyamal Kumar Das, Med Asst, 07 Mar 2011
- (685567) WO Pramod Kumar, MS Fit (E), 02 May 2011
- (685571) WO Binoda Nand Lal Das, MS Fit (E), 02 May 2011
- (685574) WO Krishnamoorthy Ramanan, MS Fit (E), 02 May 2011
- (685579) WO Gaya Prasad Mishra, MS Fit (E), 02 May 2011
- (685580) WO Jag Pal Singh, MS Fit (E), 02 May 2011
- (686179) WO G Ramesh, MS Fit (E), 02 May 2011
- (686184) WO Manoj Kumar, MS Fit (E), 02 May 2011
- (686190) WO Ramesh Kumar Ranjan, MS Fit (E), 02 May 2011
- (686194) WO Rameshwar Prasad, MS Fit (E), 02 May 2011
- (686782) WO Kannanaikal Joseph Joshi, MS Fit (E), 04 May 2011
- (686790) WO Sanjeev Kumar Sharma, MS Fit (E), 06 May 2011
- (686791) WO Prem Chand Jha, MS Fit (E), 04 May 2011
- (686801) WO Anil Prasad, MS Fit (E), 04 May 2011
- (686803) WO Kailash Pant, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687377) WO Ravindra Kumar, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687378) WO Pradeep Kumar Sah, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687379) WO Vichitr Narayan Singh, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687380) WO Saroj Kumar Mohapatra, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687381) WO Chandra Shekhar Prasad, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687382) WO Manoj Kumar Gupta, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687385) WO Tripurari Kumar, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687387) WO Virendra Bahadur, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687388) WO Manoj Kumar, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687389) WO Raju Kumar Shrivastava, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687392) WO Shio Shankar Sharma, MS Fit (E), 04 May 2011
- (687393) WO Manoj Kumar Pandey, MS Fit (E), 04 May 2011

(687396) WO Devendrakumar Singh, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687406) WO Kapur Singh, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687407) WO Naresh Chand, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687414) WO Kalidas Chandra, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687416) WO Biswa Jit Ray, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687423) WO Sageer Ahmad Rao, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687425) WO Subhash Kumar, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687427) WO Gajendra Singh, MS Fit (E), 04 May 2011  
(687428) WO Nabal Kishor Sharma, MS Fit (E), 04 May 2011  
(707072) WO Jayparkash Saxena, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707074) WO Rishipal Singh, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707087) WO Gangadhar Behera, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707090) WO Vidya Bhushan Kumar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707095) WO Niraj Kumar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707098) WO Satyendra Singh Yadaw, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707102) WO Naresh Kumar Dudy, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707399) WO Baidya Nath Singh, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707403) WO Jollu Narayana Reddy, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707409) WO Virendra Kumar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707410) WO Gajender Singh Rana, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707413) WO Mohammad Shahid Khan, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707416) WO Shambhu Nath Thakur, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707429) WO Ram Pravesh Kumar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707431) WO Mukesh Kumar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707436) WO Sanjay Kumar Sharma, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707438) WO Rampal Singh, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707439) WO Yogendra Prakash Gautam, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707440) WO Nirmal Singh Chhaya, MS Fit (L), 02 Oct 2010

(707444) WO Chunni Lal, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(707447) WO Mukesh Kumar Tomar, MS Fit (L), 11 Aug 2010  
(677779) WO Akhilesh Kumar, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(677780) WO Raj Dew Pathak, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(677781) WO Krishna Deo Tiwari, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(677883) WO Sardar Singh, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678110) WO Gyanendra Singh Arora, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678112) WO Rakesh Kumar Sharma, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678117) WO Sukh Deo Singh, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678148) WO Anil Kumar Porwal, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678194) WO Ravindra Jagannath Khekre, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678195) WO Shete Mahadeo Mahaling, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678404) WO Ved Prakash Tyagi, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678405) WO Shree Chand Sharma, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678412) WO Ramvir Singh Rawat, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678450) WO Anirudh Dayal, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678451) WO Om Prakash, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678942) WO Ashok Kumar Tripathy, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(678985) WO Subhash Chandra, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(679015) WO Anjal Kumar Sharma, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(679125) WO Ajaz Ahmad, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(679150) WO Prabhu Dayal, MS Fit (M), 04 Jul 2010  
(660169) WO Kamlesh Singh, MT Fit, 12 Dec 2009  
(660475) WO Radha Krishnan Kariyar Veedu, MT Fit, 06 Dec 2009  
(660792) WO Mohammad Kamil, MT Fit, 10 Dec 2009  
(660884) WO Aruna Kumar Panda, MT Fit, 10 Dec 2009  
(661005) WO Bharat Singh, MT Fit, 08 Dec 2009  
(661160) WO Kulbhushan Bakshi, MT Fit, 08 Dec 2009  
(662006) WO Dharmendra Singh Bais, MT Fit, 06 Dec 2009

- (662054) WO Danesh Kumar Soi, MT Fit, 14 Dec 2009  
(668123) WO P Ramakrishnaiah, MT Fit, 02 Dec 2009  
(668920) WO Prakash Chandra Gaula, MT Fit, 04 Dec 2009  
(669562) WO Sona Lal Bhagat, MT Fit, 14 Dec 2009  
(676518) WO Surendran K M, MT Fit, 02 Dec 2009  
(677000) WO Raghuvir Singh, MT Fit, 02 Dec 2009  
(677688) WO Riyasat Ali, MT Fit, 02 Dec 2009  
(612378) WO Sidh Nath Pandey, MTD, 13 Aug 2011  
(618057) WO Ram Parvesh Kanu, MTD, 09 Aug 2011  
(618909) WO Abdul Samad, MTD, 11 Aug 2011  
(619930) WO Shyam Nandan Singh, MTD, 13 Aug 2011  
(620123) WO Pramod Kumar, MTD, 13 Aug 2011  
(620177) WO Ramesh Prasad Verma, MTD, 13 Aug 2011  
(620296) WO Bal Krishan Chikara, MTD, 13 Aug 2011  
(620340) WO Sethu Baskaran, MTD, 13 Aug 2011  
(620551) WO Durgaram Mali, MTD, 13 Aug 2011  
(620587) WO Subas Chandra Harichandan, MTD, 15 Aug 2011  
(620789) WO Jaipalsingh Shoran, MTD, 15 Aug 2011  
(621261) WO Dharamvir Singh Dahiya, MTD, 15 Aug 2011  
(621331) WO Jaimal Singh, MTD, 17 Aug 2011  
(621662) WO Jai Raj Singh, MTD, 17 Aug 2011  
(621703) WO Santosh Kumar Biswas, MTD, 07 Aug 2011  
(621973) WO Ramnath Baritha, MTD, 24 Jul 2011  
(622124) WO Kartar Singh, MTD, 24 Jul 2011  
(622182) WO Deepak Kumar Singh, MTD, 24 Jul 2011  
(622431) WO Tirlok Singh Cheema, MTD, 17 Aug 2011  
(622563) WO Vijai Kumar Kushwaha, MTD, 07 Aug 2011  
(622603) WO Hukam Singh Adhikari, MTD, 17 Aug 2011  
(622766) WO Mahi Pal Singh Chauhan, MTD, 17 Aug 2011  
(622999) WO Gorehhiya Jasaram, MTD, 19 Aug 2011  
(623304) WO Lila Dhar Thakuria, MTD, 17 Aug 2011  
(623319) WO Mukti Pada Paul, MTD, 26 Jul 2011  
(623326) WO MD Aslam Khan, MTD, 26 Jul 2011  
(623445) WO Onkar Singh, MTD, 17 Aug 2011  
(623666) WO Om Prakash Sharma, MTD, 17 Aug 2011  
(623774) WO Khatak Bahadur Sonar, MTD, 17 Aug 2011  
(624163) WO Piyush Kumar, MTD, 19 Aug 2011  
(624248) WO Malay Bhattacharya, MTD, 21 Aug 2011  
(624425) WO Muppaneni Rama Krishna Rao, MTD, 03 Aug 2011  
(624548) WO Kishori Prasad, MTD, 01 Aug 2011  
(624625) WO Mohammed Sabir, MTD, 19 Aug 2011  
(624628) WO Kaushal Kumar Singh, MTD, 21 Aug 2011  
(624720) WO Paresh Chandra Thakuria, MTD, 19 Aug 2011  
(624877) WO Ranjeet Mahato, MTD, 26 Jul 2011  
(625126) WO Ram Naresh, MTD, 19 Aug 2011  
(625129) WO Set Bahadur Singh, MTD, 30 Jul 2011  
(625263) WO Rajesh Kumar Pandey, MTD, 28 Jul 2011  
(625395) WO Mahadev Chandra Guria, MTD, 26 Jul 2011  
(625594) WO Kamakhya Narayan Singh, MTD, 19 Aug 2011  
(625824) WO Parte Hanamant Nivratti, MTD, 21 Aug 2011  
(625826) WO Bairagi Gokuldas Bhikandas, MTD, 21 Aug 2011  
(626176) WO Jagdish Prasad Sharma, MTD, 21 Aug 2011  
(626635) WO Anjani Kumar, MTD, 30 Jul 2011  
(626744) WO Roshan Lal, MTD, 30 Jul 2011  
(626888) WO Shiv Pal Singh, MTD, 01 Aug 2011  
(627032) WO Rakesh Babu, MTD, 01 Aug 2011  
(627160) WO Chandan Nandi, MTD, 03 Aug 2011  
(627542) WO Kishor Kumar N N, MTD, 01 Aug 2011  
(627724) WO Gopi Chand Dudi, MTD, 03 Aug 2011  
(628567) WO Suresh Kumar, MTD, 07 Aug 2011  
(628694) WO Jagbir Singh, MTD, 05 Aug 2011  
(628713) WO Jogender Singh Panwar, MTD, 05 Aug 2011  
(628993) WO Shivender Singh, MTD, 07 Aug 2011  
(629079) WO Charan Jeet Singh, MTD, 05 Aug 2011  
(666449) WO Gajendra Singh Malik, MTD, 19 Aug 2011  
(625255) WO Swapna Kumar Gupta, MUSN, 01 Dec 2010  
(634972) WO Gursharan Singh Walia, Photo Fit, 01 Jul 2010

- (638046) WO Suryapal Sharma, Photo Fit, 01 Jan 2010
- (638256) WO Rathore Govind Singh, Photo Fit, 01 Aug 2010
- (638259) WO Bidawat Mool Singh, Photo Fit, 04 Aug 2010
- (650453) WO Rajendra Prasad, Photo Fit, 06 Aug 2010
- (650767) WO Dori Lal Koyal, Photo Fit, 09 Feb 2010
- (650783) WO Sant Singh, Photo Fit, 05 Feb 2010
- (650961) WO Rajesh Kumar Sharma, Photo Fit, 02 Feb 2011
- (651244) WO Sawaran Singh Manhas, Photo Fit, 03 Jan 2010
- (657982) WO Mahendra Kumar, Photo Fit, 03 Feb 2010
- (657996) WO Shiba Pada Bhattacharjee, Photo Fit, 09 Feb 2010
- (682966) WO Raj Kumar Jha, Photo Fit, 04 Aug 2010
- (627208) WO Prem Singh Karki, PJI, 11 Jun 2007
- (628363) WO Ajit Singh Rana, PJI, 01 Feb 2008
- (629129) WO Asit Kumar Biswas, PJI, 07 Jun 2008
- (692705) WO Raj Singh Sharawat, PJI, 01 May 2009
- (692717) WO Charanjit Singh Makkar, PJI, 08 Apr 2011
- (694048) WO Raj Vir Singh, PJI, 01 Jan 2010
- (701125) WO Ram Saran Yadav, PJI, 20 Apr 2011
- (705101) WO Sunny Kunnumpurath Varges, PJI, 09 Aug 2011
- (621793) WO Ramaji Singh, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (621956) WO Vinay Kumar Mishra, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622167) WO Bibeka Nand Rath, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (622276) WO Upendra Kumar Singh, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622277) WO Vijay Shanker Choubey, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622285) WO Nageshwar Thakur, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622296) WO Mool Singh Dhaka, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622579) WO Sahansar Pal, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (622988) WO Pandey Raj Narain, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (624373) WO Balwinder Singh Mehdwan, RDO Fit, 15 Feb 2010
- (625410) WO Subhas Chandra Aich, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (625668) WO Sham Lal, RDO Fit, 15 Feb 2010
- (625763) WO Shri Narain Tiwari, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (625778) WO Makarand Ram, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (626404) WO Dinesh Kumar Sharma, RDO Fit, 15 Feb 2010
- (626760) WO Arun Kumar Singh, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (626773) WO Omprakash, RDO Fit, 23 Feb 2010
- (635431) WO Uma Shankar Singh, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (635435) WO Arjuna Thakur, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (635621) WO Kaushal Kumar Tiwari, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (635628) WO Satish Kumar Tiwari, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (635876) WO Man Singh Chauhan, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (636588) WO Rajendra Kumar Lawania, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (636867) WO Umesh Singh, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (636920) WO Nirmal Singh, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (637739) WO Ajit Kumar Gupta, RDO Fit, 15 Feb 2010
- (638787) WO Shiv Kumar Pathak, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (638868) WO Paramaswar Paul, RDO Fit, 17 Feb 2010
- (638995) WO Pachilu Kalidas, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (639005) WO Ajaya Kumar Pattanaik, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (639248) WO Basanta Kumar Maharana, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (639291) WO Narayan Lal Jangid, RDO Fit, 01 Mar 2010
- (639423) WO Subhash Vishwanath Uttarwar, RDO Fit, 27 Feb 2010
- (639503) WO Balindra Singh, RDO Fit, 27 Feb 2010
- (651453) WO Mohammad Zaibul Hasan, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (651575) WO Sukhvir Singh, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (651582) WO Ramesh, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (651615) WO Amarendra Samal, RDO Fit, 01 Feb 2011
- (652013) WO Nityanand Prasad, RDO Fit, 15 Feb 2010
- (652736) WO Kaluram Tomer, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (653350) WO Satish Chandra Bhardwaj, RDO Fit, 11 Feb 2010
- (653626) WO Surender Kumar Joon, RDO Fit, 27 Feb 2010
- (653643) WO Islam Ali, RDO Fit, 23 Feb 2010

- (653986) WO Prokash Bhandary, RDO Fit, 23 Feb 2010
- (654091) WO Hare Shyam Mohanta, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (654098) WO Rabindra Kumar Sahoo, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (654112) WO Singh Indra Gopal, RDO Fit, 01 Mar 2010
- (654466) WO Santosh Kumar Tripathy, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (654545) WO Surendr Pal Sharma, RDO Fit, 21 Feb 2010
- (672973) WO Ajay Kumar, RDO Fit, 27 Feb 2010
- (672991) WO Niranjan Mohapatra, RDO Fit, 27 Feb 2010
- (673124) WO Prakash Shyam, RDO Fit, 01 Mar 2010
- (674110) WO Vijaya Pal Singh, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (680889) WO Uttam Singh, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (681047) WO Krishan Kumar, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (681421) WO Asisha Kumar Swain, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (681663) WO Karimi Setty Rama Krishna, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (681971) WO Hira Lal Pathak, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (682052) WO Kare Lal Yadav, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (682168) WO Sekh Abdul Goffar, RDO Fit, 09 Mar 2010
- (683368) WO Man Singh, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (683570) WO Vishwanath, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (683763) WO Yog Raj Rana, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (683843) WO Balwan Singh, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (683907) WO Chandra Singh Kanyal, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (684050) WO Nand Lal Kumawat, RDO Fit, 11 Mar 2010
- (644079) WO Bata Krushna Lenka, SEW, 06 Jun 2009
- (657734) WO Sanap Sudhakar Kisanrao, SEW, 03 Aug 2009
- (658014) WO Vishwa Nath Pal, SEW, 06 Jun 2009
- (658760) WO Gurav Balkrishn Onkar, SEW, 03 Aug 2009
- (658772) WO Sarua Deo Singh Yadava, SEW, 03 Aug 2009
- (643246) WO Ramakant Singh Yadav, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (643698) WO Rameshwar Prasad, WPN Fit, 02 Dec 2008
- (643727) WO Dharamvir Dhingra, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (644102) WO Vijay Singh Boundra, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (644154) WO Chandra Bhaskar Ram, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (644964) WO Dasarathi Rautaraya, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (657303) WO Chhatrapal Singh, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (657502) WO Prem Lal Sah, WPN Fit, 06 Nov 2008
- (657796) WO Sundaresan Balakrishnan, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (658115) WO Maharaj Singh, WPN Fit, 08 Nov 2008
- (658347) WO Santosh Kumar, WPN Fit, 21 Nov 2010
- (658557) WO Vishweshwar Mishra, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (658564) WO Babu Lal Prasad, WPN Fit, 02 Dec 2008
- (658568) WO Shiw Nath Prasad, WPN Fit, 02 Dec 2008
- (658847) WO Tripathi Awadhesh Chandra, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (659429) WO Shiv Bhan Singh, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (659478) WO Mankeshwar Singh, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (659679) WO Ram Niwas, WPN Fit, 19 Nov 2010
- (660367) WO Ram Pal Singh, WPN Fit, 23 Nov 2010
- (660435) WO Jyoti Ballav Gopal, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (660772) WO Ram Narayan Singh, WPN Fit, 17 Nov 2010
- (660858) WO Paras Nath Yadav, WPN Fit, 19 Nov 2010
- (660920) WO Tapan Kumar Das, WPN Fit, 19 Nov 2010
- (661313) WO Amar Nath Chaturvedi, WPN Fit, 02 Dec 2008
- (661433) WO Kaushal Kishor, WPN Fit, 25 Nov 2010
- (661478) WO Vakil Jha, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (661752) WO Lala Bishnu Prasad Rai, WPN Fit, 21 Nov 2010
- (661808) WO Omveer Singh, WPN Fit, 02 Feb 2009
- (661826) WO Dharam Vir Sharodia, WPN Fit, 02 Jan 2009
- (662227) WO Sat Pal Sharma, WPN Fit, 02 Feb 2009
- (662272) WO Subhash Chand Sharma, WPN Fit, 25 Nov 2010
- (662377) WO Patil Uttam Ramrao, WPN Fit, 02 Mar 2009
- (662390) WO Ramdular Singh, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (662718) WO Shailesh Kumar Pandey, WPN Fit, 02 May 2009



- (662842) WO Tripathy Sanjay Kumar, WPN Fit, 01 Dec 2010
- (665040) WO Gopi Krishana, WPN Fit, 02 Feb 2009
- (665075) WO Ram Bali, WPN Fit, 25 Nov 2010
- (665092) WO Jagdish Prasad, WPN Fit, 21 Nov 2010
- (665098) WO Radhe Shyam, WPN Fit, 02 Dec 2008
- (665137) WO Israr Ahmad, WPN Fit, 02 Mar 2009
- (665154) WO Rajendra Pratap Singh, WPN Fit, 25 Nov 2010
- (665170) WO Ghan Shyam Rai, WPN Fit, 02 Feb 2009
- (665207) WO Om Pal Singh Chauhan, WPN Fit, 02 Jan 2009
- (665223) WO Ashok Kumar Jain, WPN Fit, 02 Jan 2009
- (665393) WO SK Saiyeb Ali Mollah, WPN Fit, 21 Nov 2010
- (665904) WO Prafulla Kumar Nanda, WPN Fit, 29 Nov 2010
- (666056) WO Rajanarain Singh, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (666067) WO Anish Ahmad Khan, WPN Fit, 02 Mar 2009
- (666110) WO Panchanana Behera, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (666504) WO Ras Bihari Pandey, WPN Fit, 02 Apr 2009
- (666726) WO Gyaneshwar, WPN Fit, 02 Mar 2009
- (666820) WO Rajendra Prasad Agnihotri, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (666848) WO Anil Kumar, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (667063) WO Ram Naresh, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (667376) WO Bachan Singh, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (667489) WO Sri Atul Chandra Bora, WPN Fit, 27 Nov 2010
- (667537) WO Man Singh, WPN Fit, 02 Apr 2009
- (668180) WO Chhogaram Bishnoi, WPN Fit, 29 Nov 2010
- (668353) WO Tapan Kuar Nath, WPN Fit, 01 Dec 2010
- (668445) WO Verendar, WPN Fit, 29 Nov 2010
- (669121) WO Sudhansu Sekhar Satapathy, WPN Fit, 02 Apr 2009
- (669485) WO Rajendra Babu, WPN Fit, 01 Dec 2010
- (669583) WO Rakesh Kumar Tripathi, WPN Fit, 02 Apr 2009
- (669832) WO Satish Kumar Wasan, WPN Fit, 05 Dec 2010
- (669977) WO Attma Ram, WPN Fit, 29 Nov 2010
- (675021) WO Ras Bihari Yogender, WPN Fit, 02 May 2009
- (675055) WO Ghatti V Parvatheeswara Sastry, WPN Fit, 01 Dec 2010
- (675061) WO Sajeev TK, WPN Fit, 03 Dec 2010
- (675078) WO Rizvan Mohammad, WPN Fit, 02 Apr 2009
- (675087) WO Harivir Singh, WPN Fit, 01 Dec 2010
- (675289) WO Davandar Kumar Sharma, WPN Fit, 04 Nov 2008
- (675500) WO Saroj Kanta Choudhury, WPN Fit, 04 Nov 2008
- (675764) WO Niranjana Giri, WPN Fit, 03 Dec 2010
- (676939) WO Chandeshwar Prasad, WPN Fit, 04 Nov 2008
- (678962) WO Anil Kumar Chourasia, WPN Fit, 04 Nov 2008
- (678990) WO Jeet Singh Sangwan, WPN Fit, 15 Nov 2010
- (679089) WO Mritunjay Kumar, WPN Fit, 15 Nov 2010
- (679092) WO Satya Prakash Ojha, WPN Fit, 05 Dec 2010
- (695286) WO Binod Kumar Singh, WPN Fit, 15 Nov 2010
- (657311) WO Udai Pal Singh Janmeda, WS Fit (B), 05 Apr 2011
- (657851) WO Narayan Basak, WS Fit (B), 08 Apr 2011
- (657862) WO AV Dhesh Bahadur Singh, WS Fit (B), 10 Apr 2011
- (657866) WO Suren Ch Boro, WS Fit (B), 04 Apr 2011
- (658137) WO Sunkara Rajeshwara Rao, WS Fit (B), 10 Apr 2011
- (658385) WO Ashok Kumar, WS Fit (B), 06 Apr 2011
- (658876) WO Raj Nandan Yadav, WS Fit (B), 01 Oct 2011
- (658879) WO Zubair Ali, WS Fit (B), 04 Apr 2011
- (658885) WO Meghraj Singh Teotia, WS Fit (B), 04 Apr 2011
- (659053) WO Arun Kumar Singh, WS Fit (B), 10 Apr 2011
- (659075) WO Suresh Prasad Singh, WS Fit (B), 16 Apr 2011
- (665168) WO Nakul Yadava, WS Fit (B), 03 Jun 2011
- (665460) WO Thorawade Chandrakant Shripati, WS Fit (B), 12 Apr 2011

(665545) WO Prabhu Nath Goriya, WS Fit (B), 01 Aug 2011  
 (666926) WO Athokpam Shyam Kishore Singh, WS Fit (B), 06 Apr 2011  
 (667349) WO Galande Pravin Ramsukh, WS Fit (B), 04 Apr 2011  
 (657596) WO Sukh Bir Singh Nagar, WS Fit (C), 03 Feb 2011  
 (657871) WO Gokula Nanda Jena, WS Fit (C), 09 Oct 2010  
 (658900) WO Sukhvinder Singh Saini, WS Fit (C), 05 Oct 2010  
 (658901) WO Bachcha Lal, WS Fit (C), 03 Feb 2011  
 (659339) WO Vipen Kumar Agarwal, WS Fit (C), 01 Sep 2010

(659349) WO Rishi Pal, WS Fit (C), 03 Sep 2010  
 (668341) WO Arup Kumar Sen, WS Fit (C), 07 Oct 2010  
 (660569) WO Jai Raj Dhiman, WS Fit (M), 03 Oct 2009  
 (660576) WO Des Raj, WS Fit (M), 03 Oct 2009  
 (661167) WO Dharam Bir Singh, WS Fit (M), 03 Oct 2009  
 (661870) WO Devendra Kumar Singh, WS Fit (M), 03 Oct 2009  
 (662376) WO Amarpal Singh Tyagi, WS Fit (M), 01 Mar 2010  
 (666979) WO Rajpal Singh Nehra, WS Fit (M), 01 May 2010  
 (675831) WO Darshan Lal Dhingra, WS Fit (M), 01 Jul 2010

ANJALI SINGH  
 Director (Air-1)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI